



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 11—दिसम्बर 17, 2010 (अग्रहायण 20, 1932)
No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 11—DECEMBER 17, 2010 (AGRAHAYANA 20, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 2010

सं. 669, दिनांक 2 नवम्बर 2010—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निदेशक श्री हजारी लाल को 29.09.2010 (पूर्वाह्न) से 30.09.2010, उनकी अधिवर्षिता की आयु पूरी होने तक रक्षा मंत्रालय में स्वस्थाने संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, बिहार सरकार से स्थानांतरण होने पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार : 82) की अधिकारी श्रीमती रश्मि वर्मा को दिनांक 20.09.2010 (पूर्वाह्न) से, अगले 5 वर्षों के लिए 19.09.2015 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री हरबंस सिंह, निदेशक, रक्षा मंत्रालय को, 03 सितम्बर 2010 (पूर्वाह्न) से, उन्हें सेन्ट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत रखे जाने अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, इसी मंत्रालय में स्वस्थाने संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

के मुरली
अवर सचिव

सं. 670, दिनांक 2 नवम्बर 2010—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री बी बी कौड़ा, निदेशक को दिनांक 01.10.2010 (अपराह्न) से केन्द्रीय स्टाफिंग योजना में शामिल किए जाने तक रक्षा मंत्रालय में एस ए जी में संयुक्त सचिव (स्वस्थाने) के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) के लिए वर्ष 2010 की अतिरिक्त चयन सूची में नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय सेवा, रक्षा मंत्रालय के निम्नलिखित चयन ग्रेड (उप सचिव) अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीखों से रक्षा मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख

श्री चरणजीत लाल, डीएफए, 21 सितम्बर 2010

श्री आर के घटवाल, डीएस, 21 सितम्बर 2010

श्री जोस थॉमस, डीएस, 21 सितम्बर 2010

श्री सुभाष सी शर्मा, डीएस, 21 सितम्बर 2010

एस डी बांगा, डीएस, 22 सितम्बर 2010

राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (यू टी : 78) के अधिकारी श्री विवेक राय को संवर्ग से स्थानांतरण होने पर दिनांक 08.10.2010

(पूर्वाह्न) से रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग में महानिदेशक (अधिग्रहण) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस के रस्तोगी
अवर सचिव

सं. 671, दिनांक 2 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति, श्री सुरेश पुरी, आई टी एस (1991) का संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड) से स्थानांतरण होने पर उन्हें 17.08.2010 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि अर्थात् 16.08.2015 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 25 अगस्त 2010 के का.ज्ञा. संख्या 4/2/2010-सीएस.-I (डी) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) के लिए वर्ष 2010 (भाग) की चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री के एल नंदवानी, अवर सचिव को, 01 सितम्बर 2010 (पूर्वाह्न) से, रक्षा मंत्रालय में नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा में उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 06 सितम्बर, 2010 के का.ज्ञा. संख्या 4/2/2010-सीएस.-I (डी) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) के लिए वर्ष 2010 (भाग) की चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री विनीत सैनी, अवर सचिव को, 06 सितम्बर 2010 (पूर्वाह्न) से, रक्षा मंत्रालय में नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा में उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 25 अगस्त, 2010 के का.ज्ञा. संख्या 4/2/2010-सीएस.-I (डी) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) के लिए वर्ष 2010 (भाग) की चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री रमिन्द्र सिंह भाटिया, अवर सचिव को, 06 सितम्बर 2010 (पूर्वाह्न) से, रक्षा मंत्रालय में नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा में उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03 सितम्बर, 2010 के आदेश संख्या 5/3/2010-सीएस.-I (यू) की शर्तों के अंतर्गत, अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं :-

सीएसएल सं., नाम, से तैनाती, अवर सचिव के रूप में नियुक्ति की तारीख

(6688) अरुण श्याम चौधरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 24.09.2010 (पूर्वाह्न)

(6691) अरविंद शुक्ला, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, 24.09.2010 (पूर्वाह्न)

(6694) देवाशीष भारद्वाज, गृह मंत्रालय, एन सी आर बी 08.09.2010 (अपराह्न)

(6717) दिबाकर मिश्रा, कोयला मंत्रालय, 06.09.2010 (पूर्वाह्न)

2. उपर्युक्त अधिकारियों की अवर सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन है :-

तदर्थ पदोन्नति से इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के वास्ते चयन सूची में शामिल किए जाने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड-I (अवर सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने को कोई अधिकार नहीं होगा।

तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष लम्बित श्री पी आर शर्मा बनाम संघ सरकार के नाम से मूल आवेदन सं. 3294/2009 और श्री पी एस भंडारी बनाम संघ सरकार और अन्यो के नाम से मूल आवेदन सं. 2674/2009 के अंतिम परिणाम के अध्वधीन होगी।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की नियमित सहायक श्रीमती रीता शर्मा को, जो इस समय रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, उनका नाम वर्ष 2007 की अनुभाग अधिकारियों के वरिष्ठता कोटा की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 01.07.2007 (पूर्वाह्न) से, अगले आदेश जारी होने तक, 9,300--34,800/- रुपए + 4,800/- रुपए ग्रेड वेतन के वेतनमान में इसी मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति श्री कैलाश चन्द्र बनाम भारत संघ द्वारा दायर दिल्ली उच्च न्यायालय में लम्बित मामला सं. 13245-60/2005 और श्री सौरांशु सिन्हा बनाम भारत संघ द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में दायर लम्बित मामला सं. ओ.ए. 1083/2007 और एम.ए. सं. 1171/2007 और दिल्ली उच्च न्यायालय में सी डब्ल्यू पी-सं. 13352/2005, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में लम्बित ओ. ए. सं. 3294/2009 के निर्णय अध्वधीन है।

के मुरली
अवर सचिव

(वित्त प्रभाग)

सं. 672, दिनांक 3 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री प्रीत पाल सिंह को रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में दिनांक 25.08.2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, उप वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

टी जोसफ
उप वित्तीय सलाहकार (स्था/मु का)

सं. 673, दिनांक 3 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री अनूप सिंह को रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में दिनांक 15.09.2010 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक, सहायक वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर सी मीना
सहायक वित्तीय सलाहकार (स्था)

सेना शाखा

सं. 674, दिनांक 3 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 तथा AG/PS-2(a) पत्र संख्या B/32313/PC/AG/PS-2(a) दिनांकित 23 फरवरी 2007 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी को उनके 04 मार्च 2010 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर मेजर के रैंक में 04 मार्च 2010 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :--

आई सी सं., एसएस सं., नाम तथा आर्म/सर्विस

(आईसी-64940एम) (एसएस-38338पी), सोरोंत योगवीर सिंह कृष्ण कुमार, एओसी

उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :--

वेतन वृद्धि के लिए तारीख, 04 मार्च 2000

पदोन्नति के लिए तारीख, 04 नवम्बर 2001

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के दसवें वर्ष में और इसी बैच के वे अधिकारी जिन्हें सेवा के आठवें वर्ष में स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो एस एस सी 69(एन टी) के अधिकारियों को अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गई है।

राष्ट्रपति, थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी को उनके 08 जून 2010 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टिनेंट के रैंक में 08 जून 2010 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :--

आई सी सं., एसएस सं., नाम तथा आर्म/सर्विस

(आईसी-65782पी) (एसएस-39893पी), पी अप्पला सत्याप्रसाद, इंफैन्ट्री

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :--

वेतन वृद्धि के लिए तारीख, 07 सितम्बर 2002

पदोन्नति के लिए तारीख, 07 मई 2004

इस बैच के अधिकारियों को जिन्हें सेवा के 5 वर्ष बाद स्थायी कमीशन प्रदान किया गया था, उनकी तुलना में 12 महीने वरिष्ठता कम कर देने के बाद)

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के आठवें वर्ष में स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गई है।

राष्ट्रपति, थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी को उनके 19 मार्च 2010 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टिनेंट के रैंक में 19 मार्च 2010 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :--

आई सी सं., एसएस सं., नाम तथा आर्म/सर्विस

(आईसी-66442वाई) (एसएस-41297एफ), युधिष्ठिर राठौड़, इंफैन्ट्री

उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :--

वेतन वृद्धि के लिए तारीख, 19 मार्च 2005

पदोन्नति के लिए तारीख, 19 अक्टूबर 2005

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के पांच वर्ष के बाद स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गई है।

राष्ट्रपति थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 17 सितम्बर 2010 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टिनेंट के रैंक में 17 सितम्बर 2010 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :--

आईसी सं. आर्बंटित, एसएस सं., नाम तथा आर्म/सर्विस

(आईसी-66537वाई) (एसएस-41512एफ), विजेंद्र सिंह यादव, मैक इंफैन्ट्री

(आईसी-66540वाई) (एसएस-41515पी), पंकज कुमार रावत, एएससी

(आईसी-66541एफ) (एसएस-41516एक्स), के के सरीष, एएडी

(आईसी-66542के) (एसएस-41517ए), रोहित जाखड़, एसी
 (आईसी-66544पी) (एसएस-41523एन), कृष्णा कांत बाजपेई, इंफैंट्री
 (आईसी-66545एक्स) (एसएस-41524डब्ल्यू), राहुल कसाना, इंट
 (आईसी-66546ए) (एसएस-41525वाई), जगन्नाथ गौरव शर्मा, आर्टी
 (आईसी-66548एल) (एसएस-41527के), त्रिवेदी निशीथ जयतिलाल, आर्टी
 (आईसी-66549एन) (एसएस-41529पी), मधुसूदन बी एस, आर्टी
 (आईसी-66551एल) (एसएस-41531ए), धर्मवीर सिंह चौहान, आर्टी
 (आईसी-66552एन) (एसएस-41533एक्स), रविंद्र सिंह राठौड़, ईएमई
 (आईसी-66553डब्ल्यू) (एसएस-41535एच), राजपाल, आर्टी
 (आईसी-66554वाई) (एसएस-41536एल), देशपांडे अनिरुद्ध बालकृष्ण, आर्टी
 (आईसी-66556के) (एसएस-41538डब्ल्यू), अरुण कुमार एम एस, आर्टी
 (आईसी-66557एम) (एसएस-41539वाई), जगमोहन मेहरा, इंफैंट्री
 (आईसी-66558पी) (एसएस-41540एन), सौरभ समीर, इंफैंट्री
 (आईसी-66559एक्स) (एसएस-41542वाई), आनंद सिंह, इंफैंट्री
 (आईसी-66560एम) (एसएस-41544के), मोहित दुबे, एसी
 (आईसी-66561पी) (एसएस-41545एम), गिरीश ठाकुर, आर्टी
 (आईसी-66562एक्स) (एसएस-41546पी), किसलय सिंह, आर्टी
 (आईसी-66563ए) (एसएस-41547एक्स), अम्बारिश महंता, इंफैंट्री
 (आईसी-66564एच) (एसएस-41548ए), वैभव वडेरा, इंफैंट्री
 (आईसी-66566एन) (एसएस-41550एक्स), कपिल शर्मा ईएमई
 (आईसी-66567डब्ल्यू) (एसएस-41551ए), पवन कुमार बोहरा, इंफैंट्री
 (आईसी-66568वाई) (एसएस-41552एच), महिपाल सिंह, एओसी
 (आईसी-66569एफ) (एसएस-41553एल), लक्ष्य प्रताप सिंह शेखावत, मैक इंफैंट्री
 (आईसी-66570डब्ल्यू) (एसएस-41554एन), उदयन प्राताप सिंह, इंफैंट्री
 (आईसी-66572एफ) (एसएस-41556वाई), रणजीत सिंह पंवार, इंफैंट्री
 (आईसी-66573के) (एसएस-41557एफ), सुदीप सिंह, मैक इंफैंट्री

(आईसी-66574एम) (एसएस-41558के), रजनीश पाण्डेय, इंट
 (आईसी-66576एक्स) (एसएस-41561के), हेमंत मेहता, इंफैंट्री
 (आईसी-66577ए) (एसएस-41563पी), तरनदीप सिंह गिल, इंफैंट्री
 (आईसी-66579एल) (एसएस-41566एच), राजेंद्र जीत सिंह, आर्टी
 (आईसी-66581एच) (एसएस-41570एल), विनोद विश्वनाथ, इंफैंट्री
 (आईसी-66582एल) (एसएस-41572डब्ल्यू), जगदीश सिंह सामंत, एसी
 (आईसी-66584डब्ल्यू) (एसएस-41575के), नितेश सिंह, इंफैंट्री
 (आईसी-66585वाई) (एसएस-41576एम), रोवेन लेसली ब्रास, इंफैंट्री
 (आईसी-66586एफ) (एसएस-41577पी), आकाश शर्मा, आर्टी
 (आईसी-66587के) (एसएस-41578एक्स), अवधेश चौधरी, इंफैंट्री
 (आईसी-66589पी) (एसएस-41582ए), अजीत कुमार अग्रवाल, इंफैंट्री
 (आईसी-66590के) (एसएस-41583एच), आनंद बहुगुणा, एसी
 (आईसी-66591एम) (एसएस-41584एल), निखिल झोपे, आर्टी
 (आईसी-66593एक्स) (एसएस-41588एफ), एस थेंखोमंग बाईटे, इंफैंट्री
 (आईसी-66594ए) (एसएस-41590वाई), सौरभ गुप्ता, इंफैंट्री
 (आईसी-66595एच) (एसएस-41591एफ), अर्नब बैनर्जी, आर्टी
 (आईसी-66596एल) (एसएस-41592के), मंजीत सिंह, इंफैंट्री
 (आईसी-66597एन) (एसएस-41593एम), संदीप कौशल, इंफैंट्री
 (आईसी-66598डब्ल्यू) (एसएस-41594पी), देवेन्द्र सिंह, आर्टी
 (आईसी-66600एच) (एसएस-41596ए), पटेल गोपीनंदन दिनेश कुमार, इंट
 (आईसी-66602एन) (एसएस-41599एन), विवेक कुमार शर्मा, एसी
 (आईसी-66603डब्ल्यू) (एसएस-41600एक्स), अभिनव मन्मबत, आर्टी
 (आईसी-66605एफ) (एसएस-41602एच), सुरेंद्रा एस, इंफैंट्री
 (आईसी-66606के) (एसएस-41604एन), मनीष ध्यानी, इंफैंट्री
 (आईसी-66608पी) (एसएस-41606वाई), संदीप कुमार शर्मा, ईएमई
 (आईसी-66609एक्स) (एसएस-41607एफ), शैवाल श्रीवास्तवा, इंफैंट्री

(आईसी-66610एम) (एसएस-41608के), कृष्ण भण्डारी, इंटर
 (आईसी-66611पी) (एसएस-41609एम), रजत बाली, आर्टी
 (आईसी-66612एक्स) (एसएस-41611के), अक्षय लाम्बा, एसी
 (आईसी-66613ए) (एसएस-41615ए), पियुष कुमार छेत्री, आर्टी
 (आईसी-66614एचएन) (एसएस-41618,) निखिल धवन, इंफैन्ट्री
 (आईसी-66615एल) (एसएस-41619डब्ल्यू), कुलदीप सिंह चंदी,
 इंफैन्ट्री
 (आईसी-66616एन) (एसएस-41621एन), विकास काद्यान, इंटर
 (आईसी-66617डब्ल्यू) (एसएस-41622डब्ल्यू), धनताज सिंह, एसी
 (आईसी-66618वाई) (एसएस-41623वाई), अनिल कुमार चाहर,
 इंटर
 (आईसी-66619एफ) (एसएस-41624एफ), हिम्मत सिंह, इंफैन्ट्री
 (आईसी-66620डब्ल्यू) (एसएस-41626एम), रजत कुमार बिरमान,
 इंफैन्ट्री
 (आईसी-66622एफ) (एसएस-41629ए), कोंगेटीरा नचाप्पा
 थीम्माया, आर्टी
 (आईसी-66623के) (एसएस-41630पी), साचिन भटनागर, आर्टी
 (आईसी-66624एम) (एसएस-41631एक्स), अमित यादव, आर्टी
 (आईसी-66625पी) (एसएस-41632ए), सुरज भान सिंह, आर्टी
 (आईसी-66626एक्स) (एसएस-41633एच), निर्वाण बाजपेई, एसी
 (आईसी-66628एच) (एसएस-41637वाई), सौरभ बाली, इंफैन्ट्री
 (आईसी-66631एच) (एसएस-41642के), राज शोबी शामी, इंफैन्ट्री
 (आईसी-66632एल) (एसएस-41643एम), विनीत शेखर प्रेम,
 इंफैन्ट्री
 (आईसी-66635वाई) (एसएस-41650एच), गगनदीप सिंह राठौड़,
 इंफैन्ट्री
 (आईसी-66637के) (एसएस-41652एन), निरंजन सिंह देवल,
 इंफैन्ट्री
 (आईसी-66638एम) (एसएस-41653डब्ल्यू), स्वपनिल शिवजी
 खाल्कर, इंजीनियर्स
 (आईसी-66639पी) (एसएस-41654वाई), जिम्मी जेम्स, इंफैन्ट्री
 (आईसी-66640के) (एसएस-41655एफ), रमन अधिकारी, इंफैन्ट्री
 (आईसी-66641एम) (एसएस-41656के), शशी कुमार के एस,
 एएडी
 (आईसी-66642पी) (एसएस-41659एक्स), सकून, एसी
 (आईसी-66643एक्स) (एसएस-41660एम), ब्लेसन के डेनियल,
 एएडी

(आईसी-66644ए) (एसएस-41661पी), अजय कुमार भारद्वाज,
 आर्टी
 (आईसी-66645एच) (एसएस-41662एक्स), आढाव सचिन
 जगन्नाथ, ईएमई
 (आईसी-66646एल) (एसएस-41664एच), अर्जुन कपूर, एसी
 (आईसी-66647एन) (एसएस-41666एन), सुनिल कुमार, आर्टी
 (आईसी-66648डब्ल्यू) (एसएस-41667डब्ल्यू), राजेंद्र नेगी, इंफैन्ट्री
 (आईसी-66649वाई) (एसएस-41668वाई), सौभम चालंबा, इंफैन्ट्री
 (आईसी-66650एन) (एसएस-41669एफ), प्रदीप कुमार यादव,
 एएडी
 (आईसी-66652वाई) (एसएस-41672एफ), प्रवीण आर, एएडी
 (आईसी-66653एफ) (एसएस-41673के), विकास गुलेरिया, इंफैन्ट्री
 (आईसी-66654के) (एसएस-41675पी); हेमेंद्र वासुदेवा, इंफैन्ट्री
 (आईसी-66655एम) (एसएस-41676एक्स), रोशन कृष्णप्पा,
 इंफैन्ट्री
 (आईसी-66656पी) (एसएस-41677ए), शंशाक शेखर, इंफैन्ट्री
 (आईसी-66659एच) (एसएस-41682एल), नवीन चौहान, इंफैन्ट्री
 (आईसी-66660एक्स) (एसएस-41683एन), अमित कुमार शुक्ला,
 आर्टी
 (आईसी-66662एच) (एसएस-41685वाई), सुरेश कुमार डे, आर्टी
 (आईसी-66663एल) (एसएस-41689पी), चंद्रसेनन बी आर,
 इंफैन्ट्री
 (आईसी-66666वाई) (एसएस-41693एक्स), शिव नारायण शुक्ला,
 इंजीनियर्स
 (आईसी-66667एफ) (एसएस-41694ए), कुलकर्णी ओंकार
 किशोर, आर्टी
 (आईसी-66668के) (एसएस-41695एच), रुद्र आशीष पाण्डेय,
 आर्टी
 (आईसी-66669एम) (एसएस-41696एल), रणदिवे संदीप नंदकुमार,
 आर्टी
 (आईसी-66670एफ) (एसएस-41698डब्ल्यू), अभिलाष के एम,
 इंफैन्ट्री
 (आईसी-66672एम) (एसएस-41700एच), अवनीश पी सिंह, आर्टी
 (आईसी-66674एक्स) (एसएस-41704वाई), सुदीप सिंह, आर्टी
 (आईसी-66676एच) (एसएस-41706के), रिच्ची अश्विन संतोष,
 इंफैन्ट्री
 (आईसी-66678एन) (एसएस-41710एम), राहुल देव, इंफैन्ट्री

(आईसी-66680एल) (एसएस-41712एक्स), राहुल बघेल, ईएमई

(आईसी-66681एन) (एसएस-41713ए), प्रदीप सिंह गोहिल, एसी

(आईसी-66682डब्ल्यू) (एसएस-41714एच), रंजीत कुमार झा, मैक इंफैन्ट्री

(आईसी-66683वाई) (एसएस-41716एन), शंकर पति बनर्जी, आर्टी

(आईसी-66684एफ) (एसएस-41717डब्ल्यू), दीपक सुयाल, इंफैन्ट्री

उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :--

वेतन वृद्धि के लिये तारीख, 17 सितम्बर 2005

पदोन्नति के लिये तारीख, 17 अप्रैल 2006

(ग) उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

वी एस रानडे
कर्नल

कर्नल सेना सचिव-7

थल सेना विभाग

सं. 675, दिनांक 4 नवम्बर 2010--थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अंतर्गत राष्ट्रपति 05 वर्ष की अवधि के लिए सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेवा

सैनिक दंत चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन के पद पर (परख पर)

(डीएस-12343एच) योगेन्द्र कुमार, 20 जनवरी 2009 को (वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 20 जुलाई 2008 से दी जाती है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 माह पहले से दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

04 जुलाई 2009 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

(डीएस-12339ए) मधु सिंह, 19 जनवरी 2009 को (वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 19 जुलाई 2008 से दी जाती है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 माह पहले से दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

04 जुलाई 2009 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

(डीएस-12322एम) सुनील कुमार, 05 जनवरी 2009 को (वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 05 जुलाई 2008 से दी जाती है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 माह पहले से दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

04 जुलाई 2009 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

महेश चन्द्र
मेजर जनरल
एडीजीडीएस

सेना शाखा

सं. 676, दिनांक 4 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष नियुक्त करने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

प्रादेशिक सेना

पिछली तिथि से वरीयता

पूर्व मेजर विजय कुमार साहु अब (टीए-42733) लेफ्टिनेन्ट विजय कुमार साहु को प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 में निहित प्रावधान के अंतर्गत दिनांक 28 फरवरी 2009 से लेफ्टिनेन्ट के पद पर इंफैन्ट्री (टीए) में कमीशन प्रदान किया जाता है। नियमित सेना की 10 साल 02 महीने और 27 दिन (दिनांक 05 अक्टूबर 1998 से 01 जनवरी 2009) की सेवा के लिए उन्हें प्रादेशिक सेना में 01 दिसम्बर 1998 से लेफ्टिनेन्ट के पद पर वरीयता प्रदान की जाती है। पिछली तिथि से वरीयता के कारण उन्हें प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 के पैरा 25 (ए) तथा 38 (ए) में निहित प्रावधान (संशोधित संस्करण 1976), ए वी एस सी समिति प्रतिवेदन के अनुसार भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 18(1) 2006/डी (जीएस-1) दिनांक 18 दिसम्बर 2006 यथा संशोधित, के अंतर्गत वेतन वृद्धि एवम् पदोन्नति के लिए सैद्धान्तिक वरीयता के साथ दिनांक 01 दिसम्बर 2004 से कैप्टन और दिनांक 01 दिसम्बर 2006 से मेजर के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

जय राज
अवर सचिव

सं. 677, दिनांक 4 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (गुजरात : 86) के अधिकारी श्री संजय प्रसाद, परामर्शदाता (समन्वय), भारतीय दूतावास, मास्को का कार्यकाल दिनांक 29 दिसम्बर, 2010 से 28 जून, 2011 तक छह महीने के लिए अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

के मुरली
अवर सचिव

सं. 678, दिनांक 8 नवम्बर 2010--सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में सचिव के पद पर नियुक्ति के अनुमोदन के फलस्वरूप, भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार : 76) के अधिकारी श्री शशि कान्त शर्मा महानिदेशक (अधिग्रहण), रक्षा मंत्रालय की सेवाएं दिनांक 24 सितम्बर 2010 (पूर्वाह्न) से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सौंपी जाती हैं।

के मुरली
अवर सचिव

सं. 679, दिनांक 8 नवम्बर 2010--रक्षा मंत्रालय में निदेशक श्रीमती एम वी भानुमति, आईआरएस (आईटी : 87) की सेवाएं दिनांक 12 अक्टूबर 2010 (अपराह्न) से उनके मूल कार्यालय राजस्व विभाग (सीबीडीटी) को निर्धारित समय के समाप्त होने से पहले सौंपी जाती हैं ताकि वे पदोन्नति का लाभ उठा सकें।

एस के रस्तोगी
अवर सचिव

वायु शाखा

सं. 680, दिनांक 9 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित आफिसर की जिन्हें स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान किया गया था, उन्हें उनके नाम के सामने दी गई दिनांक से पुष्टि करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

उड़ान (पायलट) शाखा

फ्लाईंग आफिसर हिमंग दवे (29678), दिनांक 16 दिसम्बर 2007 से प्रभावी

वी एम मार्टीकर
विंग कमांडर
जे डी पी ओ-3 (डी)

सेना शाखा

सं. 681, दिनांक 9 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समय-मान द्वारा)

आईसी सं., नाम, आर्म व सब्सटेंटिव तिथि

(आईसी-41186के) एस एस मनहास, एसी, 18 जून 2009

(आईसी-41712एक्स) एस एच शुक्ला, इंफैंट्री, 17 दिसम्बर 2009

(आईसी-45128एक्स) वाई गुरुंग, इंफैंट्री, 10 नवम्बर 2009

(आईसी-45178एच) ए के मिश्रा, इंफैंट्री, 25 अप्रैल 2010

(आईसी-45195एच) ए के भारती, एओसी, 25 अप्रैल 2010

(आईसी-45215एल) आर के भंडारी, इंफैंट्री, 25 अप्रैल 2010

(आईसी-45243एक्स) वाई एस पठानिया, आर्टी, 25 अप्रैल 2010

(आईसी-45245एच) प्रकाश धारण, इंफैंट्री, 25 अप्रैल 2010

(आईसी-45270एफ) जी एस राठौर, एसी, 25 अप्रैल 2010

(आईसी-45269एम) एन एस शेखावत, इंफैंट्री, 25 अप्रैल 2010

(आईसी-35455पी) ए के सिंह, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004

(आईसी-41684डब्ल्यू) महेन्द्र, इंफैंट्री, 17 दिसम्बर 2009

(आईसी-41852के) एस के राय, एएडी, 09 जून 2010

(आईसी-41902के) राजीव भारद्वाज, इंजीनियर्स, 09 जून 2010

(आईसी-41918पी) रवि के, आर्टी, 09 जून 2010

(आईसी-41936एक्स) कुलदीप सिंह, इंफैंट्री, 09 जून 2010

(आईसी-41942एल) अब्राहम एम वी, आर्टी, 09 जून 2010

(आईसी-41944डब्ल्यू) एस सी कटोच, एओसी, 09 जून 2010

(आईसी-41946एफ) सदानन्द सिंह, इंफैंट्री, 09 जून 2010

(आईसी-41968ए) डी एस मोर, आर्टी, 09 जून 2010

(आईसी-41980एफ) के एन राधाकृष्णन्, इंजीनियर्स, 09 जून 2010

(आईसी-41984एक्स) एस सी त्रिपाठी, इंफैंट्री, 09 जून 2010

(आईसी-41990एल) ए एस रज्जावत, एसी, 09 जून 2010

(आईसी-41993वाई) आर एम शर्मा, एएडी, 09 जून 2010

(आईसी-41996एम) ए के यादव, एएससी, 09 जून 2010

(आईसी-42005ए) एन एस शेखावत, एएससी, 09 जून 2010

(आईसी-42007एल) राजेश ककर, ईएमई, 09 जून 2010

(आईसी-42009डब्ल्यू) रामपाल सिंह, इंफैंट्री, 09 जून 2010

(आईसी-42034पी) आर के डोगरा, इंफैंट्री, 09 जून 2010

(आईसी-42049एक्स) एम आई अख्तर, आर्टी, 09 जून 2010

(आईसी-42053ए) वी के कपूर, इंफैंट्री, 09 जून 2010

(आईसी-42087एन) के एन वी आचार्य, एएडी, 09 जून 2010

(आईसी-42090एन) ए पाठक, इंफैंट्री, 09 जून 2010

(आईसी-42001एक्स) पी एच वर्धना, मैक इंफैंट्री, 09 जून 2010

(आईसी-42108वाई) वाई सी शर्मा, इंफैंट्री, 09 जून 2010

(आईसी-42113के) सुरेन्द्र शर्मा, इंजीनियर्स, 09 जून 2010

(आईसी-42126एफ) डी के ससेन, आर्टी, 09 जून 2010	ले कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में
(आईसी-42127के) शफत खान, ईएमई, 09 जून 2010	वैयक्तिक नं., नाम, आर्म एवं मूल रैंक की तिथि
(आईसी-42139वाई) आर एस वर्मा, ईएमई, 09 जून 2010	(आईसी-50375) ए के गौतम, इंफैंट्री, 01 मई 2009
(आईसी-42141डब्ल्यू) एस भावू, आर्टी, 09 जून 2010	(आईसी-50550) आर गजराज, इंफैंट्री, 01 मई 2009
(आईसी-42146पी) पी पी बाराकोटी, गाड्स, 09 जून 2010	(आईसी-50567) आर वी कनोजिया, इंफैंट्री, 01 मई 2009
(आईसी-42167एल) सैमुअल हुड्डा, गाड्स, 09 जून 2010	(आईसी-50838) एन एस ढालिवाल, इंफैंट्री, 01 मई 2009
(आईसी-42172डब्ल्यू) डी एस शिसोदिया, इंफैंट्री, 09 जून 2010	(आईसी-46919) ए जे मोहन, इंफैंट्री, 01 मई 2009
(आईसी-42176एम) एस एस गिल, इंफैंट्री, 09 जून 2010	(आईसी-46931) ए यू सईद, इंफैंट्री, 01 मई 2009
(आईसी-42181एक्स) एस शिवदास, एसी, 09 जून 2010	(आईसी-46957) आशिश, इंफैंट्री, 01 मई 2009
(आईसी-42196ए) यशवीर सिंह, गाड्स, 09 जून 2010	(आईसी-51122) एन जे सिंह, इंफैंट्री, 01 मई 2009
(आईसी-42201ए) एम सिलभामणि, इंजीनियर्स, 09 जून 2010	(आईसी-51123) एन दहिया, इंफैंट्री, 01 मई 2009
(आईसी-42207एफ) एस दत्ता, एसी, 09 जून 2010	(आईसी-51124) एस एस एच रिज़वी, इंफैंट्री, 01 मई 2009
(आईसी-42214एक्स) पी एस राठौर, एएससी, 09 जून 2010	(आईसी-51128) वी सिंह, आर्टी, 01 मई 2009
(आईसी-42222डब्ल्यू) डी सी राय, आर्टी, 09 जून 2010	(आईसी-51131) एम पांडे, इंफैंट्री, 01 मई 2009
(आईसी-42224एफ) ए के एस चौहान, एएससी, 09 जून 2010	(आईसी-51132) पी अवस्थी, इंफैंट्री, 01 मई 2009
(आईसी-42228एक्स) संजय शर्मा, इंफैंट्री, 09 जून 2010	(आईसी-51135) ए के पुंडीर, इंफैंट्री, 01 मई 2009
(आईसी-42230पी) परमजोत सिंह, इंजीनियर्स, 09 जून 2010	(आईसी-51137) वी गेडा, आर्टी, 01 मई 2009
(आईसी-42231एक्स) ए के राय, एएससी, 09 जून 2010	(आईसी-51139) विजय काला, इंफैंट्री, 01 मई 2009
(आईसी-42232ए) विपिन पाठक, इन्ट, 09 जून 2010	(आईसी-51140) डी कुमार, इंफैंट्री, 01 मई 2009
(आईसी-42233एच) डी एस कदयान, इंफैंट्री, 09 जून 2010	(आईसी-51144) आर गुप्ता, आर्टी, 01 मई 2009
(आईसी-42248एल) डी एस विष्ट, आईसी, 09 जून 2010	(आईसी-51149) वी मल्होत्रा, इंफैंट्री, 01 मई 2009
(आईसी-42249एन) पी के सिंह, आईसी, 09 जून 2010	(आईसी-51150) ए ए साठे, आर्टी, 01 मई 2009
(आईसी-43646वाई) आई सी जोशी, इंजीनियर्स, 18 दिसम्बर 2009	(आईसी-51157) रविन्द्र सिंह, इंफैंट्री, 01 मई 2009
(आईसी-44010के) सी डी सिन्हा, ईएमई, 14 जून 2010	(आईसी-51160) एस के शेओरन, इंफैंट्री, 04 मई 2009 किन्तु
(आईसी-44017एन) के जी भावा, इंजीनियर्स, 14 जून 2010	वरिष्ठता प्रभावी 01 मई 2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
(आईसी-44024के) नगेन्द्र सिंह, इंजीनियर्स, 14 जून 2010	(आईसी-51161) के लोगनाथन, इंफैंट्री, 01 मई 2009
(आईसी-44031ए) अब्राहम जार्ज, इंजीनियर्स, 14 जून 2010	(आईसी-51163) ए मिश्रा, आर्टी, 01 मई 2009
(आईसी-44033एल) के अशोकन, सिग्नल्स, 14 जून 2010	(आईसी-51168) संतोष वी, इंफैंट्री, 01 मई 2009
(आईसी-45118एन) सतेन्द्र सिंह, इंजीनियर्स, 10 नवम्बर 2009	(आईसी-51174) डी पी सिंह, आर्टी, 01 मई 2009
(आईसी-45217डब्ल्यू) रुपेन्द्र सिंह, गाड्स, 25 अप्रैल 2010	(आईसी-51178) पी वाई जॉन, आर्टी, 01 मई 2009
(आईसी-45227ए) चरणजीत सिंह, आर्टी, 25 अप्रैल 2010	(आईसी-51183) एस द्विवेदी, इंफैंट्री, 01 मई 2009
(आईसी-45251डब्ल्यू) उमा कान्त गुप्ता, इंजीनियर्स, 25 अप्रैल 2010	(आईसी-51186) एम एस सबरवाल, इंफैंट्री, 01 मई 2009
(आईसी-45277) के के वर्मा, इंफैंट्री, 25 अप्रैल 2010	(आईसी-51193) एम डी एस दुग्गल, आर्टी, 01 मई 2009

- (आईसी-51198) बी सी फर्नांडीज, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51199) बसंत सिंह, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51211) वी एस देशपांडे, इंफैन्ट्री, 11 मई 2009 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 मई 2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
- (आईसी-51213) एस एस कुलकर्णी, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51216) टी वी पी कुमार, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51219) ए के नायर, आर्टी, 01 मई 2009
- (आईसी-51223) रंजन गुप्ता, आर्टी, 01 मई 2009
- (आईसी-51227) एन सी बंसल, आर्टी, 01 मई 2009
- (आईसी-51229) के एस कल्सी, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51233) एस श्रीवास्तवा, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51236) गुरबीर सिंह, आर्टी, 01 मई 2009
- (आईसी-51244) एन बिष्ट, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51246) राहुल शर्मा, आर्टी, 01 मई 2009
- (आईसी-51252) ए के सिंह, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51261) एस एस कार्तिकेय, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51267) ए कुमार, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51272) एस चौहान, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51276) एच एस कैला, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51277) जैड भटनागर, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51280) एम मिश्रा, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51281) आर शर्मा, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51297) ए के शर्मा, आर्टी, 01 मई 2009
- (आईसी-51299) सोमनाथ गुप्ता, आर्टी, 01 मई 2009
- (आईसी-51302) ए टहलान, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51309) एस भारद्वाज, आर्टी, 01 मई 2009
- (आईसी-51314) एन एस कलसे, आर्टी, 01 मई 2009
- (आईसी-51315) एस बी राणा, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51334) आर सेनगुप्ता, आर्टी, 01 मई 2009
- (आईसी-51338) डी यादव, आर्टी, 01 मई 2009
- (आईसी-51269) परमिन्दर सिंह, आर्टी, 01 मई 2009
- (आईसी-51271) एम गुप्ता, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51292) एस गुप्ता, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51328) विवेक कोचर, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-54627) एन आर जाखड, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-54647) एम आर मैनन, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-54654) बी एस काशिद, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-54658) आर बी चौधरी, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-54686) आर जे सिंह, आर्टी, 01 मई 2009
- (आईसी-54660) वी जयन, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51474) एस श्योरान, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51476) पी एस चोनकर, गार्ड्स, 01 मई 2009
- (आईसी-51481) एस एस बिष्ट, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51491) लविन्द्र सिंह, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51494) डी पटानिया, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51507) राजबीर सिंह, आर्टी, 01 मई 2009
- (आईसी-51516) जी एस बाजवा, आर्टी, 01 मई 2009
- (आईसी-51518) सी एस अग्रवाल, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51520) एच बी ग्रामोपाध्याय, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51521) ए के श्रीवास्तवा, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51533) आर एस थापा, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51536) एस के भाम्भु, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51541) के एस ग्रेवाल, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51549) संदीप जसवाल, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51568) आर एस कम्बोज, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51589) भारत मेहतानी, आर्टी, 01 मई 2009
- (आईसी-51590) आर कुमार, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51602) मनीष कुमार, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51603) पी पी एस धालीवाल, आर्टी, 01 मई 2009
- (आईसी-51623) आई एम अब्दी, आर्टी, 01 मई 2009
- (आईसी-51632) दीपक कपूर, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009
- (आईसी-51638) आर मनोचा, आर्टी, 01 मई 2009
- (आईसी-51656) एस के नारायण, आर्टी, 01 मई 2009
- (आईसी-51665) ब्रिजेश सिंह, इंफैन्ट्री, 01 मई 2009

(आईसी-51668) पी एस जांगु, इंफैंट्री, 01 मई 2009	थल सेना, निभाग
(आईसी-51679) सौरभ शर्मा, आर्टी, 01 मई 2009	सं. 682, दिनांक 09 नवम्बर 2010--थल सेना अनुदेश 37/78 व उसमें जारी संशोधनों के अंतर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--
(आईसी-51690) संजीव पंत, इंफैंट्री, 01 मई 2009	
(आईसी-51705) जे एस सिधू, आर्टी, 01 मई 2009	नियमित सेवा
(आईसी-51706) एस विनोद, इंफैंट्री, 01 मई 2009	सैनिक दंत चिकित्सा कोर
(आईसी-51707) वी एन कुलकर्णी, इंफैंट्री, 01 मई 2009	(स्थायी कमीशन)
(आईसी-51708) डी एस शेखावत, आर्टी, 01 मई 2009	मेजर से ले कर्नल के पद पर
(आईसी-51709) एम एस कालरा, इंफैंट्री, 01 मई 2009	(डीआर-10547डब्ल्यू) बेन्सी वर्गीज़, 28 फरवरी 2010
(आईसी-51718) ए जेठलिया, आर्टी, 01 मई 2009	(डीआर-10548वाई) बीनू जानसन जार्ज, 27 मार्च 2010
(आईसी-51796) आर एस श्योरान, इंफैंट्री, 01 मई 2009	(डीआर-10566एफ) (कु) नीरू कन्वर, 28 मार्च 2010
(आईसी-51835) एस एस काशिकर, इंफैंट्री, 01 मई 2009	महेश चन्द्र
(आईसी-51837) एस एम राज, आर्टी, 01 मई 2009	मेजर जनरल
(आईसी-51844) अर्पित थापा, इंफैंट्री, 01 मई 2009	एडीजीडीएस
(आईसी-51847) सी एम पीटर, इंफैंट्री, 01 मई 2009	-----
(आईसी-51853) के टी जी कृष्णन, इंफैंट्री, 01 मई 2009	सेना शाखा
(आईसी-51867) संजय शर्मा, इंफैंट्री, 01 मई 2009	सं. 683, दिनांक 10 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित ए एम सी अधिकारियों की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :--
(आईसी-51501) टी वाई एस बेदी, इंफैंट्री, 01 मई 2009	नियमित सेना
(आईसी-51530) एस मोहंती, इंफैंट्री, 01 मई 2009	स्थायी कमीशन
(आईसी-51564) के एस डडवाल, इंफैंट्री, 01 मई 2009	मेजर से ले कर्नल के पद पर
(आईसी-51797) एच एस संधू, इंफैंट्री, 01 मई 2009	के रामचन्द्र राव (एमआर-06920एन), एएमसी, 04 जुलाई 2008
(आईसी-51616) डी एस सुरेश, आर्टी, 01 मई 2009	द्रोनाचार्य राउथ (एमआर-07926एफ), एएमसी, 01 अप्रैल 2010
(आईसी-51655) नीरज सूद, इंफैंट्री, 01 मई 2009	मोनालिसा राय (एमआर-08013एम), एएमसी, 13 अप्रैल 2010
(आईसी-51801) सुरेन्द्र सिंह, इंफैंट्री, 01 मई 2009	सुमित कुमार दे (एमआर-08200एल), एएमसी, 14 अप्रैल 2010
(आईसी-51821) ए कोठियाल, इंफैंट्री, 01 मई 2009	पंकज दूबे (एमआर-07163डब्ल्यू), एएमसी, 25 अप्रैल 2010
(आईसी-51868) संजय बत्रा, आर्टी, 01 मई 2009	उमेश कुमार (एमआर-07961के), एएमसी, 26 अप्रैल 2010
मेजर से ले कर्नल के मूल रैंक में (समय-मान द्वारा)	वी शंकर रमन (एमआर-07101डब्ल्यू), एएमसी, 20 जनवरी 2010
आई सी नं., नाम, आर्म एवं सब्सटैंटिव तिथि	मंजु दुसाड (एमआर-07685एम), एएमसी, 12 फरवरी 2010
(आईसी-31401डब्ल्यू) पी जी देवल, मैक इंफैंट्री, 21 दिसम्बर 1996	अवधेश कुमार सिंह (एमआर-07778एम), एएमसी, 01 मार्च 2010
(आईसी-03173एच) आर पी बरथवाल, एस एल(एओ), 20 जुलाई 2004	मनीष कुमार (एमआर-08438एल), एएमसी, 19 जून 2010
	मनीष पाल (एमआर-07167एम), एएमसी, 29 जून 2010
	कुन्जन पठानिया (एमआर-07168पी), एएमसी, 29 जून 2010
	विवेक अग्रवाल (एमआर-07169एक्स), एएमसी, 29 जून 2010
	अर्चना वालिया (एमआर-07170एम), एएमसी, 29 जून 2010
	विकास अग्रवाल (एमआर-07178वाई), एएमसी, 29 जून 2010
टी के दास	
उप निदेशक	
एम एस-8 ए	

जी आर वी रेड्डी (एमआर-07180डब्ल्यू), एएमसी, 29 जून 2010
 अश्वनि उपाध्याय (एमआर-07182एफ), एएमसी, 29 जून 2010
 माधव मधुसुदन सिंह (एमआर-07185पी), एएमसी, 01 जुलाई 2010

कप्तान से मेजर के पद पर

ठोके संतोष व्यंकटेश (एमआर-08775ए), एएमसी, 22 मार्च 2010
 चेतन पंगोत्रा (एमआर-08926एन), एएमसी, 22 मार्च 2010
 ओविस महमूद सिद्दिकी (एमआर-08761ए), एएमसी, 16 दिसम्बर 2009

अमित कुमार पालीवाल (एमआर-08139एम), एएमसी, 27 दिसम्बर 2009

स्का लीडर विंग कमाण्डर के पद पर

रेनू राजगुरु (एमआर-7976एम) (27656), एएमसी, 10 नवम्बर 2008

सर्जन ले कमाण्डर से सर्जन कमाण्डर के पद पर

देव कमल कागती (एमएस-13743एफ) (एमआर-07840एच) (75706), एएमसी, 15 अप्रैल 2010

परिनिता दूबे (एमएस-13357पी) (एमआर-08483एक्स) (75647जेड), एएमसी, 14 मई 2008

यश पांडे
 ब्रिगे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मा स)

सेना शाखा

सं. 684, दिनांक 10 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना
 स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर

आईसी सं., नाम तथा आर्म

(आईसी-63762) युवराज नाथु गायकवाड, एसी
 (आईसी-63763) पी लोकचंदर, इंफैंट्री
 (आईसी-63764) अर्विंद कुमार खिचर, एएससी
 (आईसी-63765) शैलेंदर सिंह, एएडी
 (आईसी-63766) वरुण सिंह जामवाल, एसी
 (आईसी-63767) तेजिंदर सिंह, इंजीनियर्स

(आईसी-63768) दीपक बोहरा, आर्टी
 (आईसी-63769) जसवंत सिंह, इंफैंट्री
 (आईसी-63770) राजा चांगडि शेरपा, इंफैंट्री
 (आईसी-63771) मनीश मिश्रा, इंफैंट्री
 (आईसी-63772) जसबीर सिंह, एओसी
 (आईसी-63774) प्रभजोत सिंह सेखोन, सिगनल्स
 (आईसी-63775) सुरेंदर सिंह दिल्ली, इंफैंट्री
 (आईसी-63776) बलराम सिंह बिष्ट, ईएमई
 (आईसी-63777) अभिषेक कुमार, इंफैंट्री
 (आईसी-63778) कमलदीप पंवार, इंफैंट्री
 (आईसी-63779) प्रीत मोहन सिंह, इंफैंट्री
 (आईसी-63780) पुण्यबचि मोहंती, इंफैंट्री
 (आईसी-63781) कुलवीर सिंह गिल, इंफैंट्री
 (आईसी-63782) कमल चौहान, एएससी
 (आईसी-63783) राघवेंद्रा सिंह, इंफैंट्री
 (आईसी-63784) अक्षय डोगरा, इंफैंट्री
 (आईसी-63785) गौरव सोनी, आर्टी
 (आईसी-63786) पल्लव सूद, इंजीनियर्स
 (आईसी-63787) नितिन शिवाजीराव भिकाने, आर्टी
 (आईसी-63788) दिव्य पाल सिंह राठौर, मेक
 (आईसी-63789) दुष्यंत हनुमंत सोनवने, इंफैंट्री
 (आईसी-63790) हिमकर वैद्य, आर्टी
 (आईसी-63791) सौरभ चंदे, आर्टी
 (आईसी-63792) अमरिंदर सिंह बड़वाल, एएडी
 (आईसी-63793) नवीन कुमार कलालिया, इंफैंट्री
 (आईसी-63794) सी सरवनन, सिगनल्स
 (आईसी-63795) घाग सुजय शिवाजी, इंफैंट्री
 (आईसी-63796) गौरव शर्मा, इंफैंट्री
 (आईसी-63797) अमित शर्मा, आर्टी
 (आईसी-63799) हिमांशु बाली, एओसी
 (आईसी-63800) निखिल शर्मा, इंफैंट्री
 (आईसी-63801) राजेंद्रा कुमार, इंफैंट्री
 (आईसी-63802) शक्ति सिंह, एसी

- (आईसी-63803) पियुष मिश्रा, आर्टी
 (आईसी-63804) संजीत सिंह कादयान, मेक
 (आईसी-63805) यजद इलविया, इंफैंट्री
 (आईसी-63806) इरफान अहमद खान, इंफैंट्री
 (आईसी-63807) ओकेंद्रा सिंह, इंफैंट्री
 (आईसी-63808) आनंद प्रकाश सी, ईएमई
 (आईसी-63809) तुशार धसमाना, इंफैंट्री
 (आईसी-63810) मोहिंदर पाल सिंह, इंफैंट्री
 (आईसी-63811) दारा सिंह चहल, इंफैंट्री
 (आईसी-63812) अक्षय ए चतुर्वेदी, एसी
 (आईसी-63813) कंदुकुरि विस्वनधाम, आर्टी
 (आईसी-63814) दीपक कुमार शुक्ला, इंफैंट्री
 (आईसी-63815) अर्जुन सिंह बोहरा, इंफैंट्री
 (आईसी-63816) सचिन अभिमन्यु पाटिल, आर्टी
 (आईसी-63817) सी श्रीनिवास, इंफैंट्री
 (आईसी-63818) विघ्नेश बेल्लिअप्पा, इंफैंट्री
 (आईसी-63819) उदय छत्रपति बोरूडे, इंफैंट्री
 (आईसी-63820) ध्रुव यादव, एसी
 (आईसी-63821) अजीत सिंह भदोरिया, इंफैंट्री
 (आईसी-63822) शैलेंद्रा प्रताप सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-63823) संजीव लथर, इंफैंट्री
 (आईसी-63824) मनीष रमेश लंजेकर, इंफैंट्री
 (आईसी-63825) अंशुल शर्मा, आर्टी
 (आईसी-63826) सुरजीत समल, एएडी
 (आईसी-63827) मनीष डागर, एएसी
 (आईसी-63828) नितिन खन्ना, सिग्नल्स
 (आईसी-63829) अर्विंद वन्पुर, आर्टी
 (आईसी-63830) जसबिंदर बीर सिंह जड्ग, एसी
 (आईसी-63831) दिवान सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-63832) सुदीश जोसेफ वर्गीस, आर्टी
 (आईसी-63833) अभिनव झा, सिग्नल्स
 (आईसी-63834) अभिषेक गोस्वामी, इंफैंट्री
 (आईसी-63835) हेमंत कुमार, सिग्नल्स
 (आईसी-63836) मनोज कुमार यादव, एएडी
 (आईसी-63837) अमित कुमार दास, आर्टी
 (आईसी-63838) अनुज त्यागी, इंफैंट्री
 (आईसी-63839) धीरेंद्र प्रताप सिंह रावत, इंफैंट्री
 (आईसी-63840) उमेश गिरि, सिग्नल्स
 (आईसी-63841) देवेन्द्र आर पूनिया, एसी
 (आईसी-63842) संदीप श्रीवास्तव, आर्टी
 (आईसी-63843) गगोते सुर्यकांत रामचंद्रा, इंफैंट्री
 (आईसी-63844) हेम चंद्र सिंह, इंफैंट्री
 (आईसी-63845) हर्षवर्धन सिंह, इंफैंट्री
 (आईसी-63846) सौमित्रा एस मिश्रा, इंफैंट्री
 (आईसी-63847) पी श्रीनिवास, इंफैंट्री
 (आईसी-63848) सुखजीत सिंह संधु, सिग्नल्स
 (आईसी-63849) जामवंत सिंह, इंफैंट्री
 (आईसी-63850) करन सागर, इंफैंट्री
 (आईसी-63851) अर्जुन शिवाजी थोरट, मेक
 (आईसी-63852) शिव कुमार सिंह, इंफैंट्री
 (आईसी-63853) विकास धुरिया, इंफैंट्री
 (आईसी-63854) रजनीश भारद्वाज, आर्टी
 (आईसी-63855) एलिस गणेश कुमार रविंद्रा, आर्टी
 (आईसी-63857) के वी महेंद्रा, इंफैंट्री
 (आईसी-63858) आनंद एस पाटिल, इंफैंट्री
 (आईसी-63859) गौरव गर्ग, इंफैंट्री
 (आईसी-63860) अभयराज पांडुरंग गालानडे, इंफैंट्री
 (आईसी-63861) वरुण विजय गिध, इंफैंट्री
 (आईसी-63862) विवेक पाठक, आर्टी
 (आईसी-63863) सिमरन पाल सिंह, एसी
 (आईसी-63864) राम सिंह, एएससी
 (आईसी-63865) चिनगनाबम प्रणब सिंह, इंफैंट्री
 (आईसी-63866) सुशील राना, इंफैंट्री
 (आईसी-63867) वासुदेव नेहरा, इंफैंट्री
 (आईसी-63869) थोमस जेकोब, इंफैंट्री
 (आईसी-63870) नितिन मुदगल, इंफैंट्री
 (आईसी-63871) शरथ रविन्द्रन, इंजीनियर्स

(आईसी-63872) मयंक शर्मा, इंफैंट्री	(आईसी-63907) प्रशांत यादव, एओसी
(आईसी-63873) मनोज कुमार नायर, आर्टी	(आईसी-63908) विनय कुमार, इंफैंट्री
(आईसी-63874) जतिन गुलेरी, इंफैंट्री	(आईसी-63909) अंकुश गुप्ता, आर्टी
(आईसी-63875) अभिषेक चौधरी, इंफैंट्री	(आईसी-63910) मनीष दहिया, इंफैंट्री
(आईसी-63876) नवाजेश एन पाटेल, इंफैंट्री	(आईसी-63911) मनीष पांडेय, इंफैंट्री
(आईसी-63877) सोमेन्द्र कुमार, इंफैंट्री	(आईसी-63912) एस जगदीशन, एओसी
(आईसी-63878) अमित पूनिया, इंफैंट्री	(आईसी-63913) राजकुमार यादव, आर्टी
(आईसी-63879) अरूण कुमार ठाकुर, इंफैंट्री	(आईसी-63914) कुमार वैभव, आर्टी
(आईसी-63880) सुरिन्दर, एएडी	(आईसी-63915) रोशन कुमार प्रधान, इंफैंट्री
(आईसी-63881) नीलांजन बनर्जी, इंफैंट्री	(आईसी-63916) कनवर रोहित, इंफैंट्री
(आईसी-63882) अशोक कुमार, एओसी	(आईसी-63917) अमित कुमार, आर्टी
(आईसी-63883) विशाल राना, आर्टी	(आईसी-63918) नितिन खन्ना, आर्टी
(आईसी-63884) विशाल चौहान, एसी	(आईसी-63919) गौरव आनंद, इंफैंट्री
(आईसी-63885) युवराज कृष्णाराव पाटिल, इंफैंट्री	(आईसी-63920) दिपांकर देय, इंफैंट्री
(आईसी-63886) इकबाल सिंह, इंफैंट्री	(आईसी-63921) सुमित शर्मा, एएससी
(आईसी-63887) हनुमान राम, इंफैंट्री	(आईसी-63922) अंकुर गुप्ता, एएससी
(आईसी-63888) पेटर सैखोलाल तैथग, इंफैंट्री	(आईसी-63923) राजेन्द्र प्रसाद, इंफैंट्री
(आईसी-63889) कुणाल मल्होत्रा, एसी	(आईसी-63924) राहुल, मेक
(आईसी-63890) अमनदीप सिंह तूर, एओसी	(आईसी-63925) बिमल मिश्रा, इंफैंट्री
(आईसी-63891) आशुतोष शुक्ला, एएडी	(आईसी-63926) आशुतोष कुमार, इंफैंट्री
(आईसी-63892) तुषार प्रतापराव जाधव, आर्टी	(आईसी-63928) कुणाल रमेश लोनारी, एसी
(आईसी-63893) उपेन्द्र कुमार द्विवेदी, एएससी	(आईसी-63929) एम प्रदीप कुमार, एएससी
(आईसी-63894) जितेंद्र भिरोरिया, आर्टी	(आईसी-63930) विनीत सिंह, इंफैंट्री
(आईसी-63895) बिज्जानकी मिथुन कुमार, इंफैंट्री	(आईसी-63931) अभिषेक यादव, इंफैंट्री
(आईसी-63896) कविश भाटली, इंफैंट्री	(आईसी-63932) अमितेन्द्र कुमार सिंह, आर्टी
(आईसी-63897) सलगर राघवेन्द्र पृथ्वीराज, मेक	(आईसी-63933) के सतीश प्रभू, एएडी
(आईसी-63898) जगप्रीत सिंह मिधा, इंफैंट्री	(आईसी-63934) विजय रामचन्द्र जाधव, इंफैंट्री
(आईसी-63899) गुरविंदर सिंह बाजवा, इंजीनियर्स	(आईसी-63935) नरेश कुमार चौहान, इंफैंट्री
(आईसी-63900) विवेक कुमार, इंफैंट्री	(आईसी-63936) अभिषेक शर्मा, एसी
(आईसी-63901) अमित शर्मा, एएससी	(आईसी-63937) हेमंत कंडपाल, इंफैंट्री
(आईसी-63902) तरूण गौरव, आर्टी	(आईसी-63938) गणेश शंकर विद्यार्थी, इण्ट
(आईसी-63903) वरूण सिंह मल्हान, एएससी	(आईसी-63939) विनोद कुमार, एएससी
(आईसी-63905) राजा सुमित सिहाग, एओसी	(आईसी-63940) दिवेश सिंह स्पेहिया, आर्टी
(आईसी-63906) मोर्नाक साध, एओसी	

(आईसी-63941) संजीव कुमार सिंह, इंफैंट्री	(आईसी-63975) कुलदीप सिंह, एएडी
(आईसी-63942) मनीष सिंह चौहान, इंफैंट्री	(आईसी-63976) आशुतोष चौहान, एओसी
(आईसी-63943) दीपक कुमार, इंफैंट्री	(आईसी-63977) अविनाश सिंह, इंफैंट्री
(आईसी-63944) विकास लोचब, आर्टी	(आईसी-63978) आनंद सुब्बा मोरडेकाई, इंजीनियर्स
(आईसी-63945) शिखर शुक्ला, एओसी	(आईसी-63979) संजीव कुमार, आर्टी
(आईसी-63946) अंशुल गौर, इंफैंट्री	(आईसी-63980) संदीप सलवाडोर पेट्टर डीसौजा, इंफैंट्री
(आईसी-63947) शमशेर सिंह देवल, एसी	(आईसी-63981) कुलदीप अशोकराव करापे, इंफैंट्री
(आईसी-63948) सत्यम सिंह, आर्टी	(आईसी-63982) प्रवीण होसमाने, इंफैंट्री
(आईसी-63949) राजेश कुमार श्रीवास्तव, इंफैंट्री	(आईसी-63983) बिकास मुखाई, एओसी
(आईसी-63950) एम जे संजीव कुमार, इंफैंट्री	(आईसी-63984) अंकुर सिंह, इंफैंट्री
(आईसी-63951) सुदीप सिंह सांगवान, इंफैंट्री	(आईसी-63985) चिराग कपूर, एसी
(आईसी-63952) एन निरंजन सिंह, इंफैंट्री	(आईसी-63986) अमित पारोलेकर, इंफैंट्री
(आईसी-63953) जाधव संदीप अशोक, इंफैंट्री	(आईसी-63989) कुनाल जय, इंफैंट्री
(आईसी-63954) ऋषभ पालीवाल, एओसी	(आईसी-63990) कपिल रिखी, इंफैंट्री
(आईसी-63955) राजेश जोशी, इंफैंट्री	(आईसी-63991) सिद्धार्थ पाठक, आर्टी
(आईसी-63956) मलयकांत माधवकांत, इंफैंट्री	(आईसी-63992) रूपेश, एएडी
(आईसी-63957) अनिल कुमार, इंफैंट्री	(आईसी-63993) अभिनव चावला, इंजीनियर्स
(आईसी-63958) संदीप भारद्वाज, एएडी	(आईसी-63994) योगेन्द्र राय सिद्धी, इंफैंट्री
(आईसी-63959) संदीप सिंह गनधोक, इंफैंट्री	(आईसी-63995) अजिताब चन्द ठाकुरी, इंफैंट्री
(आईसी-63960) सुभ्राप्रतिम बोस, इंफैंट्री	(आईसी-63996) कुश कश्यप, इंफैंट्री
(आईसी-63961) निलेश शशिकांत भोंसले, ईएमई	(आईसी-63997) कौशलेन्द्र सिंह, इंफैंट्री
(आईसी-63962) पाटिल श्री विकास, ईण्ट	(आईसी-63998) गौरव श्रीवास्तव, आर्टी
(आईसी-63963) आशुतोष श्रीवास्तव, इंफैंट्री	(आईसी-63999) पंकज कुमार, आर्टी
(आईसी-63964) भंवर राकेश शेखावत, मेक	(आईसी-64001) राजकुमार समानंदा सिंह, इंफैंट्री
(आईसी-63965) सिद्धार्थ यादव, इंफैंट्री	(आईसी-64002) अभिषेक कुमार, इंफैंट्री
(आईसी-63966) संदीप धनकर, इंफैंट्री	(आईसी-64003) गगनदीप सिंह ससान, इंफैंट्री
(आईसी-63967) संजय कुमार बाजिया, इंफैंट्री	(आईसी-64004) अशेम खोयरेनटोमपोक मेटई, इंफैंट्री
(आईसी-63968) कमलेश कुमार, आर्टी	(आईसी-64006) नवनीत गर्ग, इंफैंट्री
(आईसी-63969) जे नरहायनन, इंफैंट्री	(आईसी-64007) विकास यादव, ईएमई
(आईसी-63970) अमित के आर झा, आर्टी	(आईसी-64008) अमिष रस्तोगी, एसी
(आईसी-63971) गौतम अरोरा, इंफैंट्री	(आईसी-64009) तमन परमार, एएससी
(आईसी-63972) पंकज कुमार, इंफैंट्री	(आईसी-64010) ओलेटेय लक्ष्मी वीरा नरेश, इंफैंट्री
(आईसी-63973) चोरगे हितेश हनुमंत, एएससी	(आईसी-64011) आर विजय आनंद, मेक
(आईसी-63974) अनित गौतम, आर्टी	(आईसी-64012) बिरेन्द्र पाल सिंह, एएससी

- (आईसी-64013) करमजीत सिंह यादव, आर्टी
 (आईसी-64014) बिक्रमजीत सिंह नजोत्रा, आर्टी
 (आईसी-64015) राहुल मित्तल, इंफैंट्री
 (आईसी-64016) अभिषेक नायर, आर्टी
 (आईसी-64017) तेजस बी कनडाडे, इंफैंट्री
 (आईसी-64018) अनिमेश मित्तल, इंफैंट्री
 (आईसी-64019) अमित शर्मा, इंफैंट्री
 (आईसी-64020) मनीष नेगी, इंफैंट्री
 (आईसी-64021) अनिश वासुदेवन, इंफैंट्री
 (आईसी-64022) उप्पन जीत सिंह, सिग्नल्स
 (आईसी-64023) सुनील अत्री, इंफैंट्री
 (आईसी-64024) कुबेर सिंह करकी, इंफैंट्री
 (आईसी-64025) रंजीत सिंह यादव, इंफैंट्री
 (आईसी-64026) विनोद कुमार एम वी, एओसी
 (आईसी-64027) चौधरी जसकार सिंह, आर्टी
 (आईसी-64029) उदय प्रताप चौरसिया, इण्ट
 (आईसी-64030) अनंत रस्तोगी, एएडी
 (आईसी-64031) धीरज कुमार, एएससी
 (आईसी-64033) कुमार सौरभ, एओसी
 (आईसी-64034) रजत, आर्टी
 (आईसी-64035) अंकित कनजोलिया, मेक
 (आईसी-64036) जीवन प्रीत सिंह, इंफैंट्री
 (आईसी-64037) पी एस मानी कनदन, एएससी
 (आईसी-64038) सुरेन्द्र सिंह नेगी, आर्टी
 (आईसी-64039) प्रवीण कुमार शर्मा, एओसी
 (आईसी-64040) आशीष देवलियाल, इंफैंट्री
 (आईसी-64041) संजीव कुमार ग्रोवर, इंफैंट्री
 (आईसी-64042) सुश्री चंदन राय, इंफैंट्री
 (आईसी-64043) राजीव कुमार झा, इंफैंट्री
 (आईसी-64044) अखिल धवन, इंफैंट्री
 (आईसी-64045) अनिमेष तमंग, इंफैंट्री
 (आईसी-64046) सुरेन्द्र सिंह, इंफैंट्री
 (आईसी-64047) खमलिआंगमंग समटे, एओसी
 (आईसी-64048) पुनीत दिलावरी, आर्टी
 (आईसी-64049) दिग्विजय भारद्वाज, ईएमई
 (आईसी-64050) कोरोलेमबा ओकराम चा, इंफैंट्री
 (आईसी-64051) नीरज कुमार झा, इन्ट
 (आईसी-64052) हर्षवर्धन, एएडी
 (आईसी-64053) प्रतीक ठाकुर, इंफैंट्री
 (आईसी-64054) प्रभाकर यादव, एएससी
 (आईसी-64056) नागेन्द्र सिंह, इंफैंट्री
 (आईसी-64058) अजय पाल सिंह, इंफैंट्री
 (आईसी-64059) अनिमेष दुबे, इंफैंट्री
 (आईसी-64060) अशोक भंडारी, इंफैंट्री
 (आईसी-64061) अजय सांगवान, आर्टी
 (आईसी-64062) प्रदीप सिंह नेगी, आर्टी
 (आईसी-64063) संदीप धनकर, मेक
 (आईसी-64064) सौरभ सिंह, इंफैंट्री
 (आईसी-64065) श्रीकुमार एम जी, एएससी
 (आईसी-64066) अतुल रावत, इंफैंट्री
 (आईसी-64067) अमित अरविन्द मलकर, इंफैंट्री
 (आईसी-64070) अजय कैथ, इंफैंट्री
 (आईसी-64071) भुपेन्द्र सोलंकी, एओसी
 (आईसी-64073) सर्वेश्वर सिंह, इंफैंट्री
 (आईसी-64074) शिशिर जुनेजा, एसी
 (आईसी-64075) चौधरी आशीष कुमार मिश्रा, इंफैंट्री
 (आईसी-64076) विपुल कुमार, मेक
 (आईसी-64077) शोभित श्रीवास्तव, इंफैंट्री
 (आईसी-64078) राहुल रंजन भारती, इंफैंट्री
 (आईसी-64079) मनीष पंत, इंफैंट्री
 (आईसी-64080) बी जोन्हसॉन, एओसी
 (आईसी-64081) सथीस कुमार वी, इंफैंट्री
 (आईसी-64082) नोपेन्द्र राना, एएससी
 (आईसी-64083) विशेक वालिय, आर्टी
 (आईसी-64084) पुनीत बौखंडी, इंफैंट्री
 (आईसी-64085) मृदुल खंडेलवाल, आर्टी
 (आईसी-64087) सरवेश शर्मा, आर्टी

- (आईसी-64088) पौरुश प्रधान, इंफैंट्री
 (आईसी-64089) शौमिक सेनगुप्ता, इंफैंट्री
 (आईसी-64090) अतुल सिन्हा, एएडी
 (आईसी-64091) आशुतोष थपलियाल, इंफैंट्री
 (आईसी-64092) होपेन्द्र ठाकुर, इंफैंट्री
 (आईसी-64093) राहुल वैजनाथ माने, एएससी
 (आईसी-64094) कुलकरनी रंजीत दिलीप, इंफैंट्री
 (आईसी-64095) मनमोहन सिंह सैनी, इंफैंट्री
 (आईसी-64096) जोनाथन दीपक समुएल, इंफैंट्री
 (आईसी-64097) रवि कुमार त्यागी, आर्टी
 (आईसी-64099) मनोज कुमार यादव, आर्टी
 (आईसी-64100) आकाश ठाकुर, इंफैंट्री
 (आईसी-64101) मुकेश डोगरा, इंफैंट्री
 (आईसी-64102) मृणाल कुमार शेखर, इंफैंट्री
 (आईसी-64103) प्रकाश कुमार राय, एएससी
 (आईसी-64104) कमल बोरा, आर्टी
 (आईसी-64105) मिश्रा अनुपम कुमार, इंफैंट्री
 (आईसी-64106) एमदविंद अचोव सिंह, इंफैंट्री
 (आईसी-64107) रविन्द्र सिंह, इंफैंट्री
 (आईसी-64108) उपिन्द्र पाल सिंह, एसी
 (आईसी-64109) विकास यादव, इंफैंट्री
 (आईसी-64110) पवन बह्ना, एएससी
 (आईसी-64111) सरवेश कुमार शर्मा, आर्टी
 (आईसी-64112) गिजो जे ओजाक्कल, इंफैंट्री
 (आईसी-64113) मोहिन आतिफ इरफान, आर्टी
 (आईसी-64114) गौरव पठानिया, इंफैंट्री
 (आईसी-64115) सुजीत कुमार कृष्णन, इंफैंट्री
 (आईसी-64116) एस सुरेश, एएससी
 (आईसी-64117) नैल उपमन्यु, आर्टी
 (आईसी-64118) राजीव भंडारी, इंफैंट्री
 (आईसी-64119) प्रमोद यादव, इंफैंट्री
 (आईसी-64120) मानवेन्द्र सिंह खनगारोट, इंफैंट्री
 (आईसी-64121) अनिल कुमार मिश्रा, इंफैंट्री
 (आईसी-64122) सिंह भरत, एएडी
 (आईसी-64123) सिधेश्वर प्रसाद द्विवेदी, आर्टी
 (आईसी-64124) उगेन नमडोल मकपेन, इंफैंट्री
 (आईसी-64125) मिहिर कुमार झा, एएससी
 (आईसी-64126) मुनीष शर्मा, एसी
 (आईसी-64127) आशीष सजगोत्रा, इंफैंट्री
 (आईसी-64129) नीरज कुमार ठक्कर, आर्टी
 (आईसी-64130) राने राहुल जगदीश, सिग्नल्स
 (आईसी-64131) मोहित चौहान, आर्टी
 (आईसी-64132) अनुराग वर्मा, इंफैंट्री
 (आईसी-64133) विजय कुमार, इंफैंट्री
 (आईसी-64134) तनमय पंत, आर्टी
 (आईसी-64135) वरम वेदाविश्वा प्रकाश, इन्ट
 (आईसी-64136) श्वपनील जोशी, इंजीनियर्स
 (आईसी-64137) रामाश्रेय यादव, एएससी
 (आईसी-64138) अंकुर कुलश्रेष्ठा, इंफैंट्री
 (आईसी-64139) आशुतोष चन्द्र, इंफैंट्री
 (आईसी-64140) दिलीप एस, इंफैंट्री
 (आईसी-64141) करन भागरा, आर्टी
 (आईसी-64142) अभिषेक चौधरी, इंफैंट्री
 (आईसी-64143) सुर्याभान सिंह, इंफैंट्री
 (आईसी-64144) राहुल गुप्ता, एओसी
 (आईसी-64145) पियुष डोबहल, इंफैंट्री
 (आईसी-64146) तरुण कुमार तिवारी, इंफैंट्री
 (आईसी-64147) अक्षय सिंह राणा, एएडी
 (आईसी-64148) आदित्य कुमार, मेक
 (आईसी-64149) विक्रम नेगी, एओसी
 (आईसी-64150) अरिन्दम देब राय, आर्टी
 (आईसी-64151) रजत ढाका, इंफैंट्री
 (आईसी-64152) तरुण रावत, एएससी
 (आईसी-64153) पुनीत पुरी, एसी
 (आईसी-64154) भुपेश बिष्ट, इंफैंट्री
 (आईसी-64155) बलविन्दर सिंह, एएडी
 (आईसी-64156) शेखर वालिया, इंफैंट्री

(आईसी-64158) तेजिंदरपाल सिंह नेगी, इंफैंट्री	(आईसी-64193) हितेन्द्र सिंह, इंफैंट्री
(आईसी-64159) पंकज अग्रवाल, इंफैंट्री	(आईसी-64194) अजय पटियाल, इंफैंट्री
(आईसी-64160) नितिन सिंह, इंफैंट्री	(आईसी-64195) प्रणव कोरंगा, आर्टी
(आईसी-64161) जे आदिनरयणा रेड्डी, सिग्नल्स	(आईसी-64196) तारकेश्वर अमोल, एसी
(आईसी-64162) ज्योति लामा, इंफैंट्री	(आईसी-64197) ज्ञानेश्वर शर्मा, आर्टी
(आईसी-64164) मदप्पा के एम, इंफैंट्री	(आईसी-64198) संकल्प, इंफैंट्री
(आईसी-64165) रवि शंकर राजन, एएससी	(आईसी-64199) आर रमेश, इंफैंट्री
(आईसी-64166) प्रमोद कुमार कंवर, इंफैंट्री	(आईसी-64200) एस इज्जावल, इंफैंट्री
(आईसी-64167) मुनिश्वर राव पाठक, इंजीनियर्स	(आईसी-64201) सुशील कुमार माहपात्रो, एएडी
(आईसी-64168) विक्रम विशाल, इंफैंट्री	(आईसी-64202) पी एन सुजय कुमार, इंफैंट्री
(आईसी-64169) सुभ्रा डे, इंफैंट्री	(आईसी-64203) दनेश शर्मा, इंफैंट्री
(आईसी-64170) प्रशान्त सिंह काशिवाले, इंफैंट्री	(आईसी-64204) दुशयंत पूनिया, एएससी
(आईसी-64171) अजय सिंह रावत, इंफैंट्री	(आईसी-64205) अभिजीत दत्ता, इंफैंट्री
(आईसी-64172) अजय कुमार, एसी	(आईसी-64206) मोहित तिवारी, आर्टी
(आईसी-64173) आशीष कुमार पाठक, मेक	(आईसी-64207) रनवीर सिंह, आर्टी
(आईसी-64174) कपिल देव शर्मा, आर्टी	(आईसी-64208) इकबाल सिंह, इंफैंट्री
(आईसी-64175) गोपाल सिंह पटियाल, आर्टी	(आईसी-64209) भारत धनखर, एसी
(आईसी-64176) अमृतेश कुमार, इंफैंट्री	(आईसी-64210) पारितोष रावत, एओसी
(आईसी-64177) महेश कुमार के, इंफैंट्री	(आईसी-64211) राज कुमार, एसी
(आईसी-64178) मरकंडेय जी, आर्टी	(आईसी-64212) शशांक मैन, आर्टी
(आईसी-64179) अभिषेक सिंह, इंफैंट्री	(आईसी-64213) तपन दीप सिंह गुजराल, एओसी
(आईसी-64180) अनिरुद्ध राव एच आर, इंफैंट्री	(आईसी-64215) अमित नेगी, ईएमई
(आईसी-64181) भाटिया अमनजीत सिंह, इंजीनियर्स	(आईसी-64216) हिमांशु राणा, ईएमई
(आईसी-64182) मयंक बोरा, आर्टी	(आईसी-64217) मयंक सुनद्रियाल, इंजीनियर्स
(आईसी-64183) रोहित डोंगाओकर, इंफैंट्री	(आईसी-64218) संदीप गगैन, सिग्नल्स
(आईसी-64184) मिनिष त्रिवेदी, एएडी	(आईसी-64219) गुरमित सिंह विरडेय, इंजीनियर्स
(आईसी-64185) विनीत वर्मा, इंफैंट्री	(आईसी-64221) केलकर श्रीकृष्णा भारत, इंजीनियर्स
(आईसी-64186) प्रदीप गगैन, ईएमई	(आईसी-64222) रविन्दर भाटिया, ईएमई
(आईसी-64187) बासवा वेंकट आनंद रेड्डी, इंफैंट्री	(आईसी-64223) अजय प्रताप एस चौहान, ईएमई
(आईसी-64188) जयदीप चट्टोपाध्याय, एसी	(आईसी-64224) विपिन कुमार सिंह, इंजीनियर्स
(आईसी-64189) भिशम कुमार, मेक	(आईसी-64225) हेनरेय पसरिजा, ईएमई
(आईसी-64190) मृगंक मयुख, इंफैंट्री	(आईसी-64226) लक्षयजीत चौहान, ईएमई
(आईसी-64191) एल सुरेश कुमार, इंफैंट्री	(आईसी-64227) अखिल मेहरौत्रा, इंजीनियर्स
(आईसी-64192) डन्डु विजय रेड्डी, इंफैंट्री	

- (आईसी-64228) तुषार सिंह, ईएमई
 (आईसी-64229) रिपुदमन, सिग्नल्स
 (आईसी-64230) गौरव भाटिया, इंजीनियर्स
 (आईसी-64231) समरेन्द्र किशोर, इंजीनियर्स
 (आईसी-64232) अजीत यादव, ईएमई
 (आईसी-64233) अतुल चन्द्र श्रीवास्तव, इंजीनियर्स
 (आईसी-64234) नितेश अग्रवाल, ईएमई
 (आईसी-64235) सिद्धार्थ अनिल ईनामदार, ईएमई
 (आईसी-64236) अमरेश्वर सिंह, सिग्नल्स
 (आईसी-64237) पवन केशव थाओकर, इंजीनियर्स
 (आईसी-64238) नितेश नागपाल, इंजीनियर्स
 (आईसी-64239) जिम्मी थोमस, इंजीनियर्स
 (आईसी-64240) सोम प्रकाश शर्मा, ईएमई
 (आईसी-64241) अक्षय सती, सिग्नल्स
 (आईसी-64242) मनदीप सिंह, ईएमई
 (आईसी-64243) विवेक सिंह परिहार, ईएमई
 (आईसी-64244) योगेश कुमार, सिग्नल्स
 (आईसी-64245) गौरव कुमार उपाध्याय, सिग्नल्स
 (आईसी-64246) मुरली किशोर वेलगादा, ईएमई
 (आईसी-64247) सुमित सिंह, सिग्नल्स
 (आईसी-64248) आशीष पटवाल, सिग्नल्स
 (आईसी-64249) अयान पौल, इंजीनियर्स
 (आईसी-64250) आनंद कुमार, इंजीनियर्स
 (आईसी-64251) संकेत सेठ, ईएमई
 (आईसी-64252) मनोजित दास, ईएमई
 (आईसी-64253) कमल भारद्वाज, सिग्नल्स
 (आईसी-64254) सत्या देव सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-64255) मानष वर्मा, ईएमई
 (आईसी-64256) आशीष बाजपेई, ईएमई
 (आईसी-64257) गुरप्रीत सिंह कालरा, ईएमई
 (आईसी-64258) हिमांशु बंसल, सिग्नल्स
 (आईसी-64259) रोबर्ट टी ए, इंजीनियर्स
 (आईसी-64260) संदीप सैनी, इंजीनियर्स
 (आईसी-64261) अमित पांडेय, ईएमई
 (आईसी-64262) प्रशांत प्रताप सिंह चौहान, ईएमई
 (आईसी-64263) अमित कुमार सिंह, ईएमई
 (आईसी-64264) शिवराज सिंह रावत, इंजीनियर्स
 (आईसी-64265) आशीष नेगी, सिग्नल्स
 (आईसी-64266) राज मोहन सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-64267) साजू थमपी एस, इंजीनियर्स
 (आईसी-64268) अभिषेक अग्निहोत्री, ईएमई
 (आईसी-64269) राहुल लिंगवाल, सिग्नल्स
 (आईसी-64270) विशाल बहुकंडा, सिग्नल्स
 (आईसी-64271) अनुज कुमार त्रिपाठी, सिग्नल्स
 (आईसी-64272) गौरव नेगी, सिग्नल्स
 (आईसी-64273) निशिकांत वर्मा, सिग्नल्स
 (आईसी-64274) अप्पाला अभिषेक, ईएमई
 (आईसी-64275) विवेक कुमार बरडिया, सिग्नल्स
 (आईसी-64276) राजा विजित, सिग्नल्स
 (आईसी-64277) आशासय शिव, इंजीनियर्स
 (आईसी-64278) हेमेन्द्र कौशिक, सिग्नल्स
 (आईसी-64287) चन्द्र प्रकाश, एईसी
 (आईसी-64296) राम नरेश शर्मा, एईसी
 (आईसी-64303) बालू भारत, एईसी
 (आईसी-64320) राकेश कुमार, एईसी
 (आईसी-64384) अनंत तपन, एईसी
 (आईसी-64387) अनिल कुमार, ईएमई
 (आईसी-68373) हितेन्द्र यादव, ईएमई
 (आईसी-68375) अभिजीत सांवत, सिग्नल्स
 (आईसी-68376) वरूण चन्दर, ईएमई
 (आईसी-68377) जस करण सिंह बाजवा, सिग्नल्स
 (आईसी-68378) अंकित गुप्ता, ईएमई
 (आईसी-68379) भट्ट अनंत राजेशकुमार, सिग्नल्स
 (आईसी-68380) कुलदीप यादव, इंजीनियर्स
 (आईसी-68381) रमेन्द्र दत्ता माथुर, ईएमई
 (आईसी-68382) उमेश स्वामी, इंजीनियर्स
 (आईसी-68383) समीर जाफरी, इंजीनियर्स
 (आईसी-68385) कुलदीप सिंह, सिग्नल्स
 (आईसी-68386) अंकित अग्रवाल, ईएमई

--12 जून 2010

- (आईसी-68387) प्रसाद मंडगौकर, ईएमई
 (आईसी-68389) मयंक नागपाल, सिग्नल्स
 (आईसी-68392) नितिन चन्द्र जोशी, इंजीनियर्स
 (आईसी-68393) नितिन कुमार दुबे, ईएमई
 (आईसी-68394) नागरकर प्रताप राममोहन, ईएमई
 (आईसी-68395) राजबीर सिंह विर्क, सिग्नल्स
 (आईसी-68396) लोहाकरे नैनिश भास्कर, सिग्नल्स
 (आईसी-68397) मनोज कुमार, इंजीनियर्स
 (आईसी-68398) अभिषेक कुमार, इंजीनियर्स
 (आईसी-68399) राजूरकर अनिरुद्ध दत्तात्रेय, इंजीनियर्स
 (आईसी-68400) प्रभजोत सिंह, सिग्नल्स
 (आईसी-68402) कूपन्नाड वी सहसरबुधे, सिग्नल्स
 (आईसी-68403) सचिन चेटल, ईएमई
 (आईसी-68404) लक्ष्मीशा स्वर्ण, इंजीनियर्स
 (आईसी-68405) भारत भूषण, इंजीनियर्स
 (आईसी-68407) एन लोगशिबेमो उद्यो, इंजीनियर्स
 (आईसी-68408) गुरकिरपाल सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-68409) अनिल कुमार सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-68410) वरूण छाबरा, सिग्नल्स
 (आईसी-68411) अजय सनवाल, एएडी
 (आईसी-68413) चेतन महेश्वरी, सिग्नल्स
 (आईसी-68414) प्रशांत शंदिलया, सिग्नल्स
 (आईसी-68415) नवतेज सिंह रनधावा, सिग्नल्स
 (आईसी-68416) नितिन लंगेह, सिग्नल्स
 (आईसी-68417) पोन्नाप्पा एम बी, सिग्नल्स
 (आईसी-68421) निमित्त सुरी, सिग्नल्स
 (आईसी-68422) कुलकर्णी तनमय राजीव, सिग्नल्स
 (आईसी-68423) सुरेश हौबम, इंजीनियर्स
 (आईसी-68424) रोहन जोशी, ई एम ई
 (आईसी-68425) जी अनुराग किरण, सिग्नल्स
 (आईसी-68426) कार्तिक सी, ई एम ई
 (आईसी-68427) सूर्या नारायण बिहारी, ई एम ई
 (आईसी-68428) मनीष कुमार यादव, सिग्नल्स
 (आईसी-68429) मोहिन्द्र मसिआ, सिग्नल्स
 (आईसी-68430) नवीण डागर, सिग्नल्स
 (आईसी-68431) देवादेश साह, इंजीनियर्स
 (आईसी-68432) दीपक सांगवान, सिग्नल्स
 (आईसी-68433) शुक्ल अतुल कुमार सुरेश, ई एम ई
 (आईसी-68434) अभिमन्यु शर्मा, इंजीनियर्स
 (आईसी-68435) महैल जैन, ई एम ई
 (आईसी-68437) राजेश प्रसाद सिंह, सिग्नल्स
 (आईसी-68438) मुकेश कुमार सिंह, सिग्नल्स
 (आईसी-68439) बिक्रमजीत सिंह, सिग्नल्स
 (आईसी-68441) राजा सेकर एम, इंजीनियर्स
 (आईसी-68442) अनान्या मोहिलेय, सिग्नल्स
 (आईसी-68443) आर पोथिराजन, सिग्नल्स
 (आईसी-68444) के वी विनायका, इंजीनियर्स
 (आईसी-68445) अपूर्वा ए भटनागर, सिग्नल्स
 (आईसी-68446) सुजीत एस नायर, सिग्नल्स
 (आईसी-68447) स्वागत कुमार पत्रा, सिग्नल्स
 (आईसी-68448) आदित्या निगम, ई एम ई
 (आईसी-68449) भरत कुमार, ई एम ई
 (आईसी-68450) संतोष कुमार, ई एम ई
 (आईसी-68451) सप्तर्षि चटर्जी, सिग्नल्स
 (आईसी-68452) मनदीप सिंह राणा, सिग्नल्स
 (आईसी-68453) असीम लखेरा, इंजीनियर्स
 (आईसी-68454) पवार उमेश अंकुश, ई एम ई
 (आईसी-68455) हरिकृष्णन आर, सिग्नल्स
 (आईसी-68456) पवन कुमार पांडेय, इंजीनियर्स
 (आईसी-68458) पल्लव कटियार, ई एम ई
 (आईसी-68459) निखिल कुमार, सिग्नल्स
 (आईसी-68460) अभिषेक कोशाल, सिग्नल्स
 (आईसी-68461) धीरज कुमार जसरोटिया, सिग्नल्स
 (आईसी-68462) सुजीत एस जोशी, ई एम ई
 (आईसी-68463) योगेश चन्द्र, इंजीनियर्स
 (आईसी-68464) तशी वांग्याल, इंजीनियर्स
 (आईसी-68465) देशमुख सुजीत दौलत, सिग्नल्स
 (आईसी-68466) सौम्या मजुमदार, इंजीनियर्स

(आईसी-68468) सचिन निमबलकर, ई एम ई

(आईसी-68470) बिक्रम सिंह, ई एम ई

--13 जून 2010--

जसवन्त सिंह
संयुक्त निदेशक
एम एस 8 सी

सं. 685, दिनांक 10 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

कोर ऑफ इंजीनियर्स

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार बलविंदर सिंह (सं. 1478398डब्ल्यू अब जेसी-339171एफ),
01 मई 2010#

हवलदार जय प्रताप तिवारी (सं. 1479190ए अब जेसी-339172के),
01 जून 2010&

हवलदार सुरेंद्र कुमार पाण्डे (सं. 1479191एफ अब जेसी-339173एम),
01 जून 2010&

हवलदार रणवीर सिंह (सं. 1479204पी अब जेसी-339174पी),
01 जून 2010&

हवलदार महेश कुमार (सं. 1479228वाई अब जेसी-339175एक्स),
01 जून 2010&

हवलदार मेहर सिंह (सं. 1479255एच अब जेसी-339176ए),
01 जून 2010&

हवलदार देवेंद्र नाथ यादव (सं. 1479385एल अब जेसी-339177एच),
01 जून 2010&

हवलदार तलविंदर सिंह (सं. 1479438वाई अब जेसी-339178एल),
03 जून 2010&

हवलदार प्रकाश चंद्र जोशी (सं. 1479757एल अब जेसी-339179एन),
01 जून 2010&

हवलदार कृष्ण चंद्र (सं. 1479765के अब जेसी-339180एच),
03 जून 2010&

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार शिवराज सिंह शेरूवत (सं. 1478907के अब जेसी-339181एल),
01 जून 2010@

हवलदार देवेंद्र कुमार पण्डा (सं. 1483120वाई अब जेसी-339182एन),
31 मई 2010@

हवलदार पाटिल हितेश कुमार इंदुभाई (सं. 1483839एल अब जेसी-339183डब्ल्यू), 29 मई 2010#

हवलदार दुर्गा सिंह राजपूत (सं. 1484204वाई अब जेसी-339184वाई),
01 जून 2010&

हवलदार शोषनाथ सिंह यादव (सं. 1484624वाई अब जेसी-339185एफ), 01 जून 2010&

हवलदार श्यामल कुमार मुखर्जी (सं. 1484304के अब जेसी-339186के),
01 जून 2010&

हवलदार विजय कुमार (सं. 1484280एल अब जेसी-339187एम),
01 जून 2010&

हवलदार नगेंद्र उपाध्याय (सं. 1484548एक्स अब जेसी-339188पी),
01 जून 2010&

हवलदार जसवीर सिंह (सं. 1483817एम अब जेसी-339189एक्स),
01 जून 2010&

नायब सूबेदार एस के टी के रैंक में

हवलदार राज कुमार (सं. 1485273एफ अब जेसी-339190एम),
16 जून 2010@

हवलदार दुष्यंत सिंह (सं. 1484985एक्स अब जेसी-339191पी),
01 जून 2010&

हवलदार प्रसिद्धा कुमार दास (सं. 1484234डब्ल्यू अब जेसी-339192एक्स), 01 जून 2010&

नायब सूबेदार सर्वे के रैंक में

हवलदार इंद्रजीत सिंह (सं. 1479089ए अब जेसी-339193ए),
28 मई 2010#

हवलदार बलवंत सिंह (सं. 15344320ए अब जेसी-339194एच),
01 जून 2010&

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 मार्च 2010)

#(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010)

&(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010)

कोर ऑफ इंजीनियर्स

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (सैन्य अभियंता सेवा) के रैंक में

पद, नाम, आर्मी नं., जेसी नं., पदोन्नति की तारीख एवं रिमार्कस्

हवलदार ई रामालिंगा रेड्डी (सं. 15303616के अब जेसी-332020ए),
09 जनवरी 2010*

हवलदार अनिल कुमार आर (सं. 15310911एफ अब जेसी-332021ए), 06 जनवरी 2010*

हवलदार जेलन बासा टी एस (सं. 1585479एन अब जेसी-332022एल),
29 जनवरी 2010#

हवलदार रवि नारायण परीडा (सं. 1484682एच अब जेसी-332023एन), 22 जनवरी 2010*

हवलदार नरेंद्र सिंह भंडारी (सं. 1487095एच अब जेसी-332024डब्ल्यू),
22 जनवरी 2010#

हवलदार राज कुमार (सं. 1488835वाई अब जेसी-332025वाई),
23 जनवरी 2010#

हवलदार चंद्रा शेखर कौजलगी (सं. 15305545एम अब जेसी-332026एफ), 08 मार्च 2010#

हवलदार योहानन टी एम (सं. 15306692एफ अब जेसी-332027एफ),
03 मई 2010*

हवलदार सुशील कुमार दास (सं. 1587341एक्स अब जेसी-332028के),
05 जनवरी 2010*

हवलदार मोरे विलास लक्ष्मण (सं. 1588358एक्स अब जेसी-
332029पी), 02 फरवरी 2010#

हवलदार तुहीन कुमार दत्ता (सं. 1484310एक्स अब जेसी-332030के),
02 फरवरी 2010#

हवलदार दिनेश चंद्रा (सं. 1492687डब्ल्यू अब जेसी-332031एम),
12 मई 2010\$

हवलदार राजेंद्र बिष्ट (सं. 1487329एफ अब जेसी-332032पी),
12 मई 2010\$

हवलदार राजू जी (सं. 15306521पी अब जेसी-332033एक्स), 06 जनवरी
2010*

हवलदार बिमल देव नाथ (सं. 1482793एफ अब जेसी-332034ए),
22 जनवरी 2010*

हवलदार वीरा पथीरा राज एन (सं. 15305579ए अब जेसी-
332035एच), 07 मई 2010#

हवलदार साजी कुमार वी (सं. 15315319एच अब जेसी-332036एल),
11 मई 2010\$

हवलदार बरूण पांडा (सं. 15313140डब्ल्यू अब जेसी-332037एन),
08 मई 2010\$

हवलदार रवि कुमार डी (सं. 15313294एच अब जेसी-332038डब्ल्यू),
08 मई 2010\$

हवलदार रविन्द्रा कुमार मल्होत्रा (सं. 1488778एच अब जेसी-
332039वाई), 08 मई 2010\$

हवलदार मानस कुमार भनजा (सं. 1487694एच अब जेसी-332040एन),
07 मई 2010\$

हवलदार सिंढेरजेश हिन्दुराज (सं. 1586926वाई अब जेसी-332041डब्ल्यू),
26 अप्रैल 2010%%

हवलदार मोहीते शिवाजी किशन (सं. 6389520एफ अब जेसी-
332042वाई), 06 जनवरी 2010*

हवलदार सुरेंद्रा कुमार सिंह (सं. 15313475एन अब जेसी-
332043एफ), 08 जनवरी 2010*

हवलदार अशोक कुमार (सं. 1587854एम अब जेसी-332044के),
13 जनवरी 2010*

हवलदार रोहित कुमार धीवार (सं. 1486106एक्स अब जेसी-
332045एम), 17 मई 2010#

हवलदार शेक जीलानी बासा (सं. 1587789एक्स अब जेसी-
332046पी), 11 मई 2010\$

हवलदार ए सरवानन (सं. 15313312ए अब जेसी-332047एक्स),
12 मई 2010\$

हवलदार अजमेर सिंह (सं. 1587026एफ अब जेसी-332048ए),
17 मई 2010\$

हवलदार तरविन्दर सिंह (सं. 1587324एक्स अब जेसी-332049एच),
15 मई 2010\$

हवलदार गुरप्रीत सिंह (सं. 1586863एफ अब जेसी-332050एक्स),
13 मई 2010\$

हवलदार मान सिंह जाधव (सं. 1578618के अब जेसी-332051ए),
19 मार्च 2010*

हवलदार पी टी अनिल कुमार (सं. 15309358एल अब जेसी-
332052एच), 04 जनवरी 2010*

हवलदार अमर दास राजू (सं. 1588066पी अब जेसी-332053एल),
06 जनवरी 2010*

हवलदार जॉन वर्गोस ए जी (सं. 15308665डब्ल्यू अब जेसी-
332054एन), 05 जनवरी 2010*

हवलदार रमेश चंद्रा पधीयारी (सं. 1485184एच अब जेसी-
332055डब्ल्यू), 30 जनवरी 2010#

हवलदार मान सिंह (सं. 1490768एक्स अब जेसी-332056वाई),
10 मई 2010\$

हवलदार गुरमुख सिंह (सं. 1492177पी अब जेसी-332057एफ),
17 मई 2010\$

हवलदार गवंडी भाऊ मधुकर (सं. 1584026डब्ल्यू अब जेसी-
332058के), 11 मई 2010\$

हवलदार मोकाशी विधयानंद गुंडा (सं. 1585045एन अब जेसी-
332059एम), 24 मई 2010\$

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
24 दिसम्बर 2009, 09 जनवरी 2010, 29 अप्रैल 2010, 13 मार्च
2010)

हवलदार शिव प्रसाद अर्ध (सं. 1481197एच अब जेसी-331160ए),
10 सितम्बर 2007*

हवलदार रघुबीर प्रसाद (सं. 1483873एल अब जेसी-331161एच),
18 मई 2007*

हवलदार सुशील कुमार स्वैन (सं. 1481326एक्स अब जेसी-331162एल), 09 मई 2007*

हवलदार कुच्छदेव गोविन्द लाल जी (सं. 1581761एफ अब जेसी-331163एन), 21 अगस्त 2007**

हवलदार बिजेन्द्र सिंह रामा (सं. 1481688एक्स अब जेसी-331164डब्ल्यू), 18 अगस्त 2007**

हवलदार मिन्दु शर्मा (सं. 1484153डब्ल्यू अब जेसी-331165वाई), 13 जुलाई 2007**

हवलदार दीना लाल साहू (सं. 1582216के अब जेसी-331166एफ), 25 अगस्त 2007**

हवलदार कुलकर्णी शशिकान्त (सं. 1581366एन अब जेसी-331167के), 09 सितम्बर 2007**

हवलदार डी नगेश्वर रेड्डी (सं. 15310521एम अब जेसी-331168एन), 14 सितम्बर 2007**

हवलदार पटेल दिनेश कुमार नगवी (सं. 1580899के अब जेसी-331169पी), 11 सितम्बर 2007**

हवलदार साजी मैथ्यू (सं. 1580987ए अब जेसी-331170के), 18 जुलाई 2007**

हवलदार रामा चन्द्रा सिंह (सं. 1479771एक्स अब जेसी-331171एम), 14 अगस्त 2007**

हवलदार राम दयाल (सं. 1484155एफ अब जेसी-331172पी), 08 अक्टूबर 2007***

हवलदार अनिल कुमार सिंह (सं. 1481975एच अब जेसी-331173एक्स), 08 अक्टूबर 2007***

हवलदार के आर पालानीअप्पन (सं. 1579761एच अब जेसी-331174ए), 10 अक्टूबर 2007***

हवलदार मोहन सिंह माहार (सं. 1484452पी अब जेसी-331175एच), 04 अक्टूबर 2007***

हवलदार जसविन्दर सिंह (सं. 1479653के अब जेसी-331176एल), 10 अक्टूबर 2007***

हवलदार गोविन्द यादव (सं. 1582431पी अब जेसी-331177एन), 04 अक्टूबर 2007***

हवलदार बी जोन जोसफ (सं. 15308589पी अब जेसी-331178डब्ल्यू), 05 अक्टूबर 2007***

हवलदार हरि नन्द तिवारी (सं. 1484467एक्स अब जेसी-331179वाई), 04 अक्टूबर 2007***

हवलदार सुरेन्द्र पाल शर्मा (सं. 15307456एम अब जेसी-331180एन), 05 अक्टूबर 2007***

हवलदार संदीप दत्ता (सं. 1483908डब्ल्यू अब जेसी-331181डब्ल्यू), 10 अक्टूबर 2007***

हवलदार संतोष कुमार पिल्लै (सं. 1578956एफ अब जेसी-331182वाई), 05 अक्टूबर 2007***

हवलदार रतन सिंह (सं. 1484981एफ अब जेसी-331183एफ), 06 अक्टूबर 2007***

हवलदार पी जेराल्ड (सं. 1582892वाई अब जेसी-331184के), 08 अक्टूबर 2007***

हवलदार जरनेल सिंह (सं. 1484328एन अब जेसी-331185एम), 06 अक्टूबर 2007***

हवलदार राज कुमार (सं. 1484770वाई अब जेसी-331186पी), 08 अक्टूबर 2007***

हवलदार रूप लाल (सं. 15307093एन अब जेसी-331187एक्स), 08 अक्टूबर 2007***

हवलदार प्रकाश बी (सं. 15308176एल अब जेसी-331188ए), 05 अक्टूबर 2007***

हवलदार दुर्गा विजय उपाध्याय (सं. 1583687के अब जेसी-331189एच), 05 अक्टूबर 2007***

हवलदार रोशन अली (सं. 1582490एफ अब जेसी-331190एक्स), 06 अक्टूबर 2007***

हवलदार सिंगासन यादव (सं. 1483863एफ अब जेसी-331191ए), 08 अक्टूबर 2007***

हवलदार ठाकुर सुरेश चन्द गोपी चन्द (सं. 1582401एक्स अब जेसी-331192एच), 05 अक्टूबर 2007***

हवलदार ब्रिज राज सिंह (सं. 1484536एच अब जेसी-331193एल), 09 अक्टूबर 2007***

हवलदार गुरमीत सिंह (सं. 1582410वाई अब जेसी-331194एन), 08 अक्टूबर 2007***

हवलदार कैलाश चन्द स्वैन (सं. 1483118एफ अब जेसी-331195डब्ल्यू), 19 मई 2007*

हवलदार सिवादासन ए (सं. 15303510एक्स अब जेसी-331196वाई), 11 सितम्बर 2007**

हवलदार रतीश कोटयन (सं. 15304364पी अब जेसी-331197एफ), 24 सितम्बर 2007**

हवलदार यरनागुला चिट्टी बाबू (सं. 15307319एन अब जेसी-331198के), 13 जुलाई 2007**

हवलदार वी सेकर (सं. 15304613एच अब जेसी-331199एम), 05 सितम्बर 2007**

हवलदार प्रवेश कुमार (सं. 6933282एल अब जेसी-331200डब्ल्यू), 03 सितम्बर 2007**

हवलदार शुक्ला अशोक कुमार (सं. 1485783एच अब जेसी-331201वाई), 19 अक्टूबर 2007***

हवलदार राजेश सिंह यादवा (सं. 1482165एम अब जेसी-331202एफ), 19 अक्टूबर 2007***

हवलदार हिरेन्द्र सिंह (सं. 1481663एम अब जेसी-331203के), 17 अक्टूबर 2007***

हवलदार यतीन्द्रा सिंह (सं. 1482223एल अब जेसी-331204एम), 23 अक्टूबर 2007***

हवलदार एस कालीदासन (सं. 1380060पी अब जेसी-331206एक्स), 22 अक्टूबर 2007***

हवलदार विरेन्द्र सिंह (सं. 1481062एफ अब जेसी-331207एच), 22 अक्टूबर 2007***

हवलदार प्रदीप कुमार राय (सं. 1583236के अब जेसी-331208एच), 19 अक्टूबर 2007***

हवलदार अजय कुमार बल्लयार सिंह (सं. 1482344एम अब जेसी-331209एल), 24 अक्टूबर 2007***

हवलदार श्याम सुन्दर देबदास (सं. 15307516डब्ल्यू अब जेसी-331210ए), 31 दिसम्बर 2007"/

हवलदार जया धनाराज पी (सं. 15309116एम अब जेसी-331211एच), 14 नवम्बर 2007**

हवलदार कैलाश चन्द्र मोहनती (सं. 1484298एफ अब जेसी-331212एल), 04 अक्टूबर 2007***

हवलदार धमेन्द्र (सं. 1583227एच अब जेसी-331213एन), 04 अक्टूबर 2007***

हवलदार अमरेश प्रताप सिंह (सं. 15308316एम अब जेसी-331214डब्ल्यू), 08 अक्टूबर 2007***

हवलदार अरविन्द कुमार सिंह (सं. 1482559एल अब जेसी-331215वाई), 29 अक्टूबर 2007***

हवलदार अनिल कुमार एस के (सं. 15309197एन अब जेसी-331216एफ), 31 अक्टूबर 2007***

हवलदार राजांगम ए (सं. 15309117एल अब जेसी-331217के), 12 नवम्बर 2007***

हवलदार अजीर बिहारी (सं. 1484458डब्ल्यू अब जेसी-331218एम), 26 नवम्बर 2007***

हवलदार सुरेश पी के (सं. 15308604वाई अब जेसी-331219पी), 28 नवम्बर 2007***

हवलदार श्याम लाल तोमर (सं. 1581529डब्ल्यू अब जेसी-331220के), 19 दिसम्बर 2007***

हवलदार नरपत सिंह शेखावत (सं. 1586049डब्ल्यू अब जेसी-331221एम), 24 दिसम्बर 2007@

हवलदार फतेह सिंह (सं. 1481219डब्ल्यू अब जेसी-331222पी), 18 दिसम्बर 2007@

हवलदार दुलाल बिस्वास (सं. 1484300एन अब जेसी-331223एक्स), 18 दिसम्बर 2007@

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 1483636एफ अब जेसी-331224ए), 19 दिसम्बर 2007@

हवलदार अनिल कुमार (सं. 1484979के अब जेसी-331225एच), 19 दिसम्बर 2007@

हवलदार जीत सिंह (सं. 1485078के अब जेसी-331226एल), 19 दिसम्बर 2007@

हवलदार आजाद सिंह (सं. 1582825एन अब जेसी-331227एन), 19 दिसम्बर 2007@

हवलदार वी लोगानाथन (सं. 15309946वाई अब जेसी-331228डब्ल्यू), 19 दिसम्बर 2007@

हवलदार बिधयुत भट्टाचार्या (सं. 1489626एन अब जेसी-331229वाई), 20 दिसम्बर 2007@

हवलदार राम कुमार (सं. 1586216एफ अब जेसी-331230एन), 22 दिसम्बर 2007@

हवलदार सुमेर सिंह हिन्डा (सं. 1484214एच अब जेसी-331231डब्ल्यू), 24 दिसम्बर 2007@

हवलदार एन चन्द्रन (सं. 15311572एम अब जेसी-331232वाई), 24 दिसम्बर 2007@

हवलदार जग मोहन कनवर (सं. 1483021डब्ल्यू अब जेसी-331233एफ), 26 दिसम्बर 2007@

हवलदार बलदेव सिंह (सं. 1483001एच अब जेसी-331234के), 31 दिसम्बर 2007@

हवलदार भारत सिंह (सं. 1482333ए अब जेसी-331235एम), 08 अगस्त 2007**

हवलदार देवेन्द्र सिंह रावत (सं. 1482251एक्स अब जेसी-331236पी), 30 दिसम्बर 2007**

हवलदार रोमेश कुमार (सं. 1484490एल अब जेसी-331237एक्स), 17 नवम्बर 2007***

हवलदार दिनेश पाल सिंह चौहान (सं. 1482297ए अब जेसी-331238ए), 18 अक्टूबर 2007***

हवलदार अजय मोहन जोशी (सं. 1484512वाई अब जेसी-331239एच), 18 अक्टूबर 2007***

हवलदार एन कन्दन (सं. 15304919एल अब जेसी-331240एक्स), 20 अक्टूबर 2007***

हवलदार हसन कुन्जु एम (सं. 1484301डब्ल्यू अब जेसी-331241ए), 22 अक्टूबर 2007***

- हवलदार मो शमीम खान (सं. 1579754एम अब जेसी-331242एच),
22 अक्टूबर 2007***
- हवलदार शेख अपसर (सं. 15306156वाई अब जेसी-331243एल),
22 अक्टूबर 2007***
- हवलदार कदम संजय शंकर (सं. 1581440के अब जेसी-331244एन),
25 अक्टूबर 2007***
- हवलदार सुनील एस आर (सं. 1486179के अब जेसी-331245डब्ल्यू),
26 अक्टूबर 2007***
- हवलदार मुराद बेग (सं. 1576278एन अब जेसी-331246वाई),
26 अक्टूबर 2007***
- हवलदार बलविन्दर सिंह (सं. 14612559एक्स अब जेसी-
331247एफ), 26 अक्टूबर 2007***
- हवलदार तेज पाल सिंह (सं. 1485023ए अब जेसी-
331248के), 27 अक्टूबर 2007***
- हवलदार सलोखे अजय रामाचन्द्रा (सं. 6390013ए अब जेसी-
331249एम), 05 नवम्बर 2007***
- हवलदार शेर सिंह (सं. 1484975एन अब जेसी-331250एफ),
12 नवम्बर 2007***
- हवलदार राम पाल (सं. 1486531एच अब जेसी-331251के),
12 नवम्बर 2007***
- हवलदार मूर्ति नायक (सं. 15301100एच अब जेसी-331252एम),
13 नवम्बर 2007***
- हवलदार महेन्द्र सिंह (सं. 1579564ए अब जेसी-331253पी),
19 नवम्बर 2007***
- हवलदार जगत सिंह (सं. 1486981ए अब जेसी-331254एक्स),
28 नवम्बर 2007***
- हवलदार विक्रम सिंह बिष्ट (सं. 1484477एफ अब जेसी-331255ए),
24 दिसम्बर 2007***
- हवलदार राम मिलन (सं. 1484278एन अब जेसी-331256एच),
20 दिसम्बर 2007@
- हवलदार विजय कुमार सिखा (सं. 1484865वाई अब जेसी-
331257एल), 20 दिसम्बर 2007@
- हवलदार भुपेन्द्रा चौधरी (सं. 1581977एच अब जेसी-331258एन),
20 दिसम्बर 2007@
- हवलदार कैलाश चन्द (सं. 1578105पी अब जेसी-331259डब्ल्यू),
26 दिसम्बर 2007@
- हवलदार अजय कुमार (सं. 1585621एम अब जेसी-331260एल),
26 दिसम्बर 2007@
- हवलदार मनोहर सिंह (सं. 1580892ए अब जेसी-331261एन),
31 दिसम्बर 2007@
- हवलदार दिनेश सिंह (सं. 1484866एफ अब जेसी-331262डब्ल्यू),
27 दिसम्बर 2007@
- हवलदार राम दिग्विजय अजीत सिंह (सं. 1481181एक्स अब
जेसी-331263वाई), 11 अगस्त 2007aa
- हवलदार राकेश कुमार (सं. 1480299एम अब जेसी-331264एफ),
22 अक्टूबर 2007***
- हवलदार एम रमेश बाबू (सं. 15311091ए अब जेसी-331265के),
10 मार्च 2008**
- हवलदार सत्यवीर सिंह (सं. 1484154वाई अब जेसी-331266एम),
04 अक्टूबर 2007***
- हवलदार अशोक कुमार (सं. 6389777एम अब जेसी-331267पी),
01 मई 2008***
- हवलदार निकम दत्तातरी पाडूरंग (सं. 1585867एल अब जेसी-
331268एक्स), 24 दिसम्बर 2007***
- हवलदार राजपाल (सं. 1484442एल अब जेसी-331269ए),
24 दिसम्बर 2007***
- हवलदार रोय पी एम (सं. 15308210ए अब जेसी-331270पी),
20 दिसम्बर 2007@
- हवलदार मुकेश कुमार (सं. 1587914डब्ल्यू अब जेसी-331271एक्स),
17 दिसम्बर 2007@
- हवलदार संतोष कुमार वी एस (सं. 15310074एन अब जेसी-
331272ए), 31 दिसम्बर 2007@
- हवलदार राजेन्द्रा प्रसाद (सं. 1482393पी अब जेसी-331273एच),
26 फरवरी 2008@
- हवलदार चन्दन कुमार सिंह (सं. 1583335एम अब जेसी-
331274एल), 04 मार्च 2008@
- हवलदार हबीबुर रहमान (सं. 1480827एल अब जेसी-331275एन),
22 दिसम्बर 2007@
- हवलदार चूडासामा गजेन्द्रा सिंह (सं. 15310309पी अब जेसी-
331276डब्ल्यू), 08 जनवरी 2008@
- हवलदार एस जगनाथन (सं. 15309101ए अब जेसी-331277वाई),
29 फरवरी 2008@
- हवलदार शम्भू शरण भारती (सं. 1583016ए अब जेसी-331278एफ),
21 जनवरी 2008@
- हवलदार हरेश बाबू टी पी (सं. 1578459एक्स अब जेसी-331279के),
12 फरवरी 2008@
- हवलदार कामठे यशवन्त भीमराव (सं. 1575206एक्स अब
जेसी-331280वाई), 03 जनवरी 2008@

हवलदार राज कुमार (सं. 1482570के अब जेसी-331281एफ),
12 जनवरी 2008@

हवलदार डी धनाशेखरन (सं. 15310048एम अब जेसी-331282के),
07 जनवरी 2008@

हवलदार विजय सिंह (सं. 1484299के अब जेसी-331283एम),
05 जनवरी 2008@

हवलदार चन्द्र कुमार एम (सं. 15301538वाई अब जेसी-331284पी),
29 जनवरी 2008@

हवलदार बिजु के वी (सं. 15308296के अब जेसी-331285एक्स),
15 मई 2008@

हवलदार विजय प्रकाश (सं. 1484937एक्स अब जेसी-331286ए),
13 मार्च 2008⇒

हवलदार सरदार सिंह (सं. 1484890एक्स अब जेसी-331287एच),
12 मार्च 2008⇒

हवलदार बोयिरी उमा महेश्वारा राव (सं. 1484216एन अब
जेसी-331288एल), 12 मार्च 2008⇒

हवलदार अजायेब सिंह (सं. 1582370एच अब जेसी-331289एन),
12 मार्च 2008⇒

हवलदार प्रमोद कुमार (सं. 1581371वाई अब जेसी-331290एच),
12 मार्च 2008⇒

हवलदार अप्पादुराई सी (सं. 15309945डब्ल्यू अब जेसी-
331291एल), 17 मार्च 2008⇒

हवलदार मुहामुनकर विलास (सं. 1582820पी अब जेसी-331292एन),
24 मार्च 2008⇒

हवलदार यूकी दिलीप सूर्यभान (सं. 1484811एक्स अब जेसी-
331293डब्ल्यू), 10 अप्रैल 2008⇒

हवलदार सोरन सिंह (सं. 1582886एल अब जेसी-331294वाई),
28 मार्च 2008⇒

हवलदार लल्लन सिंह कुशवाहा (सं. 6931514ए अब जेसी-
331295एफ), 10 अप्रैल 2008⇒

हवलदार प्रीथविश कुमार देबनाथ (सं. 1582869एल अब
जेसी-331296के), 01 मई 2008⇒

हवलदार अभिनागा कुमार (सं. 1582320एक्स अब जेसी-331297एम),
17 जनवरी 2008***

हवलदार मो ईब्राहिम (सं. 15303400डब्ल्यू अब जेसी-331298पी),
04 जनवरी 2008***

हवलदार निरंजन नायक (सं. 1482374के अब जेसी-331299एक्स),
14 जनवरी 2008***

हवलदार तोरन सिंह (सं. 1582879पी अब जेसी-331300पी),
27 दिसम्बर 2007***

हवलदार रघूटू श्रीनिवासा राव (सं. 15307341वाई अब जेसी-
331301के), 25 फरवरी 2008@

हवलदार जगदीश प्रसाद (सं. 1576766डब्ल्यू अब जेसी-331302एम),
07 मई 2007aa

हवलदार डी वी शिव राम (सं. 1576711एम अब जेसी-331303पी),
04 अप्रैल 2008\$

हवलदार विरेन्द्रा सिंह (सं. 1576722वाई अब जेसी-331304एक्स),
03 अप्रैल 2008\$

हवलदार बलजीत सिंह (सं. 1576759ए अब जेसी-331305ए),
04 अप्रैल 2008\$

हवलदार ठाकुर रतन सिंह वी (सं. 1578921एल अब जेसी-
331306एच), 04 अप्रैल 2008\$

हवलदार केवल मसीह (सं. 1578413पी अब जेसी-331307एल),
09 अप्रैल 2008\$

हवलदार सिमोन जोन वी (सं. 15306036ए अब जेसी-331308एन),
08 अप्रैल 2008\$

हवलदार बिनोय बाबू एस (सं. 15306045एफ अब जेसी-
331309डब्ल्यू), 04 अप्रैल 2008\$

हवलदार राजू के वी (सं. 15306061वाई अब जेसी-331310एल),
04 अप्रैल 2008\$

हवलदार भगत ताना जी गुलाब (सं. 1579811एच अब जेसी-
331311एन), 15 अप्रैल 2008\$

हवलदार कोकाटे अजीनाथ रतन (सं. 1580211एम अब जेसी-
331312डब्ल्यू), 07 अप्रैल 2008\$

हवलदार भास्कर प्रताप पाण्डे (सं. 1580002पी अब जेसी-331313वाई),
02 अप्रैल 2008\$

हवलदार राम एकबाल कुशवाहा (सं. 1578686एक्स अब जेसी-
331314एफ), 04 अप्रैल 2008\$

हवलदार राम बली वर्मा (सं. 1579346एफ अब जेसी-331315के),
08 अप्रैल 2008\$

हवलदार अनील कुमार पी के (सं. 1579766एफ अब जेसी-
331316एफ), 04 अप्रैल 2008\$

हवलदार संजय कुमार शुक्ला (सं. 1586181डब्ल्यू अब जेसी-
331317पी), 03 अप्रैल 2008\$

हवलदार सुरेश चन्द्रा साहू (सं. 1586196वाई अब जेसी-331318एक्स),
04 अप्रैल 2008\$

हवलदार बदन सिंह बघेल (सं. 1484998पी अब जेसी-331319ए),
04 अप्रैल 2008\$

हवलदार जितेन्द्रा कुमार (सं. 1485301एच अब जेसी-331320पी),
03 अप्रैल 2008\$

हवलदार मधू सूदन नायर (सं. 1485368एफ अब जेसी-331321एक्स), 09 अप्रैल 2008\$

हवलदार शम्भू सिंह राव (सं. 1485429एन अब जेसी-331322ए), 07 अप्रैल 2008\$

हवलदार नितई चन्द सिंघा (सं. 1485716एक्स अब जेसी-331323एच), 05 अप्रैल 2008\$

हवलदार मोहन छेत्री (सं. 1485801ए अब जेसी-331324एल), 07 अप्रैल 2008\$

हवलदार राजेश कुमार (सं. 1485827पी अब जेसी-331325एन), 10 अप्रैल 2008\$

हवलदार संजय कुमार राय (सं. 1486010पी अब जेसी-331326डब्ल्यू), 22 अप्रैल 2008\$

हवलदार बिरेन्द्र कुमार (सं. 1486105पी अब जेसी-331327वाई), 03 अप्रैल 2008\$

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 1486108एच अब जेसी-331328एफ), 03 अप्रैल 2008\$

हवलदार गौरी शंकर यादव (सं. 1486153पी अब जेसी-331329के), 01 अप्रैल 2008\$

हवलदार जय सिंह चौधरी (सं. 1486393एम अब जेसी-331330वाई), 03 अप्रैल 2008\$

हवलदार भूपेन्द्रा सिंह स्तेला (सं. 1487011के अब जेसी-331331एफ), 05 अप्रैल 2008\$

हवलदार पवन कुमार (सं. 1585647एफ अब जेसी-331332के), 31 मार्च 2008\$

हवलदार दशरथी प्रधान (सं. 1586198के अब जेसी-331333एम), 03 अप्रैल 2008\$

हवलदार शेतु जे (सं. 15304845एफ अब जेसी-331334पी), 19 अप्रैल 2008\$

हवलदार नग्गपा बासुनल (सं. 15306024वाई अब जेसी-331335एक्स), 04 अप्रैल 2008\$

हवलदार प्रहलादन एस (सं. 15306055एल अब जेसी-331336ए), 15 अप्रैल 2008\$

हवलदार वर्गीस पी एस (सं. 15306940एम अब जेसी-331337एच), 04 अप्रैल 2008\$

हवलदार पी गुनाशेखरन (सं. 15308843एन अब जेसी-331338एल), 04 अप्रैल 2008\$

हवलदार नारायण राम (सं. 1576661एम अब जेसी-331339एन), 15 अप्रैल 2008\$

हवलदार बिपलब डे (सं. 1485687एन अब जेसी-331340एच), 23 अप्रैल 2008\$

हवलदार मोहन लाल (सं. 1486116एफ अब जेसी-331341एल), 29 अप्रैल 2008\$

हवलदार मोरे किसन लक्ष्मण (सं. 15308797के अब जेसी-331342एन), 30 अप्रैल 2008\$

हवलदार जाधव दिलीप रामदास (सं. 1579591के अब जेसी-331343डब्ल्यू), 13 मई 2008\$

हवलदार रामेश्वर दत्त (सं. 1584301एल अब जेसी-331344वाई), 07 जून 2008⇒

हवलदार प्रबीर चन्द्र पाण्डे (सं. 1483644ए अब जेसी-331345एफ), 11 जून 2008%%

हवलदार कुँवर पाल (सं. 6390644एच अब जेसी-331346के), 11 जून 2008%%

हवलदार जो मोरीअप्पन (सं. 15308590के अब जेसी-331347एम), 11 जून 2008%%

हवलदार आनन्द सिंह (सं. 1586165वाई अब जेसी-331348पी), 12 जून 2008%%

हवलदार ऊनी कृष्णन बी (सं. 15310332एच अब जेसी-331349एक्स), 13 जून 2008%%

हवलदार रविन्द्र कुमार (सं. 1583270के अब जेसी-331350एम), 18 जून 2008%%

हवलदार जगताप दिलीप नारायण (सं. 1483894एफ अब जेसी-331351पी), 18 जून 2008%%

हवलदार ए थोमस (सं. 15309206के अब जेसी-331352एक्स), 19 जून 2008%%

हवलदार उज्जवल मुखर्जी (सं. 1586036वाई अब जेसी-331353ए), 16 जून 2008%%

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 1586065एन अब जेसी-331354एच), 11 जून 2008%%

हवलदार हेतराम (सं. 1490706एक्स अब जेसी-331355एल), 13 जून 2008%%

हवलदार अशादुज्जमन मण्डल (सं. 1587591वाई अब जेसी-331356एन), 11 जून 2008%%

हवलदार अनील कुमार आर (सं. 15311335एच अब जेसी-331357डब्ल्यू), 11 जून 2008%%

हवलदार विजय सिंह (सं. 1484023एन अब जेसी-331358वाई), 14 जून 2008%%

हवलदार साहब सिंह (सं. 1586225एच अब जेसी-331359एफ), 11 जून 2008%%

हवलदार कृष्ण दत्त शर्मा (सं. 1588119एच अब जेसी-331360डब्ल्यू), 16 जून 2008%%

हवलदार देवेन्द्र सिंह (सं. 1586133डब्ल्यू अब जेसी-331361वाई),
10 जून 2008%%

हवलदार बिबेकानन्द बर्नजा (सं. 1479398एच अब जेसी- 331362एफ),
18 अक्टूबर 2007***

हवलदार रमेश कुमार सिंह (सं. 1484279डब्ल्यू अब जेसी- 331363के),
11 मार्च 2008⇒

हवलदार राजपाल (सं. 1484971एक्स अब जेसी-331364एम),
12 मार्च 2008⇒

हवलदार गनवट सुहास गनपत (सं. 1579899एक्स अब जेसी-331365पी),
07 मई 2008⇒

हवलदार ई. टी. जोरली (सं. 15308890एल अब जेसी-
331366एक्स), 16 जून 2008⇒

हवलदार गुरमीत सिंह (सं. 1490225एल अब जेसी-331367ए),
16 जून 2008⇒

हवलदार भूपति आर (सं. 15311274डब्ल्यू अब जेसी-331368एच),
30 जून 2008⇒

हवलदार इन्द्राज सिंह (सं. 1586881के अब जेसी-331369एल),
16 जून 2008⇒

हवलदार जगदीश सिंह (सं. 1485006ए अब जेसी-331370ए),
24 जून 2008⇒

हवलदार योगराज (सं. 1486287एन अब जेसी-331371ए), 06 जून
2007*

हवलदार विनोद कुमार (सं. 1489007ए अब जेसी-331372एल),
16 जून 2008+

हवलदार संजीव कुमार (सं. 1585770ए अब जेसी-331373एन),
10 जून 2008+

हवलदार मो अजीजुल हक (सं. 1586222पी अब जेसी-331374डब्ल्यू),
24 जून 2008+

हवलदार संतोष कुमार एस (सं. 1588138एन अब जेसी-331375वाई),
11 जून 2008+

हवलदार महीयुदीन मंडल (सं. 1492602पी अब जेसी-331376एफ),
23 जून 2008+

हवलदार शंभू नाथ घोष (सं. 1482633एफ अब जेसी-331377के),
10 जून 2008+

हवलदार रवि एस (सं. 15304132डब्ल्यू अब जेसी-331378एम),
17 जून 2008+

हवलदार वी वेंकटा रमेश बाबू (सं. 15306212एम अब
जेसी-331379पी), 13 जून 2008+

हवलदार जाधव अन्नासाहब (सं. 1580848डब्ल्यू अब जेसी-331380के),
23 जून 2008+

हवलदार आर अयाल्लूसामी (सं. 15311979एच अब जेसी- 331381एम),
10 जून 2008+

हवलदार के पी अनूप कुमार (सं. 15312009एम अब जेसी-331382पी),
10 जून 2008+

हवलदार बिजय कुमार मोहन्ती (सं. 1482895एक्स अब
जेसी-331383एक्स), 10 जून 2008+

हवलदार गुरदेव सिंह (सं. 1486252एक्स अब जेसी-331384ए),
10 जून 2008+

हवलदार सुरेश कुमार शर्मा (सं. 1487842एम अब जेसी-
331385एच), 13 जून 2008+

हवलदार नरेन्द्र सिंह कुशावाहा (सं. 1482382एम अब जेसी-
331386एल), 12 जून 2008+

हवलदार शिवाजी शुक्ला (सं. 1580171डब्ल्यू अब जेसी-331387एन),
04 अप्रैल 2008\$

हवलदार राज नंदन सिंह (सं. 1485721एच अब जेसी-331388डब्ल्यू),
02 अप्रैल 2008\$

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं. 1485900एच अब जेसी-331389वाई),
04 अप्रैल 2008\$

हवलदार परिमल सिंह (सं. 15308724एक्स अब जेसी-331390एन),
04 अप्रैल 2008\$

हवलदार सुरेश सिंह (सं. 6390829के अब जेसी-331391डब्ल्यू),
12 जून 2008%%

हवलदार प्रहलाद सिंह (सं. 1492665एक्स अब जेसी-331392वाई),
10 जुलाई 2008%%

हवलदार मुकेश चौधरी (सं. 1585646वाई अब जेसी-331393एफ),
23 जून 2008%%

हवलदार दिलीप कुमार महतो (सं. 1484807पी अब जेसी-331394के),
10 जुलाई 2008%%

हवलदार नवाब सिंह (सं. 1491758ए अब जेसी-331395एम),
05 जुलाई 2008%%

हवलदार टिकेन्द्रा सिंह (सं. 1491783वाई अब जेसी-331396पी),
11 जून 2008%%

हवलदार शिन्डे सुहास दत्तार्या (सं. 6390393के अब जेसी-331397एक्स),
16 जून 2008%%

हवलदार जयवीर सिंह (सं. 1580349एफ अब जेसी-331398ए),
16 जून 2008%%

हवलदार नरसिंमहम (सं. 15302534पी अब जेसी-331399एच),
09 जुलाई 2008%%

हवलदार तिरुपति एस (सं. 15309918एम अब जेसी-331400एम),
13 जून 2008%%

हवलदार उजागर लाल (सं. 15308425वाई अब जेसी-331401पी),
18 जून 2008%%

हवलदार ब्रिज मोहन तिवारी (सं. 1492367एफ अब जेसी-
331402एक्स), 26 जून 2008%%

हवलदार विकास चन्द्रा माझी (सं. 1586038के अब जेसी-331403ए),
17 जून 2008%%

हवलदार गरकार राजू कछारू (सं. 1587912एल अब जेसी-
331404एच), 16 जून 2008%%

हवलदार एस सिनोरामने (सं. 15302379वाई अब जेसी-331405एल),
21 जून 2008%%

हवलदार के थिरुनिला कोन्दन (सं. 15313939ए अब जेसी-
331406एन), 17 जून 2008%%

हवलदार सुरेन्द्रा कुमार (सं. 1586395एम अब जेसी-331407डब्ल्यू),
16 जून 2008%%

हवलदार जया प्रकाश एन (सं. 15301024एफ अब जेसी-
331408वाई), 16 जून 2008%%

हवलदार माटे अधिनाथ गोपीनाथ (सं. 1587907ए अब जेसी-
331409एफ), 16 फरवरी 2008%%

हवलदार मणिकन्दन वी (सं. 15309979के अब
जेसी-331410डब्ल्यू), 26 जून 2008%%

हवलदार अमलेश कुमार चौधरी (सं. 1588192एफ अब
जेसी-331411वाई), 16 जून 2008%%

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 1579648एफ अब जेसी-331412एफ),
16 जून 2008%%

हवलदार प्रवीन कुमार (सं. 1484881डब्ल्यू अब जेसी-331413के),
25 जून 2008%%

हवलदार वाघ रामनाथ बाबूराव (सं. 1587952एम अब
जेसी-331414एम), 01 जुलाई 2008%%

हवलदार पंकज कुमार (सं. 1484843ए अब जेसी-331415पी),
08 जुलाई 2008%%

हवलदार भूवन चन्द्र पुनेठा (सं. 1484500के अब जेसी-331416एक्स),
14 जनवरी 2008***

हवलदार सैनी जगदीश भगीरथ (सं. 15304499डब्ल्यू अब
जेसी-331417ए), 24 मई 2008↔

हवलदार डूंगर मल (सं. 1587897एफ अब जेसी-331418एच),
30 जून 2008%%

हवलदार देबाशीस मैथी (सं. 1483668के अब जेसी-331419एल),
03 सितम्बर 2008%%

हवलदार मुरुगरासु आर (सं. 15308581एच अब जेसी-331420ए),
23 अगस्त 2008WW

हवलदार श्याम बहादुर शुक्ला (सं. 1484281एन अब
जेसी-331421एच), 22 अगस्त 2008WW

हवलदार शाजी जोन (सं. 15311154एक्स अब जेसी-331422एल),
23 अगस्त 2008WW

हवलदार पवार विजय बलीराम (सं. 1490858वाई अब
जेसी-331423एन), 22 अगस्त 2008WW

हवलदार कृष्णा कुमार पाण्डे (सं. 1582865पी अब
जेसी-331424डब्ल्यू), 30 अगस्त 2008WW

हवलदार नारद मुनि राय (सं. 1579278वाई अब जेसी-331425वाई),
23 अगस्त 2008WW

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 1580351वाई अब जेसी-331426एफ),
25 अगस्त 2008WW

हवलदार अदसुल चन्द्र कान्त (सं. 1483852पी अब
जेसी-331427के), 25 अगस्त 2008WW

हवलदार नवीन कुमार (सं. 1582783एम अब जेसी-331428एम),
29 अगस्त 2008WW

हवलदार राठोड नवीन कुमार रंजीत (सं. 1483872एच अब
जेसी-331429पी), 30 अगस्त 2008WW

हवलदार प्रबीर कुमार गिरी (सं. 1483666वाई अब जेसी-331430के),
28 अगस्त 2008WW

हवलदार दीपक सिंह (सं. 1484172एफ अब जेसी-331431एम),
25 अगस्त 2008WW

हवलदार रियाज अहमद (सं. 1578287एन अब जेसी-331432पी),
25 अगस्त 2008WW

हवलदार शाजीव के (सं. 15309448एम अब जेसी-331433एक्स),
23 अगस्त 2008WW

हवलदार सतीश कुमार (सं. 6390833के अब जेसी-331434ए),
25 अगस्त 2008WW

हवलदार बीरा बारा प्रधान (सं. 1584192के अब जेसी-331435एच),
04 सितम्बर 2008WW

हवलदार इसलाम खान (सं. 1579782वाई अब जेसी-331436एल),
28 जून 2008%%

हवलदार दुर्गा प्रसाद तिवारी (सं. 1572839ए अब जेसी-331437एन),
29 अगस्त 2008WW

हवलदार मुगी आनन्दा राव (सं. 1384893एक्स अब
जेसी-331438डब्ल्यू), 28 अगस्त 2008WW

हवलदार पाटील रामा कृष्णा विश्राम (सं. 1580019एच अब
जेसी-331439वाई), 30 अगस्त 2008WW

- हवलदार रमेशन के पी (सं. 1485726एफ अब जेसी-331440एन),
29 अगस्त 2008WW
- हवलदार सुब्रता मण्डल (सं. 1486662एन अब जेसी-331441डब्ल्यू),
30 अगस्त 2008WW
- हवलदार मोहन प्रसाद (सं. 1578851एक्स अब जेसी-331442वाई),
02 सितम्बर 2008WW
- हवलदार चुन्नी लाल (सं. 1482013एल अब जेसी-331443एफ),
29 अगस्त 2008WW
- हवलदार मुकेश यादव (सं. 1580274पी अब जेसी-331444के),
29 अगस्त 2008WW
- हवलदार कृंवर सिंह कंडारी (सं. 1481590एल अब जेसी-331445एम),
29 अगस्त 2008WW
- हवलदार संजय कुमार सिंह (सं. 1483344वाई अब जेसी-331446पी),
29 अगस्त 2008WW
- हवलदार धिरेन्द्र सिंह भण्डारी (सं. 1484012एफ अब जेसी-331447एक्स),
29 अगस्त 2008WW
- हवलदार लेखराज सिंह (सं. 1484957एल अब जेसी-331448ए),
29 अगस्त 2008WW
- हवलदार अशोक कुमार (सं. 1485340एफ अब जेसी-331449एच),
29 अगस्त 2008WW
- हवलदार तेज कुमार (सं. 1486220पी अब जेसी-331450एक्स),
29 अगस्त 2008WW
- हवलदार देवो कुमार महतो (सं. 1483096एन अब जेसी-331451ए),
03 सितम्बर 2008WW
- हवलदार धनावटे विठ्ठल (सं. 1581718ए अब जेसी-331452एच),
09 जून 2008◇
- हवलदार राजेश कुमार (सं. 1483289एन अब जेसी-331453एल),
14 जुलाई 2008◇
- हवलदार गवाडे लक्ष्मण आत्माराम (सं. 1582891डब्ल्यू अब जेसी-331454एन), 16 जून 2008†
- हवलदार अजय कुमार सिंह (सं. 1483792एल अब जेसी-331455डब्ल्यू),
11 जुलाई 2008†
- हवलदार जितेन्द्र सिंह (सं. 1484614पी अब जेसी-331456वाई),
01 जुलाई 2008†
- हवलदार तारक नाथ बनर्जी (सं. 1483269ए अब जेसी-331457एफ), 04 अगस्त 2008★
- हवलदार विजय सिंह (सं. 1481936के अब जेसी-331458के),
04 अगस्त 2008★
- हवलदार अंजील कटोच (सं. 1481951वाई अब जेसी-331459एम),
26 अगस्त 2008★
- हवलदार दर्शन सिंह (सं. 1482307वाई अब जेसी-331460एफ),
12 अगस्त 2008★
- हवलदार मो. अलीम (सं. 6390516एल अब जेसी-331461के),
11 अगस्त 2008★
- हवलदार गोपाल साहू (सं. 1483192एच अब जेसी-331462एम),
04 अगस्त 2008★
- हवलदार कैलाश सिंह बोरा (सं. 1487074एम अब जेसी-331463पी),
02 अगस्त 2008★
- हवलदार राजू जराली (सं. 15311427पी अब जेसी-331464एक्स),
04 अगस्त 2008★
- हवलदार कुशाल सिंह मेहता (सं. 1481259एक्स अब जेसी-331465ए), 04 अगस्त 2008★
- हवलदार कृष्ण कुमार (सं. 15305016ए अब जेसी-331466एच),
04 अगस्त 2008★
- हवलदार चन्दन बोरमन (सं. 1482378ए अब जेसी-331467एल),
04 अगस्त 2008★
- हवलदार जे अय्यादुराई (सं. 15307089एल अब जेसी-331468एन),
11 अगस्त 2008★
- हवलदार राधा कृष्णन ए (सं. 15307183पी अब जेसी-331469डब्ल्यू), 06 अगस्त 2008★
- हवलदार ई डी नन्चाराय्या (सं. 15308100एल अब जेसी-331470एल), 02 अगस्त 2008★
- हवलदार पी भक्तांजने युल्लू (सं. 15311516एन अब जेसी-331471एन), 07 अगस्त 2008★
- हवलदार घाग संतोष गोपाल (सं. 1584525एल अब जेसी-331472डब्ल्यू), 06 अगस्त 2008★
- हवलदार जगसीर सिंह (सं. 1584951वाई अब जेसी-331473वाई),
02 अगस्त 2008★
- हवलदार श्याम सिंह बिष्ट (सं. 1484324एफ अब जेसी-331474एफ), 02 अगस्त 2008★
- हवलदार अनिल कुमार सिंह (सं. 15313087डब्ल्यू अब जेसी-331475के), 06 अगस्त 2008★
- हवलदार उज्ज्वल कुमार बोसु (सं. 15308515ए अब जेसी-331476एम), 30 अप्रैल 2008\$
- हवलदार राधा कृष्ण (सं. 15308537वाई अब जेसी-331477एच),
04 अप्रैल 2008\$
- हवलदार राम प्रवेश राम (सं. 6390595एल अब जेसी-331478एक्स),
11 जनवरी 2008@
- हवलदार टी रवि (सं. 15302420के अब जेसी-331479ए), 12 अप्रैल 2008◇

हवलदार शिव सिंह रावत (सं. 1485012एन अब जेसी-331480पी),
11 जून 2008%%

हवलदार विजय सिंह (सं. 1582071के अब जेसी-331481एक्स),
23 अगस्त 2008WW

हवलदार वी. एस. रेड्डी सवानम (सं. 15310782ए अब
जेसी-331482ए), 29 अगस्त 2008WW

हवलदार हरीश चन्द्र जोशी (सं. 1491963एफ अब
जेसी-331483एच), 05 सितम्बर 2008WW

हवलदार सुदर्शन टी (सं. 15304110एक्स अब जेसी-331484एल),
29 अगस्त 2008WW

हवलदार गीतेश बहादुर सिंह (सं. 1582845एफ अब
जेसी-331485एन), 29 अगस्त 2008WW

हवलदार बी. टी. राज कुमार (सं. 1379975पी अब
जेसी-331486डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2008WW

हवलदार बिजु फिलिप (सं. 15306801एच अब जेसी-331487वाई),
30 अगस्त 2008☆☆

हवलदार रेजी कुमार टी. एस. (सं. 15312090के अब
जेसी-331488एफ), 08 सितम्बर 2008☆☆

हवलदार प्रभाकरन एम पी (सं. 15307084एम अब
जेसी-331489के), 11 सितम्बर 2008☆☆

हवलदार तारा चन्द (सं. 1484070एल अब जेसी-331490वाई),
13 जून 2008%%

हवलदार भोम सिंह (सं. 1583642एच अब जेसी-331491एफ),
24 जून 2008%%

हवलदार दिनेश कुमार (सं. 6389845पी अब जेसी-331492के),
27 अगस्त 2008WW

हवलदार राजबीर सिंह (सं. 1482056ए अब जेसी-331493एम),
07 अक्टूबर 2008WW

हवलदार राम गोपाल (सं. 1579985एच अब जेसी-331494पी),
01 अक्टूबर 2008WW

हवलदार अमरजीत सिंह (सं. 1576776ए अब जेसी-331495एक्स),
25 अगस्त 2008WW

हवलदार सुरेश चन्द (सं. 6390538के अब जेसी-331496ए),
16 सितम्बर 2008pq

हवलदार एम ज्योति बासु (सं. 15310817एल अब
जेसी-331497एच), 20 सितम्बर 2008pq

हवलदार राजू राम (सं. 1586674एक्स अब जेसी-331498एल),
23 सितम्बर 2008pq

हवलदार सलाउद्दीन (सं. 1489937एफ अब जेसी-331499एन),
20 सितम्बर 2008pq

हवलदार गोविन्दा चन्द्रा मंडल (सं. 1492682एक्स अब
जेसी-331500एक्स), 20 सितम्बर 2008pq

हवलदार विनोद कुमार राय (सं. 1588400एल अब जेसी-331501ए),
22 सितम्बर 2008pq

हवलदार निरपान सिंह कुन्तल (सं. 6931833एम अब
जेसी-331502एच), 18 सितम्बर 2008pq

हवलदार लम्बोधरा परधीया (सं. 1584194पी अब
जेसी-331503एल), 22 सितम्बर 2008pq

हवलदार सतेन्द्र सिंह (सं. 1483031ए अब जेसी-331504एन),
23 सितम्बर 2008pq

हवलदार ए अधिलिंगम (सं. 15309698एन अब जेसी-331505डब्ल्यू),
19 सितम्बर 2008pq

हवलदार देवानन्द (सं. 6933276एक्स अब जेसी-331506वाई),
20 सितम्बर 2008pq

हवलदार मो. इन्तसार (सं. 1485914एच अब जेसी-331507एफ),
19 सितम्बर 2008pq

हवलदार चन्द्र बीर चन्द रामदा (सं. 1482728एफ अब
जेसी-331508के), 19 सितम्बर 2008pq

हवलदार सतबीर सिंह (सं. 1492342पी अब जेसी-331509एम),
20 सितम्बर 2008pq

हवलदार एस रवि (सं. 15304745डब्ल्यू अब जेसी-331510एफ),
28 सितम्बर 2008WW

हवलदार एस थान्गा मरिअप्पन (सं. 15309087वाई अब
जेसी-331511के), 19 सितम्बर 2008pq

हवलदार राधेश्याम राजपूत (सं. 6390623एम अब जेसी-331512एम),
25 सितम्बर 2008pq

हवलदार साठे गोपीनाथ बब्बन (सं. 6389970वाई अब
जेसी-331513पी), 19 सितम्बर 2008pq

हवलदार निशीकान्त गिरी (सं. 1490439एफ अब
जेसी-331514एक्स), 16 सितम्बर 2008pq

हवलदार रंजन कुमार जेना (सं. 1492360एक्स अब
जेसी-331515ए), 16 सितम्बर 2008pq

हवलदार मंजूनाथ के (सं. 15315059एच अब जेसी-331516एच),
19 सितम्बर 2008pq

हवलदार प्रसाद सी (सं. 15315247के अब जेसी-331517एल),
30 सितम्बर 2008pq

हवलदार गनानम एम (सं. 15315249पी अब जेसी-331518एन),
22 सितम्बर 2008pq

हवलदार पधातरी सुनील अप्पाजी (सं. 15306563एफ अब
जेसी-331519डब्ल्यू), 23 सितम्बर 2008pq

हवलदार मो. फारूख (सं. 1578314एम अब जेसी-331520एल),
20 सितम्बर 2008pq

हवलदार बलराज सिंह (सं. 1480481एम अब जेसी-331521एन),
23 सितम्बर 2008pq

हवलदार गोविन्दा राजन एस (सं. 15303101के अब जेसी-331522डब्ल्यू),
24 सितम्बर 2008pq

हवलदार आनन्द सिंह (सं. 1481685एल अब जेसी-331523वाई),
19 सितम्बर 2008pq

हवलदार चेरुपल्ली श्रीनिवासा राव (सं. 1384534एच अब
जेसी-331524एफ), 18 सितम्बर 2008pq

हवलदार विनोद कुमार पाण्डे (सं. 1578609एच अब
जेसी-331525के), 19 सितम्बर 2008pq

हवलदार पबीत्रा करमाकर (सं. 1482681एफ अब
जेसी-331526एम), 22 सितम्बर 2008pq

हवलदार राजपाल सिंह (सं. 1482746के अब जेसी-331527पी),
19 सितम्बर 2008pq

हवलदार गोपाल सिंह (सं. 1483136के अब जेसी-331528एक्स),
22 सितम्बर 2008pq

हवलदार बाबू एन (सं. 15304766एम अब जेसी-331529ए),
19 सितम्बर 2008pq

हवलदार गुँजल शरद नरहारी (सं. 1577155एन अब
जेसी-331530पी), 20 सितम्बर 2008pq

हवलदार कुमारेसन पी (सं. 1584307एम अब जेसी-331531एक्स),
19 सितम्बर 2008pq

हवलदार डोबले सुनील गोपाल राव (सं. 1576481के अब
जेसी-331532ए), 23 सितम्बर 2008pq

हवलदार पाटील के लार करभारी (सं. 1579173पी अब
जेसी-331533एच), 22 सितम्बर 2008pq

हवलदार एस मारीया सेलवम (सं. 15305051एच अब जेसी-
331534एल), 16 सितम्बर 2008pq

हवलदार राममूर्ति (सं. 1484494एफ अब जेसी-331535एन),
20 सितम्बर 2008pq

हवलदार गिरधर सिंह (सं. 1484063पी अब जेसी-331536डब्ल्यू),
20 सितम्बर 2008pq

हवलदार शेष बहादुर सिंह (सं. 1580599एच अब जेसी-331537वाई),
19 सितम्बर 2008pq

हवलदार के मधूसुदना गोकुल (सं. 1376461एम अब जेसी-
331538एफ), 16 सितम्बर 2008pq

हवलदार परेश चन्द्र सतपति (सं. 1482629वाई अब
जेसी-331539के), 20 सितम्बर 2008WW

हवलदार जोन विनसेंट एफ (सं. 15305024वाई अब जेसी-331540वाई),
20 सितम्बर 2008pq

हवलदार रामचन्द्रन नायर पी (सं. 15308287एच अब
जेसी-331541एफ), 07 नवम्बर 2008pq

हवलदार ए पी गोपा कुमार (सं. 15309972ए अब जेसी-331542के),
31 अक्टूबर 2008pq

हवलदार गोपाल सिंह (सं. 1586166एफ अब जेसी-331543एम),
31 अक्टूबर 2008pq

हवलदार पुँड नारायण गनपत (सं. 1485138एन अब
जेसी-331544पी), 06 नवम्बर 2008pq

हवलदार दलकिसन सीताराम (सं. 1485149ए अब जेसी-331545एक्स),
31 अक्टूबर 2008pq

हवलदार लडू किशोर पानीग्रही (सं. 15311921एल अब
जेसी-331546ए), 01 नवम्बर 2008pq

हवलदार निरंजन कुमार यादव (सं. 15311918एल अब जेसी-331547एच),
31 अक्टूबर 2008pq

हवलदार बिजोय बोस (सं. 1485216ए अब जेसी-331548एल),
04 नवम्बर 2008pq

हवलदार पेड्डी रेड्डी गया राजू (सं. 15312519एन अब जेसी-331549एन),
05 नवम्बर 2008pq

हवलदार एम राजगोपालन (सं. 15312566एल अब जेसी-331550एच),
05 नवम्बर 2008pq

हवलदार सुभाष कुमार (सं. 1480905एक्स अब जेसी-331551एल),
20 नवम्बर 2008

हवलदार विनोद कुमार (सं. 6390090पी अब जेसी-331552एन),
22 नवम्बर 2008pq

हवलदार ईदारा वेंकटेश्वरा (सं. 15311079वाई अब जेसी-
331553डब्ल्यू), 02 दिसम्बर 2008pq

हवलदार संतोष कुमार (सं. 15315407वाई अब जेसी-331554वाई),
25 नवम्बर 2008pq

हवलदार राधे श्याम (सं. 15315449एल अब जेसी-331555एफ),
10 दिसम्बर 2008pq

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 15313743एम अब जेसी-331556के),
16 दिसम्बर 2008pq

हवलदार फ़ादके शंकर सत्तापा (सं. 1587885एम अब
जेसी-331557एम), 19 सितम्बर 2008pq

हवलदार राम लाल (सं. 1486260डब्ल्यू अब जेसी-331558पी),
26 नवम्बर 2008pq

हवलदार हरीदर्शन एआर (सं. 15307297ए अब जेसी-331559एक्स),
22 सितम्बर 2008pq

हवलदार संजीव कुमार (सं. 1485072एच अब जेसी-331560एम),
11 नवम्बर 2008pq

हवलदार करतार सिंह (सं. 6390249पी अब जेसी-331561पी),
08 नवम्बर 2008pq

हवलदार जाधव गनेश प्रभाकर (सं. 1485144एफ अब
जेसी-331562एक्स), 10 नवम्बर 2008pq

हवलदार के मुनियामामी (सं. 15311560एक्स अब जेसी-331563ए),
10 नवम्बर 2008pq

हवलदार सुप्रिया दत्त (सं. 1586519डब्ल्यू अब जेसी-331564एच),
10 नवम्बर 2008pq

हवलदार निर्मल कुमार मिश्रा (सं. 1586654के अब जेसी-
331565एल), 08 नवम्बर 2008pq

हवलदार मो. अब्दुल अजीज अल-अमन (सं. 1586688एक्स अब
जेसी-331566एन), 17 नवम्बर 2008pq

हवलदार सुधार घनश्याम भाई (सं. 1582912एफ अब जेसी-
331567डब्ल्यू), 10 नवम्बर 2008pq

हवलदार राम धनी सिंह (सं. 1588290एफ अब जेसी-331568वाई),
20 नवम्बर 2008pq

हवलदार ललीत मोहन सिंह डोबाल (सं. 1588384वाई अब जेसी-
331569एफ), 20 नवम्बर 2008pq

हवलदार विनोद सिंह राना (सं. 1482473एम अब जेसी-
331570डब्ल्यू), 23 सितम्बर 2008pq

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 1487819पी अब जेसी-331571वाई),
03 नवम्बर 2008@@

हवलदार रतन सिंह (सं. 1492013पी अब जेसी-331572एफ),
03 नवम्बर 2008@@

हवलदार वरदीनेनी कृष्णईय्या (सं. 15310786डब्ल्यू अब जेसी-
331573के), 18 नवम्बर 2008@@

हवलदार मही पाल सिंह (सं. 1490091एक्स अब जेसी-331574एम),
17 नवम्बर 2008@@

हवलदार अविनाश कुमार (सं. 1487974डब्ल्यू अब
जेसी-331575पी), 18 नवम्बर 2008@@

हवलदार मनोज कुमार मिश्रा (सं. 1488272के अब जेसी-
331576एक्स), 18 नवम्बर 2008@@

हवलदार दुशमन्ता कुमार साहू (सं. 1488390एक्स अब जेसी-
331577ए), 18 नवम्बर 2008@@

हवलदार मनोहर सिंह (सं. 1488787के अब जेसी-331578एच),
20 नवम्बर 2008@@

हवलदार चन्द्र मोहन धसमाना (सं. 1490095एन अब जेसी-
331579एल), 10 दिसम्बर 2008@@

हवलदार लक्ष्मण सिंह चौपाल (सं. 1490676एल अब जेसी-
331580ए), 19 नवम्बर 2008@@

हवलदार एस डोन बोसको (सं. 15312246डब्ल्यू अब जेसी-
331581एच), 18 नवम्बर 2008@@

हवलदार सत्यान के एन (सं. 15308038के अब जेसी-331582एल),
24 नवम्बर 2008@@

हवलदार सलुंके साहेब राव (सं. 1584853वाई अब जेसी-331583एन),
28 नवम्बर 2008@@

हवलदार बिजू कुरुविला (सं. 15309518ए अब जेसी-331584डब्ल्यू),
05 दिसम्बर 2008@@

हवलदार एम ए भास्करन (सं. 1383899एल अब जेसी-331585वाई),
24 नवम्बर 2008@@

हवलदार कैलाश चन्द्र चिलकोटी (सं. 1485693एफ अब
जेसी-331586एफ), 20 नवम्बर 2008@@

हवलदार अजय कुमार झा (सं. 1486301पी अब जेसी-331587के),
20 नवम्बर 2008@@

हवलदार शोख अमीन तुरब (सं. 15308800वाई अब
जेसी-331588एम), 27 नवम्बर 2008@@

हवलदार यशवंत सिंह (सं. 15309064एक्स अब जेसी-331589पी),
20 नवम्बर 2008@@

हवलदार के मोहन (सं. 15309091एफ अब जेसी-331590के),
21 नवम्बर 2008@@

हवलदार एस जया चन्द्रा (सं. 15309094पी अब जेसी-331591एम),
20 नवम्बर 2008@@

हवलदार वी काशी विश्वनाथन (सं. 15309098एल अब जेसी-
331592पी), 21 नवम्बर 2008@@

हवलदार वी अच्युथा रेड्डी (सं. 15309232एल अब जेसी-
331593एक्स), 24 नवम्बर 2008@@

हवलदार सरंगापानी के (सं. 15309272एम अब जेसी-331594ए),
20 नवम्बर 2008@@

हवलदार सुरेशन के वी (सं. 15309439एल अब जेसी-331595एच),
17 नवम्बर 2008@@

हवलदार प्रेम कुमार रे (सं. 1486738एच अब जेसी-331596एल),
25 नवम्बर 2008@@

हवलदार आर लक्ष्मणन (सं. 15309083एच अब जेसी-331597एन),
22 नवम्बर 2008@@

हवलदार सुभाष पी सी (सं. 15309409एन अब जेसी-331598डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2008@@

हवलदार वी विरन्जया रेड्डी (सं. 15309553एच अब जेसी-331599वाई),
24 नवम्बर 2008@@

हवलदार सुनील कुमार एस (सं. 15306046के अब जेसी-331600एच),
29 दिसम्बर 2008@@

हवलदार के रवि (सं. 15309092के अब जेसी-331601एल),
26 नवम्बर 2008@@@

हवलदार कृष्णन पिल्लई एन (सं. 15309385पी अब
जेसी-331602एन), 29 नवम्बर 2008@@@

हवलदार जिमी कुरयान (सं. 15309381वाई अब जेसी-331603डब्ल्यू),
17 दिसम्बर 2008@@@

हवलदार बघेल विठ्ठल श्रीरंग (सं. 1573462एन अब जेसी-
331604वाई), 23 दिसम्बर 2008@@@

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
16 दिसम्बर 2006, 17 मार्च 2007, 30 जून 2007, 10 जनवरी 2006,
22 अक्टूबर 2007, 03 फरवरी 2007, 27 फरवरी 2008, 16 फरवरी
2008, 27 मई 2008, 29 मार्च 2008, 10 जून 2006, 16 अगस्त
2008, 31 मई 2008, 16 दिसम्बर 2008, 11 सितम्बर 2008,
13 सितम्बर 2008, 23 अगस्त 2008).

*ज्येष्ठता 16 दिसम्बर 2006

**ज्येष्ठता 17 मार्च 2007

***ज्येष्ठता 30 जून 2007

"/'ज्येष्ठता 10 जनवरी 2006

@ज्येष्ठता 22 अक्टूबर 2007

aaज्येष्ठता 03 फरवरी 2007

=>ज्येष्ठता 27 फरवरी 2008

\$ज्येष्ठता 16 फरवरी 2008-

%%ज्येष्ठता 27 मई 2008

+ज्येष्ठता 29 मार्च 2008

///ज्येष्ठता 10 जून 2006

wwज्येष्ठता 16 अगस्त 2008

☆☆ज्येष्ठता 31 मई 2008

☆ज्येष्ठता 16 दिसम्बर 2008

pqज्येष्ठता 11 सितम्बर 2008

@@ज्येष्ठता 13 सितम्बर 2008

@@@ज्येष्ठता 23 अगस्त 2008

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 1583554एन अब जेसी-331605एफ),
19 सितम्बर 2008ए

हवलदार विरेन्द्र कुमार (सं. 1484900डब्ल्यू अब जेसी-331606के),
31 अक्टूबर 2008ए

हवलदार पुष्पा कुमार पी (सं. 15315351एक्स अब जेसी-
331607एम), 03 नवम्बर 2008ए

हवलदार चन्द्रा शंखर आजाद (सं. 1588178पी अब जेसी-
331608पी), 28 नवम्बर 2008ए

हवलदार मोर संदीप मोतीराम (सं. 1586359एफ अब जेसी-
331609एक्स), 12 दिसम्बर 2008ए

हवलदार हलवन धनाजी केरू (सं. 6389560एच अब
जेसी-331610एम), 29 दिसम्बर 2008ए

हवलदार राजेश सिंह नेगी (सं. 1489825एफ अब जेसी-331611पी),
27 जनवरी 2009बी

हवलदार एलडन पी के (सं. 15312564ए अब जेसी-331612एक्स),
28 जनवरी 2009बी

हवलदार सुरेश एस् (सं. 15308875डब्ल्यू अब जेसी-331613ए),
27 जनवरी 2009बी

हवलदार पी एस राजेश (सं. 15310182एक्स अब जेसी-331614एच),
26 जनवरी 2009बी

हवलदार अनोवर सदत खान (सं. 1485197ए अब
जेसी-331615एल), 02 जनवरी 2009ए

हवलदार हृदय नारायण (सं. 1583938एच अब जेसी-331616एन),
27 जनवरी 2009बी

हवलदार पुष्कर सिंह कशनयाल (सं. 1485483एफ अब
जेसी-331617डब्ल्यू), 20 जनवरी 2009बी

हवलदार जगमोहन (सं. 1586125एक्स अब जेसी-331618वाई),
15 फरवरी 2009सी

हवलदार दीपतेंदु पंचा ध्यायी (सं. 1487057एम अब जेसी-331619एफ),
27 नवम्बर 2008डी

हवलदार शीशपाल सिंह पोखरियाल (सं. 1486354एन अब
जेसी-331620डब्ल्यू), 08 दिसम्बर 2008डी

हवलदार सन्तोष एलेक्स (सं. 15307879ए अब जेसी-331621वाई),
13 दिसम्बर 2009ई

हवलदार कैलाश चन्द्रा गुरुरानी (सं. 15309063पी अब जेसी-
331622के), 17 जनवरी 2009ई

हवलदार एम सुनील कुमार (सं. 15309455एच अब जेसी-
331623के), 12 जनवरी 2009ई

हवलदार सुजीत कुमार के आर (सं. 15309302वाई अब जेसी-
331624एम), 12 जनवरी 2009ई

हवलदार प्रताप चन्द्र जैना (सं. 1485864एच अब जेसी-
331625पी), 20 जनवरी 2009ई

हवलदार सकपाल कुमार विठोबा (सं. 1583202डब्ल्यू अब
जेसी-331626एक्स), 16 अगस्त 2008एफ

हवलदार रविन्द्रा सिंह (सं. 1483134वाई अब जेसी-331627ए),
19 सितम्बर 2008ए

हवलदार अरुण रंजन महापात्रा (सं. 1484995एफ अब
जेसी-331628एच), 24 जनवरी 2009बी

हवलदार साहुल हमशेद बी (सं. 15312810ए अब जेसी-
331629एल), 30 जनवरी 2009बी

हवलदार प्रशांत सिंघे (सं. 1588368एफ अब जेसी-331630ए),
27 जनवरी 2009बी

हवलदार मिलन रोय (सं. 1588538ए अब जेसी-331631एच),
28 जनवरी 2009बी

हवलदार रामा कांत तिवारी (सं. 1583919एक्स अब
जेसी-331632एल), 26 जनवरी 2009बी

हवलदार नर सिंह (सं. 6390558एक्स अब जेसी-331633एन),
26 जनवरी 2009बी

हवलदार दिनेश कुमार शर्मा (सं. 1583880डब्ल्यू अब
जेसी-331634डब्ल्यू), 30 जनवरी 2009बी

हवलदार प्रफुल्ला कुमार साहु (सं. 1481756एफ अब जेसी-331635वाई),
17 जनवरी 2009बी

हवलदार अनिल कुमार एम (सं. 1581135एक्स अब जेसी-331636एक्स),
26 जनवरी 2009बी

हवलदार वी करूपासामी (सं. 15309948के अब जेसी-331637के),
27 जनवरी 2009बी

हवलदार के बाला कृष्णन (सं. 15310045वाई अब जेसी-
331638एम), 29 जनवरी 2009बी

हवलदार राकेश कुमार (सं. 6389901एच अब जेसी-331639पी),
27 जनवरी 2009बी

हवलदार शाहजी एस (सं. 15306533के अब जेसी-331640के),
29 जनवरी 2009बी

हवलदार उनी कृष्णन एस (सं. 15311554के अब जेसी-331641एम),
26 जनवरी 2009बी

हवलदार सनथा कुमारन एस (सं. 15306834एन अब जेसी-331642पी),
07 फरवरी 2009बी

हवलदार ब्रजेश कुमार (सं. 1482597एफ अब जेसी-331643एक्स),
04 फरवरी 2009बी

हवलदार नरेश कुमार (सं. 1580451के अब जेसी-331644ए),
28 नवम्बर 2008ए

हवलदार रामटे के पुरषोत्तम सक्काराम (सं. 1484817वाई अब
जेसी-331645एच), 28 जनवरी 2009बी

हवलदार बजागे रंगाराव महीपती (सं. 1569979एफ अब
जेसी-331646एल), 16 फरवरी 2009बी

हवलदार विजय कुमार (सं. 1483856एल अब जेसी-331647एन),
27 जनवरी 2009बी

हवलदार नायकनवारे विलास देवाबा (सं. 1580042डब्ल्यू अब
जेसी-331648डब्ल्यू), 27 जनवरी 2009बी

हवलदार स्वर्ण सिंह (सं. 1580577के अब जेसी-331649वाई),
19 फरवरी 2009बी

हवलदार सही पाल सिंह (सं. 1486283एक्स अब जेसी-331650एन),
02 फरवरी 2009बी

हवलदार पदमा नाभान पी वी (सं. 1382475एच अब
जेसी-331651डब्ल्यू), 11 फरवरी 2009बी

हवलदार अवचत उमेश पाण्डुरंग (सं. 1580047पी अब
जेसी-331652वाई), 27 जनवरी 2009बी

हवलदार बलवीन्दर सिंह (सं. 1485146एम अब जेसी-331653एफ),
28 जनवरी 2009बी

हवलदार परिमल मंडल (सं. 1485175एफ अब जेसी-331654के),
28 जनवरी 2009बी

हवलदार सतविन्दर सिंह (सं. 1485777पी अब जेसी-331655एम),
28 जनवरी 2009बी

हवलदार आशीष कुमार दत्ता (सं. 1485170एच अब
जेसी-331656पी), 11 फरवरी 2009बी

हवलदार हेम चन्द्रा खंतवाल (सं. 1484498एक्स अब
जेसी-331657एक्स), 16 फरवरी 2009बी

हवलदार अजमर अली (सं. 1579069एफ अब जेसी-331658ए),
15 दिसम्बर 2008ई

हवलदार अनागौडा पाटिल (सं. 15306088डब्ल्यू अब
जेसी-331659एच), 23 अगस्त 2008ई

हवलदार के जया शंकर (सं. 15311022के अब जेसी-331660एक्स),
04 अगस्त 2008एफ

हवलदार राम सिंह यादव (सं. 6390107एक्स अब जेसी-331661ए),
26 जनवरी 2009बी

हवलदार शरद चंद्रा पांडे (सं. 1582072एम अब जेसी-331662एच),
09 फरवरी 2009बी

हवलदार प्रद्यूमना कुमार (सं. 1481379डब्ल्यू अब
जेसी-331663एल), 18 मार्च 2009बी

हवलदार वासुदेवन एस (सं. 15310043एन अब जेसी-331664एन),
22 सितम्बर 2008ए

हवलदार जोसफ पी डी (सं. 15309575एफ अब
जेसी-331665डब्ल्यू), 18 मई 2009जी

हवलदार कोचले सोपन नारायण (सं. 15310006ए अब
जेसी-331666वाई), 18 मई 2009जी

हवलदार ए रामानाथन (सं. 15310223डब्ल्यू अब जेसी-331667एफ),
22 मई 2009जी

हवलदार योगेश कुमार (सं. 1484702एल अब जेसी-331668के),
20 मई 2009जी

हवलदार जगदीश कुमार पटेल (सं. 6389768एल अब
जेसी-331669एम), 16 मई 2009जी

हवलदार नेथाजी एस (सं. 15310979डब्ल्यू अब जेसी-331670एफ),
16 मई 2009जी

हवलदार मुरलीधरन टी एन (सं. 15311188एल अब
जेसी-331671के), 21 मई 2009जी

हवलदार विजय शंकर शुक्ला (सं. 15314539ए अब जेसी-331672एम), 25 मई 2009जी

हवलदार मनोज कुमार (सं. 1586261एन अब जेसी-331673पी), 16 मई 2009जी

हवलदार हंडे नानासाहेब नीबूती (सं. 6390286एच अब जेसी-331674एक्स), 16 मई 2009जी

हवलदार पतने संजय महादेव (सं. 1586398ए अब जेसी-331675ए), 20 मई 2009जी

हवलदार वजरपु श्रीनीवास राओ (सं. 15312835एम अब जेसी-331676एच), 18 मई 2009, जी

हवलदार जवाहर लाल मंडल (सं. 6389642एल अब जेसी-331677एल), 14 मई 2009, जी

हवलदार मनोज कुमार (सं. 1588367वाई अब जेसी-331678एन), 15 मई 2009, जी

हवलदार कुलदीप कुमार (सं. 1483016एल अब जेसी-331679डब्ल्यू), 15 मई 2009, जी

हवलदार अजीत कुमार सिंह (सं. 15315198एम अब जेसी-331680एल), 19 मई 2009, जी

हवलदार राज कुमार (सं. 1485344एक्स अब जेसी-331681एन), 14 मई 2009, जी

हवलदार नेक मोहम्मद (सं. 6933463डब्ल्यू अब जेसी-331682डब्ल्यू), 15 मई 2009, जी

हवलदार एस प्रभा करन (सं. 15310826एम अब जेसी-331683वाई), 16 मई 2009, जी

हवलदार दिलीप कुमार (सं. 1584429 डब्ल्यू अब जेसी-331684एफ), 01 जून 2009, जी

हवलदार विरेन्द्र कुमार नायक (सं. 15304693एल अब जेसी-331685के), 05 जून 2009, जी

हवलदार अनिल कुमार बी (सं. 15304295के अब जेसी-331686एम), 14 मई 2009, जी

हवलदार एस सकरा वरथी (सं. 1583356एच अब जेसी-331687पी), 16 मई 2009, जी

हवलदार राज कुमार प्रसाद (सं. 1482166 पी अब जेसी-331688एक्स), 30 मई 2009, जी

हवलदार एस सैनथील कुमार (सं. 15310046एफ अब जेसी-331689ए), 18 मई 2009, जी

हवलदार दिलीप कुमार राजहंस (सं. 1585812एफ अब जेसी-331690पी), 18 मई 2009, जी

हवलदार राजेश कुमार डोगरा (सं. 1588051एम अब जेसी-331691एक्स), 05 जून 2009, जी

हवलदार मनोज कुमार (सं. 1586500एक्स अब जेसी-331692ए), 19 मई 2009, जी

हवलदार मनजीत सिंह (सं. 1577577वाई अब जेसी-331693एच), 19 जून 2009, जी

हवलदार विपिन कुमार (सं. 1588382एन अब जेसी-331694एल), 20 मई 2009, जी

हवलदार मुकेश कुमार (सं. 6933538एच अब जेसी-331695एन), 01 जून 2009, जी

हवलदार एस सरावनन (सं. 15313660एफ अब जेसी-331696डब्ल्यू), 08 जून 2009, एच

हवलदार करमबीर सिंह दलाल (सं. 1584302एन अब जेसी-331697वाई), 06 जून 2009, एच

हवलदार मनोज कुमार तिवारी (सं. 1485652एक्स अब जेसी-331698एफ), 06 जून 2009, एच

हवलदार इंदौर सुरेश सीताराम (सं. 6390295के अब जेसी-331699के), 06 जून 2009, एच

हवलदार करमजीत सिंह (सं. 1485141एन अब जेसी-331700एन), 05 जून 2009, एच

हवलदार के वी विनोद कुमार (सं. 15306972पी अब जेसी-331701डब्ल्यू), 08 जून 2009, एच

हवलदार विनय कुमार पानी (सं. 1482896ए अब जेसी-331702वाई), 08 जून 2009, एच

हवलदार श्याम बहरी (सं. 1485973पी अब जेसी-331703एफ), 10 नवम्बर 2008, **

हवलदार कुमार के (सं. 15310040ए अब जेसी-331704के), 20 मई 2009, जी

हवलदार चवन अशोक सोमीनाथ (सं. 1489497वाई अब जेसी-331705एम), 27 मई 2009, जी

हवलदार लक्षमण राम सरन (सं. 6389720एक्स अब जेसी-331706पी), 22 मई 2009, जी

हवलदार गोपा कुमार जी (सं. 15314359एक्स अब जेसी-331707एक्स), 25 मई 2009, जी

हवलदार कमला कान्त राय (सं. 15314992एक्स अब जेसी-331708ए), 18 मई 2009, जी

हवलदार ए जी पुरुषोत्तम (सं. 1586306एच अब जेसी-331709एच), 18 मई 2009, जी

हवलदार बालाभद्रा पांडा (सं. 1586446पी अब जेसी-331710एक्स), 25 मई 2009, जी

हवलदार प्रभा करन केपी (सं. 15312101एल अब जेसी-331711ए), 25 मई 2009, जी

हवलदार पीताम्बर पांडा (सं. 1490434एच अब जेसी-331712एच),
01 जून 2009, जी

हवलदार विनोद कुमार सी (सं. 1582952एच अब जेसी-331713एल),
18 मई 2009, जी

हवलदार लक्ष्मण सिंह (सं. 1485281ए अब जेसी-331714एन),
18 मई 2009, जी

हवलदार तपन कुमार सरकार (सं. 1583896एफ अब
जेसी-331715डब्ल्यू), 18 मई 2009, जी

हवलदार ललिता प्रसाद ओली (सं. 6933453एम अब
जेसी-331716वाई), 02 जून 2009, जी

हवलदार बोनदेज सतापा बालू (सं. 1585019एम अब
जेसी-331717एफ), 19 मई 2009, जी

हवलदार जसबीर सिंह (सं. 1584895एल अब जेसी-331718के),
19 मई 2009, जी

हवलदार बालेशवर कुमार वर्मा (सं. 1485912एक्स अब
जेसी-331719एम), 18 मई 2009, जी

हवलदार राजेंद्रा प्रसाद (सं. 1485919एफ अब जेसी-331720एफ),
19 मई 2009, जी

हवलदार प्रमोद कुमार (सं. 1486211एन अब जेसी-331721के),
19 मई 2009, जी

हवलदार गैकवाड़ शाहजी पाण्डुरंग (सं. 1583883के अब
जेसी-331722एम), 22 मई 2009, जी

हवलदार गोरला वेकंटा रमना (सं. 15303934एन अब
जेसी-331723पी), 16 मई 2009, जी

हवलदार रवि चंद्रन एस (सं. 15305947के अब जेसी-331724एक्स),
18 मई 2009, जी

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 1485062वाई अब जेसी-331725ए),
06 जून 2009, एच

हवलदार राजमनी सिंह (सं. 1485710डब्ल्यू अब जेसी-331726एच),
06 जून 2009, एच

हवलदार इन्दर सिंह (सं. 1486326एफ अब जेसी-331727एल),
08 जून 2009, एच

हवलदार हुगर यलप्पा (सं. 15310887के अब जेसी-331728एन),
06 जून 2009, एच

हवलदार आर कुमारा गुरूपरन (सं. 15304853ए अब
जेसी-331729डब्ल्यू), 11 जून 2009, एच

हवलदार हसन मोहम्मद (सं. 1585854एन अब जेसी-331730एल),
16 मई 2009, जे

हवलदार रगुलवर रविंद्रा नारायण (सं. 1492217एल अब
जेसी-331731एन), 16 मई 2009, जे

हवलदार पैदाया कुपान्दी (सं. 15315466एल अब जेसी-331732डब्ल्यू),
20 मई 2009, जे

हवलदार पुर्षेदर सिंह (सं. 15312825एच अब जेसी-331733वाई),
18 मई 2009, जे

हवलदार अभय कुमार आनंद (सं. 1485560एल अब जेसी-331734एफ),
28 मई 2009, जे

हवलदार सत्या प्रसाद (सं. 1482721एक्स अब जेसी-331735के),
15 मई 2009, जे

हवलदार हरीश कुमार एस (सं. 15310922एफ अब
जेसी-331736एम), 18 मई 2009, जे

हवलदार एस कुपुसामी (सं. 1487242ए अब जेसी-331737पी),
16 मई 2009, जे

हवलदार त्रिलोक चंद्रा पांडे (सं. 1488435एम अब
जेसी-331738एक्स), 30 मई 2009, जे

हवलदार राजू आर (सं. 15306035एक्स अब जेसी-331739ए),
19 मई 2009, के

हवलदार संतोष कुमार के एम (सं. 15309174एम अब
जेसी-331740पी), 01 जून 2009, के

हवलदार डेसन के वी (सं. 15309248डब्ल्यू अब जेसी-331741एक्स),
18 मई 2009, के

हवलदार शाहजी एस (सं. 15309384एम अब जेसी-331742ए),
21 मई 2009, के

हवलदार नरेश कुमार शर्मा (सं. 6934510पी अब जेसी-331743एच),
19 जून 2009, जी

हवलदार नागेंद्र कुमार लक्षमना (सं. 15312520एच अब
जेसी-331744एल), 10 जून 2009, जी

हवलदार सालूनखे सुभाष राजाराम (सं. 1583691एम अब
जेसी-331745एन), 15 जून 2009, जी

हवलदार गोपाल चंद्रा पाल (सं. 1483246एक्स अब
जेसी-331746डब्ल्यू), 13 जून 2009, एच

हवलदार सुकानता कुमार सत्पथय (सं. 1485182एक्स अब
जेसी-331747वाई), 06 जून 2009, एच

हवलदार राम चंद्रा पी एम (सं. 1583271एम अब जेसी-331748एफ),
11 जून 2009, एच

हवलदार एल लौरधु फ्रांसीस (सं. 15310729पी अब जेसी-331749के),
20 जून 2009, एच

हवलदार बीर पाल (सं. 6933237वाई अब जेसी-331750वाई),
25 जून 2009, एल

हवलदार पुरोहित विनोद राय रमनीकलाल (सं. 6390024एम अब
जेसी-331751एफ), 30 जून 2009, एल

- हवलदार कुलवीर सिंह तोमर (सं. 1587960एल अब जेसी-331752के),
26 जून 2009, एल
- हवलदार विनोद कुमार राठौर (सं. 1484945डब्ल्यू अब जेसी-331753एम),
26 जून 2009, एल
- हवलदार एस शिवा सुब्रमनयन (सं. 15311407एफ अब जेसी-331754पी), 27 जून 2009, एल
- हवलदार धर्मेंद्रा कुमार तिवारी (सं. 1485638एल अब जेसी-331755एक्स), 26 जून 2009, एल
- हवलदार प्रमोद कुमार (सं. 1485353वाई अब जेसी-331756ए),
25 जून 2009, एल
- हवलदार हलसीददाप्पा के सावासुदी (सं. 15306102एक्स अब जेसी-331757एच), 25 मई 2009, एल
- हवलदार रोहतास कुमार (सं. 1584328एच अब जेसी-331758एल),
26 जून 2009, एल
- हवलदार मदन पाल सिंह (सं. 1582480एक्स अब जेसी-331759एन),
25 जून 2009, एल
- हवलदार ए फ्रांसीस निर्मल (सं. 15309965के अब जेसी-331760एच),
30 जून 2009, एल
- हवलदार एन बाबु (सं. 1585704एक्स अब जेसी-331761एल),
18 मई 2009, एम
- हवलदार शेर खान (सं. 1578174एल अब जेसी-331762एन),
20 मई 2009, जी
- हवलदार राम कुमार (सं. 1572940ए अब जेसी-331763डब्ल्यू),
19 मई 2009, जी
- हवलदार सत्येंद्रा सिंह रावत (सं. 1484527एफ अब जेसी-331764वाई),
09 जून 2009, जी
- हवलदार बालाचंद्रन एम पी (सं. 6390181वाई अब जेसी-331765एफ), 08 जून 2009, एच
- हवलदार सैक करिमुल्ला (सं. 15306054एच अब जेसी-331766के),
16 जून 2009, एच
- हवलदार विमल कुमार तिवारी (सं. 1585269एन अब जेसी-331767एम), 15 जून 2009, एच
- हवलदार बिशम्बर दयाल (सं. 1585924एफ अब जेसी-331768पी),
12 जून 2009, एच
- हवलदार अन्नेपु क्रिश्ना पाल (सं. 1485667ए अब जेसी-331769एक्स), 09 जून 2009, एच
- हवलदार चंद्रा मनीक्कम डी (सं. 1382803एल अब जेसी-331770एम), 09 जून 2009, एच
- हवलदार श्री भगवान (सं. 1485338के अब जेसी-331771पी),
09 जून 2009, एच
- हवलदार दलजीत सिंह (सं. 1586569एफ अब जेसी-331772एक्स),
26 जून 2009, एल
- हवलदार राम दुलार (सं. 1588302एल अब जेसी-331773ए),
26 जून 2009, एल
- हवलदार महेश चंद्र (सं. 1578315पी अब जेसी-331774एच),
25 जून 2009, एल
- हवलदार दिनेश कुमार आर जे (सं. 15304723एक्स अब जेसी-331775एल), 26 जून 2009, एल
- हवलदार राजीव नौटियाल (सं. 1485031वाई अब जेसी-331776एन),
29 जून 2009, एल
- हवलदार विदु कुमार एम (सं. 15305084एन अब जेसी-331777डब्ल्यू),
30 जून 2009, एल
- हवलदार एम वलीगयम (सं. 15311701एफ अब जेसी-331778वाई),
26 जून 2009, एल
- हवलदार सार्वत अरवन कुमार बसंत (सं. 1579539एफ अब जेसी-331779एफ), 29 जून 2009, एल
- हवलदार पाटिल शिवाजी यशवंत (सं. 1581282ए अब जेसी-331780डब्ल्यू), 23 जून 2009, एल
- हवलदार नीरज कुमार (सं. 1490425एफ अब जेसी-331781वाई),
19 जून 2009, एल
- हवलदार महेंद्रा प्रसाद यादव (सं. 1585630एन अब जेसी-331782एफ), 05 जून 2009, जे
- हवलदार प्रेम चंद्र (सं. 1484994वाई अब जेसी-331783के),
15 मई 2009, के
- हवलदार सबुमन वी एम (सं. 15309377डब्ल्यू अब जेसी-331784एम),
15 जून 2009, के
- हवलदार सत्यानन्दन जी (सं. 15308286ए अब जेसी-331785पी),
17 जून 2009, के
- हवलदार गौतम कुमार लायक (सं. 15311922एन अब जेसी-331786एक्स), 25 जून 2009, जी
- हवलदार प्रोबीन कुमार नाथ (सं. 1585645डब्ल्यू अब जेसी-331787ए),
22 जून 2009, जी
- हवलदार रतन सिंह (सं. 1484983एम अब जेसी-331788एच),
08 जून 2009, एच
- हवलदार अब्दुल सोबर मंडल (सं. 1586050एल अब जेसी-331789एल), 24 जुलाई 2009, एच
- हवलदार रघुवेंद्रा सिंह (सं. 6931512पी अब जेसी-331790ए),
06 जलाई 2009, एल
- हवलदार धर्मेंद्र कुमार ओझा (सं. 1583920एम अब जेसी-331791एच), 25 जून 2009, एल

हवलदार हरिश चंद्र सिंह चौहान (सं. 15313983के अब जेसी-331792एल), 01 जुलाई 2009, एल

हवलदार गोपाल लाल जाट (सं. 1586143ए अब जेसी-331793एन), 29 मई 2009, एल

हवलदार निरंजन भट्ट (सं. 15315530एक्स अब जेसी-331794डब्ल्यू), 24 जून 2009, एल

हवलदार प्रवीन कुमार (सं. 15311924वाई अब जेसी-331795वाई), 16 जुलाई 2009, एल

हवलदार हंदीबग भैरा गोवर्धन (सं. 1586553डब्ल्यू अब जेसी-331796एफ), 26 जून 2009, एल

हवलदार सुंदर सिंह (सं. 1588386के अब जेसी-331797के), 29 जून 2009, एल

हवलदार अशोक कुमार ओझा (सं. 1586651डब्ल्यू अब जेसी-331798एम), 24 जून 2009, एल

हवलदार जहीर हसन (सं. 1489309एम अब जेसी-331799पी), 24 जून 2009, एल

हवलदार करुण कुमार (सं. 1579775एच अब जेसी-331800वाई), 25 जून 2009, एल

हवलदार भट्ट आनंदा ब्रह्मदेव (सं. 15306615एम अब जेसी-331801एफ), 06 जुलाई 2009, एल

हवलदार कनिकी सेट्टी मेहर प्रसाद (सं. 1582714डब्ल्यू अब जेसी-331802के), 29 जून 2009, एल

हवलदार अमित तिवारी (सं. 1483175एच अब जेसी-331803एम), 03 जुलाई 2009, एल

हवलदार एस सिवथानु पिल्लै (सं. 15304469वाई अब जेसी-331804पी), 03 जुलाई 2009, एल

हवलदार कैलाश सिंह (सं. 1485097पी अब जेसी-331805एक्स), 07 जुलाई 2009, एल

हवलदार शोभा सिंह यादव (सं. 15311577एल अब जेसी-331806ए), 01 जुलाई 2009, एल

हवलदार अलोकेश नारायण बरुआ (सं. 1587641वाई अब जेसी-331807एच), 15 जून 2009, जी

हवलदार अर्जुना सामल (सं. 1485003एम अब जेसी-331808एल), 18 मई 2009, जी

हवलदार आजाद सिंह (सं. 1486126एल अब जेसी-331809एन), 29 जून 2009, एच

हवलदार जगतार सिंह (सं. 1567703एम अब जेसी-331810एच), 22 जून 2009, एल

हवलदार प्रवीन कुमार झा (सं. 1490879पी अब जेसी-331811एल), 25 जून 2009, एल

हवलदार विनोद कुमार (सं. 15312646एच अब जेसी-331812एन), 04 जुलाई 2009, एल

हवलदार नरूसिंघा प्रसाद पथ्या (सं. 1483189एच अब जेसी-331813डब्ल्यू), 07 जुलाई 2009, एल

हवलदार करमजीत सिंह (सं. 1579171के अब जेसी-331814वाई), 25 जून 2009, एल

हवलदार गनेसन पी (सं. 15304929पी अब जेसी-331815एफ), 08 जुलाई 2009, एल

हवलदार ब्रह्म प्रकाश यादव (सं. 1484992एन अब जेसी-331816के), 30 जून 2009, एल

हवलदार चंद्र भान चौहान (सं. 1489365एल अब जेसी-331817एम), 26 जून 2009, एल

हवलदार ओम प्रकाश उपाध्याय (सं. 1485929एल अब जेसी-331818पी), 29 जून 2009, एल

हवलदार मुरगोसन जी (सं. 15305378एफ अब जेसी-331819एक्स), 26 जून 2009, एल

हवलदार सथीसन एस (सं. 15307191डब्ल्यू अब जेसी-331820एम), 02 जुलाई 2009, एल

हवलदार मानस कुमार मंडल (सं. 1489621पी अब जेसी-331821पी), 01 जुलाई 2009, एल

हवलदार एन सुब्रामंयम (सं. 15305186के अब जेसी-331822एक्स), 29 जून 2009, एल

हवलदार वंधेकर अशोक वंशी (सं. 1580246एच अब जेसी-331823ए), 30 जून 2009, एल

हवलदार अशोक कुमार (सं. 1490271ए अब जेसी-331824एच), 07 जुलाई 2009, एल

हवलदार राजवीर सिंह (सं. 1490296एम अब जेसी-331825एल), 26 जून 2009, एल

हवलदार टी आर राम दास (सं. 1586977एम अब जेसी-331826एन), 01 जुलाई 2009, एल

हवलदार एम कृष्णा कुमार (सं. 15304021वाई अब जेसी-331827डब्ल्यू), 30 जून 2009, एल

हवलदार एम रामा कृष्णन (सं. 15307809एफ अब जेसी-331828वाई), 09 जुलाई 2009, एल

हवलदार पी एम कुमार (सं. 15312114एच अब जेसी-331829एफ), 09 जुलाई 2009, एल

हवलदार आर पार्था सारथी (सं. 1585619पी अब जेसी-331830डब्ल्यू), 13 जुलाई 2009, एल

हवलदार कशिसर्गार संजय वसंत (सं. 1585400ए अब जेसी-331831वाई), 09 जुलाई 2009, एन

हवलदार चल्के प्रदीप बंधु (सं. 1580645एम अब जेसी-331832एफ),
07 जुलाई 2009, एन

हवलदार चंद्रा मनी सेठी (सं. 1584215ए अब जेसी-331833के),
26 जून 2009, एल

हवलदार रंधीर कुमार सिंह (सं. 1492300एच अब जेसी-331834एम),
25 जून 2009, एल

हवलदार राजेश प्रसाद सिंह (सं. 1586888एन अब जेसी-331835पी),
26 जून 2009, एल

हवलदार अजय सिंह जाट (सं. 15312830एन अब जेसी-331836एक्स),
07 अगस्त 2009, एल

हवलदार पी भास्कर (सं. 15310162के अब जेसी-331837ए),
28 जुलाई 2009, एल

हवलदार एन मुर्गन (सं. 15310411एक्स अब जेसी-331838एच),
29 जून 2009, एल

हवलदार भारत सिंह यादव (सं. 1486151के अब जेसी-331839एल),
11 सितम्बर 2009, एल

हवलदार सजीव के एस (सं. 1588124एन अब जेसी-331840ए),
25 सितम्बर 2009, पी

हवलदार श्रीकांत गोस्वामी (सं. 7240520वाई अब जेसी-331841एच),
01 अक्टूबर 2009, पी

हवलदार राम नरेश (सं. 1489449वाई अब जेसी-331842एल),
30 सितम्बर 2009, पी

हवलदार कोयकिंदा रेडप्पा (सं. 1485316एल अब जेसी-331843एन),
19 सितम्बर 2009, पी

हवलदार राजेश कुमार (सं. 1485335डब्ल्यू अब जेसी-331844डब्ल्यू),
30 सितम्बर 2009, पी

हवलदार सुरेश महतो (सं. 15311989एम अब जेसी-331845वाई),
30 सितम्बर 2009, पी

हवलदार मयलसाम्य एम (सं. 15312787एम अब जेसी-331846एफ),
30 सितम्बर 2009, पी

हवलदार सतनारायन (सं. 1491911एल अब जेसी-331847के),
30 सितम्बर 2009, पी

हवलदार देबेंद्रा कुमार ऐच (सं. 1586722एम अब जेसी-331848एम),
05 अक्टूबर 2009, पी

हवलदार अनिल कुमार सिंहन (सं. 15313727पी अब जेसी-331849पी), 30 सितम्बर 2009, पी

हवलदार भक्ता बंधु साहु (सं. 1586438डब्ल्यू अब जेसी-331850के),
29 सितम्बर 2009, पी

हवलदार सुरेंद्रा सिंह विष्ट (सं. 1486884एच अब जेसी-331851एम),
29 सितम्बर 2009, जी

हवलदार मनबीर सिंह (सं. 1585944पी अब जेसी-331852पी),
11 जुलाई 2009, एच

हवलदार विरेंद्रा कुमार (सं. 1489127वाई अब जेसी-331853एक्स),
11 अगस्त 2009, एच

हवलदार श्रीकांत पांडेय (सं. 1487836पी अब जेसी-331854ए),
01 सितम्बर 2009, एच

हवलदार मोहम्मद साहिद (सं. 1487859डब्ल्यू अब जेसी-331855एच),
30 जुलाई 2009, एच

हवलदार मोसिन अहमद (सं. 1488120एच अब जेसी-331856एल),
20 जुलाई 2009, एच

हवलदार रविंदरा कुमार सिंह (सं. 1481815एच अब जेसी-331857एन),
30 जुलाई 2009, एच

हवलदार पर्वोर साभोजी नारायण (सं. 1584005ए अब जेसी-331858डब्ल्यू), 12 अगस्त 2009, एल

हवलदार पुरन सिंह खंका (सं. 1484014एम अब जेसी-331859वाई),
27 जून 2009, क्यू

हवलदार चुक्का सूर्या नारायण (सं. 15305259एल अब जेसी-331860एन), 30 जून 2009, एल

हवलदार अनिल कुमार (सं. 15312719के अब जेसी-331861डब्ल्यू),
04 सितम्बर 2009, जे

हवलदार राजू (सं. 1583261एच अब जेसी-331862वाई),
13 अक्टूबर 2009, आर

हवलदार रमेश एल (सं. 1486191एल अब जेसी-331863एफ),
21 फरवरी 2009, ई

हवलदार शम्भु कांत शर्मा (सं. 1486188एल अब जेसी-331864के),
17 जुलाई 2009, के

हवलदार ए बैजुमोन (सं. 15308888एन अब जेसी-331865एम),
31 जुलाई 2009, के

हवलदार देवानंद ए (सं. 15309252वाई अब जेसी-331866पी),
21 मई 2009, के

हवलदार साजी टी जे (सं. 15309380डब्ल्यू अब जेसी-331867एक्स),
24 सितम्बर 2009, के

हवलदार भगवती प्रसाद कुक्रेती (सं. 1482480एच अब जेसी-331868ए),
16 मई 2009, जी

हवलदार संजय कुमार (सं. 15312489एफ अब जेसी-331869एच),
17 सितम्बर 2009, एल

हवलदार के एस संतोष (सं. 15310293पी अब जेसी-331870एक्स),
07 अक्टूबर 2009, पी

हवलदार गोলাম मुस्तफा (सं. 1586521एन अब जेसी-331871ए),
20 अक्टूबर 2009, बी

- हवलदार शीर्थगिरी जीपी (सं. 15309966एम अब जेसी-331872एच),
19 अक्टूबर 2009, बी
- हवलदार चुना राम चौधरी (सं. 1586890एल अब जेसी-331873एल),
19 अक्टूबर 2009, बी
- हवलदार सफात असायी (सं. 1586696डब्ल्यू अब जेसी-331874एन),
20 अक्टूबर 2009, एल
- हवलदार रामाकान्त यादव (सं. 1587058के अब जेसी-331875डब्ल्यू),
29 अक्टूबर 2009, एल
- हवलदार हेमैद्रा कुमार (सं. 15313440एक्स अब जेसी-331876वाई),
23 अक्टूबर 2009, एल
- हवलदार भोपले किरन ओंकार (सं. 1587249वाई अब जेसी-331877एफ),
19 अक्टूबर 2009, एल
- हवलदार अशोक कुमार एम (सं. 15309482एम अब जेसी-331878के),
30 सितम्बर 2009, पी
- हवलदार सलंके अर्जुन रतन राव (सं. 1584986पी अब जेसी-331879एम),
29 सितम्बर 2009, पी
- हवलदार नवीनन पीके (सं. 15308674एक्स अब जेसी-331880एफ),
30 सितम्बर 2009, पी
- हवलदार हरविंदर सिंह (सं. 1485614एफ अब जेसी-331881के),
20 अक्टूबर 2009, पी
- हवलदार तेरानी इरप्पा रुद्रप्पा (सं. 1583499एच अब जेसी-331882एम),
01 अक्टूबर 2009, पी
- हवलदार उतम सिंह जदोन (सं. 1488402एफ अब जेसी-331883पी),
30 सितम्बर 2009, पी
- हवलदार रूपेश कुमार सिंह (सं. 1489336डब्ल्यू अब जेसी-331884एक्स),
21 अक्टूबर 2009, पी
- हवलदार संजीव कुमार जागिर (सं. 1587903के अब जेसी-331885ए),
24 अगस्त 2009, जे
- हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 1489400एच अब जेसी-331886एच),
26 अक्टूबर 2009, जे
- हवलदार सुल्फे वीके (सं. 1586154एम अब जेसी-331887एल),
23 अक्टूबर 2009, जे
- हवलदार विनोद कदम (सं. 1586925डब्ल्यू अब जेसी-331888एन),
30 अक्टूबर 2009, जे
- हवलदार सत्येंद्रा सिंह मलिक (सं. 1587040एन अब जेसी-331889डब्ल्यू),
31 अक्टूबर 2009, एस
- हवलदार राम कुमार (सं. 1587415एफ अब जेसी-331890एल),
31 अक्टूबर 2009, एस
- हवलदार उदय शंकर सिंह (सं. 1489152एक्स अब जेसी-331891एन),
31 अक्टूबर 2009, एस
- हवलदार शिंदे श्रीकांत महादेव (सं. 1585093एन अब जेसी-331892डब्ल्यू),
03 नवम्बर 2009, एस
- हवलदार सोमनाथ मल्लिक (सं. 1492614के अब जेसी-331893वाई),
03 नवम्बर 2009, एस
- हवलदार रंजीत कुमार (सं. 15316806पी अब जेसी-331894एफ),
31 अक्टूबर 2009, एस
- हवलदार रविंदर सिंह (सं. 15305725पी अब जेसी-331895के),
29 अक्टूबर 2009, जे
- हवलदार मनोज कुमार (सं. 15311170पी अब जेसी-331896एम),
24 जून 2009, एल
- हवलदार चंद्र भान (सं. 6389940एफ अब जेसी-331897पी),
07 नवम्बर 2009, पी
- हवलदार रमेशन पी (सं. 15313142एफ अब जेसी-331898एक्स),
03 नवम्बर 2009, बी
- हवलदार सेशु कुमार टीके (सं. 15313173एफ अब जेसी-331899ए),
07 नवम्बर 2009, एल
- हवलदार भवर जनार्धन सरजीराव (सं. 1586944एफ अब जेसी-331900के),
03 नवम्बर 2009, एल
- हवलदार मनोज कुमार (सं. 15312524वाई अब जेसी-331901एम),
16 नवम्बर 2009, एल
- हवलदार गय्के भरत अर्जुन राव (सं. 6390051डब्ल्यू अब जेसी-331902पी),
25 नवम्बर 2009, पी
- हवलदार अरविंद सिंह चौहान (सं. 1587814एल अब जेसी-331903एक्स),
09 जून 2009, जी
- हवलदार रव्देश कुमार मिश्रा (सं. 1580315एन अब जेसी-331904ए),
07 अगस्त 2009, एल
- हवलदार परमिंदर सिंह (सं. 1584089वाई अब जेसी-331905एच),
24 जून 2009, एल
- हवलदार ए वेनुगोपाल (सं. 15308773ए अब जेसी-331906एल),
05 अक्टूबर 2009, पी
- हवलदार स्वदेश सिंह यादव (सं. 1586827डब्ल्यू अब जेसी-331907एन),
14 नवम्बर 2009, ए
- हवलदार नरेंद्रा कुमार नायक (सं. 1489193एफ अब जेसी-331908डब्ल्यू),
12 नवम्बर 2009, जी
- हवलदार सुरेश कुमार यादव (सं. 1586121एफ अब जेसी-331909वाई),
17 नवम्बर 2009, जी
- हवलदार दीपक कुमार महंती (सं. 1586907एन अब जेसी-331910एन),
17 नवम्बर 2009, जी
- हवलदार टेण्टू श्रीनीवास राव (सं. 1492879एन अब जेसी-331911डब्ल्यू),
16 नवम्बर 2009, जी

हवलदार जगदीप सोढ़ी (सं. 1492798एन अब जेसी-331912वाई),
17 नवम्बर 2009, एच

हवलदार जितेंद्र सिंह (सं. 1587042वाई अब जेसी-331913एफ),
16 नवम्बर 2009, एल

हवलदार अश्विनी कुमार (सं. 1587286एम अब जेसी-331914के),
16 नवम्बर 2009, एल

हवलदार मोहना कुमार केबी (सं. 15307618एम अब जेसी-331915एम),
16 नवम्बर 2009, यू

हवलदार अशोक कुमार बैठ (सं. 15313151एच अब जेसी-331916पी),
26 नवम्बर 2009, जी

हवलदार सुधाकर गंदम (सं. 15313310पी अब जेसी-331917एक्स),
27 नवम्बर 2009, जी

हवलदार वावरे श्री राम नरम्यन (सं. 1577624एल अब जेसी-331918ए),
31 अक्टूबर 2009, एस

हवलदार राम सिंह नेगी (सं. 1486834एक्स अब जेसी-331919एच),
04 नवम्बर 2009, एस

हवलदार प्रदीप टी एम (सं. 15312473डब्ल्यू अब जेसी-331920एक्स),
04 नवम्बर 2009, एस

हवलदार रविंद्रा कुमार (सं. 1580905एम अब जेसी-331921ए),
30 नवम्बर 2009, एस

हवलदार सुर्यावंशी विकाश प्रताप राव (सं. 1581550वाई अब
जेसी-331922एच), 01 नवम्बर 2009, एस

हवलदार प्रमोद कुमार पाण्डेय (सं. 1486732एफ अब
जेसी-331923एल), 30 अक्टूबर 2009, एस

हवलदार जाधव संतोश सुभाश (सं. 1584635ए अब जेसी-331924एन),
14 नवम्बर 2009, एस

हवलदार अजय सिंह नेगी (सं. 1587059एम अब जेसी-331925डब्ल्यू),
19 नवम्बर 2009, ए

हवलदार सुधीर कुमार (सं. 1486875एफ अब जेसी-331926वाई),
18 नवम्बर 2009, एस

हवलदार हिम्मत राम (सं. 15315225एल अब जेसी-331927एफ),
19 नवम्बर 2009, एस

हवलदार शैख हानिप युसुफ (सं. 15314296ए अब जेसी-331928के),
27 जून 2009, एल

हवलदार चंद्रा राम गुजर (सं. 1588604एक्स अब जेसी-331929एम),
25 जून 2009, एल

हवलदार दशरथ सिंह (सं. 1485699एच अब जेसी-331930एफ),
25 जून 2009, एल

हवलदार रमेश चंद्र (सं. 1587117एल अब जेसी-331931के),
23 नवम्बर 2009, एल

हवलदार सुदर्शन विश्वा कर्मा (सं. 1488682ए अब जेसी-331932एम),
31 अक्टूबर 2009, एस

हवलदार खदे विनायक प्रभाकर (सं. 1583819एम अब जेसी-331933पी),
06 जनवरी 2010, वी

हवलदार रनवीर सिंह (सं. 15312833एफ अब जेसी-331934एक्स),
06 जनवरी 2010, वी

हवलदार मुकेश कुमार (सं. 1587041डब्ल्यू अब जेसी-331935ए),
05 जनवरी 2010, वी

हवलदार रेड्डी सत्यनारायण (सं. 15311509एक्स अब जेसी-331936एच),
09 जनवरी 2010, वी

हवलदार नरेंद्रा सिंह (सं. 1483055के अब जेसी-331937एल), 11 जनवरी
2010, वी

हवलदार प्रसेंजीत सिंघा (सं. 1490878एम अब जेसी-331938एन),
06 जनवरी 2010, वी

हवलदार भुपेंद्र प्रताप सिंह (सं. 1491865एफ अब जेसी-331939डब्ल्यू),
06 जनवरी 2010, वी

हवलदार सरंगा धार बेहेरा (सं. 15314310एफ अब जेसी-331940एल),
06 जनवरी 2010, वी

हवलदार अतिकेरी सुभाश डुंडाप्पा (सं. 1486173एच अब जेसी-
331941एन), 06 जनवरी 2010, वी

हवलदार संजय कुमार वगाद्रे (सं. 1486194वाई अब जेसी-331942डब्ल्यू),
06 जनवरी 2010, वी

हवलदार शेर सिंह राठौर (सं. 1489524एक्स अब जेसी-331943वाई),
08 जनवरी 2010, वी

हवलदार अमीत कुमार (सं. 1491837पी अब जेसी-331944एफ),
06 जनवरी 2010, वी

हवलदार संजय धनिक (सं. 1491985ए अब जेसी-331945के),
04 जनवरी 2010, वी

हवलदार सुनिथ एस (सं. 15312939एच अब जेसी-331946एम),
11 जनवरी 2010, वी

हवलदार करन सिंह (सं. 15313731एक्स अब जेसी-331947पी),
04 जनवरी 2010, वी

हवलदार सरागदा श्रीवासा रेड्डी (सं. 15315733एफ अब जेसी-
331948एक्स), 08 जनवरी 2010, वी

हवलदार पी कुमारवेल (सं. 1587479एम अब जेसी-331949ए),
05 जनवरी 2010, वी

हवलदार संजय कुमार (सं. 1487223पी अब जेसी-331950पी), 05 जनवरी
2010, वी

हवलदार अमरेश कुमार पाल (सं. 15315391वाई अब जेसी-331951एक्स),
15 जनवरी 2010, वी

हवलदार पवार प्रवीन नारायण (सं. 1586274एल अब जेसी-331952ए),
06 जनवरी 2010, वी

- हवलदार सिसिर मंडल (सं. 1479249पी अब जेसी-331953एच),
05 जनवरी 2010, वी
- हवलदार वीरा कुमार एम (सं. 15304910डब्ल्यू अब जेसी-331954एल),
06 जनवरी 2010, वी
- हवलदार नोशाद वीएम (सं. 15309219एफ अब जेसी-331955एन),
08 जनवरी 2010, वी
- हवलदार राम लखन (सं. 1578543एक्स अब जेसी-331956डब्ल्यू),
05 जनवरी 2010, वी
- हवलदार थेन्नारसु के (सं. 15306514वाई अब जेसी-331957वाई),
29 जनवरी 2010, वी
- हवलदार अशोक कदम (सं. 1581858एम अब जेसी-331958एफ),
18 जनवरी 2010, वी
- हवलदार सुशील कुमार कटारा (सं. 1489724एन अब जेसी-331959के),
06 जनवरी 2010, वी
- हवलदार गौर मैती (सं. 1490438वाई अब जेसी-331960वाई), 06 जनवरी
2010, वी
- हवलदार राजेश कुमार सिंह (सं. 1586922एच अब जेसी-331961एफ),
06 जनवरी 2010, वी
- हवलदार भरत सिंह (सं. 1487222एम अब जेसी-331962के), 06 जनवरी
2010, वी
- हवलदार फौजल इस्लाम (सं. 1492195एक्स अब जेसी-331963एम),
16 जनवरी 2010, वी
- हवलदार अनिल सिंह रावत (सं. 1484040एन अब जेसी-331964पी),
06 जनवरी 2010, वी
- हवलदार दीपक नौटियाल (सं. 1484874ए अब जेसी-331965एक्स),
06 जनवरी 2010, वी
- हवलदार सुब्बुराज के (सं. 15308134वाई अब जेसी-331966ए), 09 जनवरी
2010, वी
- हवलदार हर्षपाल सिंह रावत (सं. 1490248एम अब जेसी-331967एच),
06 जनवरी 2010, वी
- हवलदार विजय कुमार शसनि (सं. 1491732एल अब जेसी-331968एल),
06 जनवरी 2010, वी
- हवलदार पूरन सिंह (सं. 1485789के अब जेसी-331969एन), 06 जनवरी
2010, वी
- हवलदार वकिल सिंह यादव (सं. 1486647वाई अब जेसी-331970एच),
07 जनवरी 2010, वी
- हवलदार बोर्से गंगाधर रामदास (सं. 1585005एम अब जेसी-331971एल),
19 जनवरी 2010, वी
- हवलदार सुरेश चंद (सं. 1492436एम अब जेसी-331972एन),
06 जनवरी 2010, वी
- हवलदार ललम स्वामी नायडू (सं. 15308206एक्स अब जेसी-
331973डब्ल्यू), 05 जनवरी 2010, वी
- हवलदार थजुड्डेन एम (सं. 15306700पी अब जेसी-331974वाई),
30 जनवरी 2010, वी
- हवलदार गनेशा अदिगा (सं. 15307974एम अब जेसी-331975एफ),
08 फरवरी 2010, वी
- हवलदार बिशन सिंह रावत (सं. 1490191एच अब जेसी-331976के),
04 फरवरी 2010, वी
- हवलदार इ क्रिष्णा प्रसाद (सं. 15311914पी अब जेसी-331977एम),
23 जनवरी 2010, डब्ल्यू
- हवलदार सत्या प्रकाश राय (सं. 1581107एल अब जेसी-331978पी),
23 जनवरी 2010, डब्ल्यू
- हवलदार विजय कुमार (सं. 15309647ए अब जेसी-331979एक्स),
22 जनवरी 2010, डब्ल्यू
- हवलदार श्रीनिवास बाबु वी (सं. 15312942एन अब जेसी-331980एम),
22 जनवरी 2010, डब्ल्यू
- हवलदार दिनेश सिंह चुपल (सं. 1490971एन अब जेसी-331981पी),
04 फरवरी 2010, डब्ल्यू
- हवलदार वेद पाल सिंह (सं. 1488769एफ अब जेसी-331982एक्स),
22 जनवरी 2010, डब्ल्यू
- हवलदार प्रभाकर इथपे (सं. 1581383एन अब जेसी-331983ए), 23 जनवरी
2010, डब्ल्यू
- हवलदार अब्दुल माबुब खान (सं. 1582780वाई अब जेसी-331984एच),
22 जनवरी 2010, डब्ल्यू
- हवलदार देओरे रविराज हिलाल (सं. 1584560एन अब जेसी-331985एल),
23 जनवरी 2010, डब्ल्यू
- हवलदार राजेंद्रा प्रसाद (सं. 1585062एन अब जेसी-331986एन),
20 जनवरी 2010, डब्ल्यू
- हवलदार गैक्वाद तनाजी धर्मा (सं. 1585110एच अब जेसी-331987डब्ल्यू),
19 जनवरी 2010, डब्ल्यू
- हवलदार दीपा राम गोद्रा (सं. 1489566के अब जेसी-331988वाई),
25 जनवरी 2010, डब्ल्यू
- हवलदार जगजीत सिंह (सं. 1586227एन अब जेसी-331989एफ),
19 जनवरी 2010, डब्ल्यू
- हवलदार लक्ष्मी नारायण पल्ला (सं. 1588513एन अब जेसी-331990डब्ल्यू),
29 जनवरी 2010, डब्ल्यू
- हवलदार जाधव बालु एकनाथ (सं. 15315300के अब जेसी-331991वाई),
01 फरवरी 2010, डब्ल्यू
- हवलदार श्याम सुंदर सिंह (सं. 15316473एन अब जेसी-331992एफ),
31 जनवरी 2010, डब्ल्यू

हवलदार जसवंत सिंह (सं. 1491796डब्ल्यू अब जेसी-331993के),
29 जनवरी 2010, डब्ल्यू

हवलदार राकेश कुमार तुहल (सं. 1493221ए अब जेसी-331994एम),
28 जनवरी 2010, डब्ल्यू

हवलदार मदन कुमार शर्मा (सं. 6390221ए अब जेसी-331995पी),
02 फरवरी 2010, डब्ल्यू

हवलदार शास्त्राकार राजेश पाण्डुरंग (सं. 1587243एक्स अब जेसी-
331996एक्स), 23 फरवरी 2010, एल

हवलदार दीपक विशानत पाटील (सं. 1586381एम अब जेसी-331997ए),
16 फरवरी 2010, एक्स

हवलदार मोरे दिलीप हैबति (सं. 1583641एफ अब जेसी-331998एच),
19 फरवरी 2010, एक्स

हवलदार राम प्रकाश (सं. 1580103एच अब जेसी-331999एन), 14 जनवरी
2010, वाई

हवलदार गणेश चंद्रा गराई (सं. 1483789एल अब जेसी-332000एम),
16 जनवरी 2010, वी

हवलदार राम पाल (सं. 1589247एम अब जेसी-332001पी), 07 जनवरी
2010, वी

हवलदार धर्मेन्द्रा सिंह (सं. 1587743पी अब जेसी-332002एक्स), 11 फरवरी
2010, वी

हवलदार आतम सिंह (सं. 1487912डब्ल्यू अब जेसी-332003ए), 02 मार्च
2010, वी

हवलदार संतोश कुमार आर (सं. 15313790के अब जेसी-332004एच),
20 फरवरी 2010, वी

हवलदार मोहम्मद इब्रार (सं. 1584683ए अब जेसी-332005एल),
06 जनवरी 2010, वी

हवलदार टी गिरिश कुमार (सं. 15311579डब्ल्यू अब जेसी-332006एन),
20 फरवरी 2010, डब्ल्यू

हवलदार धनजय बी (सं. 15308078एल अब जेसी-332007डब्ल्यू),
03 मार्च 2010, डब्ल्यू

हवलदार सुधीर कुमार टीजी (सं. 15311748एम अब जेसी-332008वाई),
22 जनवरी 2010, डब्ल्यू

हवलदार संजय कुमार (सं. 1490150वाई अब जेसी-332009एफ),
25 जनवरी 2010, डब्ल्यू

हवलदार गुब्बाला श्रीनिवास राव (सं. 15307805एल अब जेसी-
332010डब्ल्यू), 22 जनवरी 2010, डब्ल्यू

हवलदार सत्या नारायण सिंह (सं. 1486924वाई अब जेसी-332011वाई),
20 जनवरी 2010, डब्ल्यू

हवलदार नरेंद्रा कुमार शर्मा (सं. 1586994एम अब जेसी-332012एफ),
25 फरवरी 2010, डब्ल्यू

हवलदार बसीर मोहम्मद (सं. 1584999एम अब जेसी-332013के),
30 जनवरी 2010, डब्ल्यू

हवलदार जग्गा राव सुरादा (सं. 1587313एल अब जेसी-332014एम),
29 जनवरी 2010, डब्ल्यू

हवलदार नंद किशोर (सं. 1492680एम अब जेसी-332015पी), 28 जनवरी
2010, डब्ल्यू

हवलदार हुकम चंद (सं. 1584864एल अब जेसी-332016एक्स), 28 जनवरी
2010, डब्ल्यू

हवलदार प्रवेश कुमार (सं. 1487182डब्ल्यू अब जेसी-332017ए),
08 मार्च 2010, डब्ल्यू

हवलदार दिनेश कुमार गिरि (सं. 1586697वाई अब जेसी-332018एच),
12 फरवरी 2010, डब्ल्यू

हवलदार ब्रिज बिहारी लाल (सं. 1485933एन अब जेसी-332019एल),
26 फरवरी 2010, डब्ल्यू

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
16 फरवरी 2008, 31 मई 2008, 12 जुलाई 2008, 23 अगस्त 2008,
16 अगस्त 2008, 11 सितम्बर 2008, 13 सितम्बर 2008, 09 जनवरी
2009, 01 फरवरी 2009, 14 मार्च 2009, 25 अप्रैल 2009, 08 मई 2009,
09 मई 2009, 16 मई 2009, 30 मई 2009, 19 जून 2009, 27 जून
2009, 11 जुलाई 2009, 14 अगस्त 2009, 12 सितम्बर 2009, 14 सितम्बर
2009, 01 अक्टूबर 2009, 24 दिसम्बर 2009, 09 जनवरी 2010)

टी ज्येष्ठता 16 फरवरी 2008

एफ ज्येष्ठता 31 मई 2008

आर ज्येष्ठता 12 जुलाई 2008

ई ज्येष्ठता 23 अगस्त 2008

ए ज्येष्ठता 11 सितम्बर 2008

डी ज्येष्ठता 13 सितम्बर 2008

बी ज्येष्ठता 09 जनवरी 2009

सी ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009

जे ज्येष्ठता 14 मार्च 2009

के ज्येष्ठता 25 अप्रैल 2009

जी ज्येष्ठता 08 मई 2009

एम ज्येष्ठता 09 मई 2009

एन ज्येष्ठता 16 मई 2009

एच ज्येष्ठता 30 मई 2009

एल ज्येष्ठता 19 जून 2009

क्यू ज्येष्ठता 27 जून 2009

एस ज्येष्ठता 11 जुलाई 2009

यू ज्येष्ठता 14 अगस्त 2009	नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी) शीष राम वर्मा (जेसी-350180एच), 02 अगस्त 2010
एक्स ज्येष्ठता 12 सितम्बर 2009	नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी) ईश्वर चंद (जेसी-350156एम), 15 जुलाई 2010
पी ज्येष्ठता 14 सितम्बर 2009	सूबेदार (जीडी) के रैंक में
वाई ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009	नायब सूबेदार (जीडी) किशन चंद (जेसी-350376डब्ल्यू), 03 फरवरी 2010
वी ज्येष्ठता 24 दिसम्बर 2009	नायब सूबेदार (जीडी) अर्जुन सिंह (जेसी-350410एल), 11 फरवरी 2010
डब्ल्यू ज्येष्ठता 09 जनवरी 2009	नायब सूबेदार (जीडी) रेशम सिंह (जेसी-350415के), 01 मार्च 2010
**ज्येष्ठता 16 अगस्त 2008	नायब सूबेदार (जीडी) लखवीर सिंह (जेसी-350481एम), 01 मई 2010
बम्बई इंजीनियर ग्रुप	नायब सूबेदार (जीडी) तेज सिंह (जेसी-350688एम), 24 मई 2010
सूबेदार मेजर (क्लर्क एस डी) के रैंक में	नायब सूबेदार (जीडी) दलविंदर सिंह (जेसी-350484ए), 03 मई 2010
सूबेदार (क्लर्क एसडी) नंद लाल (जेसी-348446एल), 27 अप्रैल 2010	नायब सूबेदार (जीडी) सवरन सिंह (जेसी-350482पी), 01 मई 2010
सूबेदार (क्लर्क एसडी) राम दास (जेसी-348470एफ), 12 जुलाई 2010	नायब सूबेदार (जीडी) संतोष सिंह (जेसी-350483एक्स), 01 मई 2010
सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में	नायब सूबेदार (जीडी) कृष्ण कुमार (जेसी-350485एच), 03 मई 2010
सूबेदार (जीडी) वलीयत सिंह (जेसी-348776के), 01 अप्रैल 2010	नायब सूबेदार (जीडी) जगदीश सिंह (जेसी-350486एल), 01 मई 2010
सूबेदार (जीडी) बगीचा सिंह (जेसी-348788वाई), 02 अप्रैल 2010	नायब सूबेदार (जीडी) धनवडे रामदास राजाराम (जेसी-350487एन), 01 मई 2010
सूबेदार (जीडी) संतोष कुमार सिंह (जेसी-348199एच), 26 जुलाई 2010	नायब सूबेदार (जीडी) सोहन लाल (जेसी-350489वाई), 01 मई 2010
सूबेदार (आरटी) रमेश चंद्र शर्मा (जेसी-151495पी), 02 जून 2010	नायब सूबेदार (जीडी) नरेंद्र कुमार (जेसी-350430वाई), 01 अप्रैल 2010
सूबेदार (आरटी) सुर्य नाथ शुक्ला (जेसी-160399एफ), 03 जून 2010	नायब सूबेदार (जीडी) अंग्रेज सिंह यादव (जेसी-350438एल), 01 अप्रैल 2010
सूबेदार (क्लर्क एसडी) के रैंक में	नायब सूबेदार (जीडी) सुखा लाल (जेसी-350437एच), 02 अप्रैल 2010
नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी) पवन कुमार सैनी (जेसी-350173एम), 01 मई 2010	नायब सूबेदार (जीडी) इनरमान (जेसी-350447एम), 18 अप्रैल 2010
नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी) पवार चंद्रकांत दादाजी (जेसी-350150एल), 01 मई 2010	नायब सूबेदार (जीडी) दलजीत सिंह (जेसी-350442एन), 01 अप्रैल 2010
नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी) मोहनन नायर (जेसी-350176ए), 26 जून 2010	
नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी) बचन लाल चपारिया (जेसी-350177एच), 23 जून 2010	
नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी) विकील सिंह (जेसी-350175एक्स), 01 जुलाई 2010	
नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी) दलपत सिंह (जेसी-350164एल), 26 जुलाई 2010	
नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी) मुखतार सिंह (जेसी-350178एल), 02 जुलाई 2010	
नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी) पुरन मल (जेसी-350166डब्ल्यू), 06 जुलाई 2010	

नायब सूबेदार (जीडी) शिंदे रामदास परशुराम (जेसी-350461वाई),
01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार (जीडी) दलबीर सिंह (जेसी-350456एन), 01 अप्रैल
2010

नायब सूबेदार (जीडी) कुलदीप सिंह (जेसी-350459एफ),
01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार (जीडी) राजबीर सिंह (जेसी-350495एम), 01 अप्रैल
2010

नायब सूबेदार (जीडी) किशन सिंह (जेसी-350462एफ), 01 अप्रैल
2010

नायब सूबेदार (जीडी) कुलदीप सिंह (जेसी-350463के), 07 अप्रैल
2010

नायब सूबेदार (जीडी) हंसा सिंह (जेसी-350465पी), 01 अप्रैल
2010

नायब सूबेदार (जीडी) गिरधारी सिंह (जेसी-350457डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार (जीडी) भुरा सिंह भारद्वाज (जेसी-350498ए),
01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार (जीडी) पाटील वामन राव दिगंबर राव
(जेसी-350477के), 03 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार (जीडी) सनस यशवंत मुगट राव (जेसी-350478एम),
03 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार (जीडी) मनोज कुमार सी एस (जेसी-350479पी),
01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार (जीडी) अजमेर सिंह (जेसी-350499एच), 01 अप्रैल
2010

नायब सूबेदार (जीडी) बलविंदर सिंह (जेसी-350592के), 01 अप्रैल
2010

नायब सूबेदार (जीडी) विश्वास (जेसी-350529पी), 28 मई 2010

नायब सूबेदार (जीडी) एस मोहम्मद (जेसी-350505एल), 11 जून
2010

नायब सूबेदार (जीडी) शेर सिंह (जेसी-350490एन), 22 जून 2010

नायब सूबेदार (जीडी) राबुल मोहन शंकर (जेसी-350506एन),
18 जून 2010

नायब सूबेदार (जीडी) भवंर सिंह परिहार (जेसी-350507डब्ल्यू),
03 जुलाई 2010

नायब सूबेदार (जीडी) यश पाल सिंह (जेसी-350510डब्ल्यू),
24 जून 2010

नायब सूबेदार (जीडी) प्रहलाद श्रीमती बंगर (जेसी-350531एम),
21 जून 2010

नायब सूबेदार (जीडी) सत्यवान (जेसी-350552एच), 28 जून 2010

नायब सूबेदार (जीडी) तसब्बर अली (जेसी-350514एम), 03 जुलाई
2010

नायब सूबेदार (जीडी) अजित सिंह नेगी (जेसी-350516एक्स),
05 जुलाई 2010

नायब सूबेदार (जीडी) सरफराज अली (जेसी-350517ए), 03 जुलाई
2010

नायब सूबेदार (जीडी) झहिरुद्दीन खान (जेसी-350518एच),
10 जुलाई 2010

नायब सूबेदार (जीडी) बिसावा सिंह (जेसी-350542वाई), 08 जुलाई
2010

नायब सूबेदार (जीडी) नरेंद्र सिंह (जेसी-350521एच), 14 जुलाई
2010

नायब सूबेदार (जीडी) परमात्मा सिंह (जेसी-350522एल),
16 जुलाई 2010

नायब सूबेदार (जीडी) चरन सिंह (जेसी-350509एफ), 16 जुलाई
2010

नायब सूबेदार (जीडी) जाधव सुरेश दगडु (जेसी-350519एल),
06 जुलाई 2010

नायब सूबेदार (जीडी) शिंदे सुभाष शेनफड (जेसी-350501पी),
24 जून 2010

नायब सूबेदार (जीडी) अजित सिंह (जेसी-350532पी), 15 जुलाई
2010

सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में

नायब सूबेदार (एसकेटी) कुलदीप सिंह (जेसी-349442एफ),
08 मई 2010

नायब सूबेदार (एसकेटी) जय प्रकाश वर्मा (जेसी-349709एल),
23 जून 2010

नायब सूबेदार (एसकेटी) जरनैल सिंह (जेसी-349720के),
03 जुलाई 2010

नायब सूबेदार (एसकेटी) साबुदीन खान (जेसी-349543पी),
01 अप्रैल 2010

सूबेदार (आरटी) के रैंक में

नायब सूबेदार (आरटी) धनवंत सिंह (जेसी-151493के), 26 अप्रैल
2010

नायब सूबेदार (आरटी) हरमेश सिंह (जेसी-348538एक्स), 01 मई
2010

सूबेदार (संगीतकार) के रैंक में

नायब सूबेदार (संगीतकार) बेल बहादुर थापा (जेसी-350728एच),
22 अप्रैल 2010

मद्रास इंजीनियर ग्रुप

सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

रैंक, नाम, जेसी नम्बर, पदोन्नति की तिथि

सूबेदार (जीडी) राधाकृष्णन पिल्लै के (जेसी-306646ए),
05 दिसम्बर 2009*

सूबेदार (जीडी) जीवानंदन जी (जेसी-306779डब्ल्यू), 01 जनवरी
2010

सूबेदार (जीडी) वगा राम (जेसी-306844एल), 01 जनवरी 2010

सूबेदार (जीडी) सुब्बाराज सी (जेसी-306796डब्ल्यू), 01 फरवरी
2010

सूबेदार (जीडी) के मूल रैंक में

नायब सूबेदार (जीडी) सी बालासौरि बाबु (जेसी-308652एम),
01 जनवरी 2010

नायब सूबेदार (जीडी) अल्ला सम्ब रेड्डी (जेसी-308653पी),
04 जनवरी 2010@

नायब सूबेदार (जीडी) जी मरि गंदन (जेसी-308657एल),
01 जनवरी 2010

नायब सूबेदार (जीडी) वीरप्पन वी (जेसी-308671एक्स), 01 जनवरी
2010

नायब सूबेदार (जीडी) मनिसामि ए (जेसी-308673एच), 01 जनवरी
2010

नायब सूबेदार (जीडी) डी मुरली (जेसी-308675एन), 01 जनवरी
2010

नायब सूबेदार (जीडी) बाबु राजन बी (जेसी-308676डब्ल्यू),
04 जनवरी 2010@

नायब सूबेदार (जीडी) शंकर कालप्पा देवान्वर (जेसी-308677वाई),
15 जनवरी 2010@

नायब सूबेदार (जीडी) पी डी डोमिनिक (जेसी-308679के),
11 जनवरी 2010@

नायब सूबेदार (जीडी) रतीश पी वी (जेसी-308680वाई), 01 जनवरी
2010

नायब सूबेदार (जीडी) बिजु एम एम (जेसी-308689एन),
01 जनवरी 2010

नायब सूबेदार (जीडी) बी एम कुशलप्पा (जेसी-308690एच),
01 जनवरी 2010

नायब सूबेदार (जीडी) वी कल्यानि (जेसी-308691एल), 01 जनवरी
2010

नायब सूबेदार (जीडी) पी राजासेखर (जेसी-308692एन),
01 जनवरी 2010

नायब सूबेदार (जीडी) सेकर (जेसी-308693डब्ल्यू), 01 जनवरी
2010

नायब सूबेदार (जीडी) एम दक्षिणा मुर्धि (जेसी-308694वाई),
01 जनवरी 2010

नायब सूबेदार (जीडी) कातालिंगम आर (जेसी-308695एफ),
01 जनवरी 2010

नायब सूबेदार (जीडी) सत्यामूर्ति एम (जेसी-308696के), 01 फरवरी
2010

नायब सूबेदार (जीडी) के गनासेगरन (जेसी-308697एम),
01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार (जीडी) एल कृष्णामूर्ति (जेसी-308701के), 01 फरवरी
2010

नायब सूबेदार (जीडी) यू येसुराजन (जेसी-308702एम), 02 फरवरी
2010#

नायब सूबेदार (जीडी) सी संकर (जेसी-308704एक्स), 01 फरवरी
2010

नायब सूबेदार (जीडी) गोंथेना सूर्यानारायना (जेसी-308705ए),
01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार (जीडी) आर राजेंद्रन (जेसी-308570के), 01 फरवरी
2010

नायब सूबेदार (जीडी) कंदावेल जी (जेसी-308571एम), 01 फरवरी
2010

नायब सूबेदार (जीडी) ईरुदया राज एस (जेसी-308589एच),
01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार (जीडी) गंगाधरय्या एम (जेसी-308590एक्स),
01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार (जीडी) पी मुरुगेसन (जेसी-308591ए), 06 फरवरी
2010#

नायब सूबेदार (जीडी) गुदिया श्रीनिवासा राव (जेसी-308651के),
01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार (जीडी) एस मनिवन्नन (जेसी-308699एक्स),
01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार (जीडी) एम मन्नन (जेसी-308717पी), 10 फरवरी
2010\$

नायब सूबेदार (जीडी) जी परसुरामन (जेसी-308360के), 02 मार्च
2010\$

नायब सूबेदार (जीडी) एस तमिलरासन (जेसी-308572पी),
01 मार्च 2010

नायब सूबेदार (जीडी) एस आरूनाचलम (जेसी-308670पी),
01 मार्च 2010

नायब सूबेदार (जीडी) ए संकर (जेसी-308718एक्स), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार (जीडी) आर सुंदरा राज (जेसी-308719ए), 02 मार्च 2010\$

नायब सूबेदार (जीडी) ए आरूथल मानिककम (जेसी-308720पी), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार (जीडी) वाइ विक्टर (जेसी-308723एच), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार (जीडी) सिवादासन वी (जेसी-308724एल), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार (जीडी) बस्तव सौझ (जेसी-308726डब्ल्यू), 03 मार्च 2010\$

नायब सूबेदार (जीडी) ससिधरन एन (जेसी-308727वाई), 01 मार्च 2010

* सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 दिसम्बर 2009 से दी गई है।

@ सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी गई है।

सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी गई है।

\$ सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी गई है।

अलका जोशी
अवर सचिव

वायु शाखा

सं. 686, दिनांक 11 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं:-

भारतीय वायु सेना

शिक्षा शाखा

युप कौप्टन के मूल रैंक में

युप कौप्टन ए के वार्धगेय, (17077), शिक्षा, 01 अप्रैल 2010

युप कौप्टन डी सी सिरोरिया, (17081) शिक्षा, 24 मई 2010

ए के सिंह

उप निदेशक कार्मिक अधिकारी-2 (बी)

सं. 687, दिनांक 11 नवम्बर 2010--माननीय राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं:-

भारतीय वायुसेना

फ्ला अफ से फ्ला लेफ्टि के मूल रैंक पर

ए ई (एम) शाखा

आर आनंद (29334), एन सारस्वत (29349), ओम प्रकाश (29345), वी एस राठौर (29344), एस के त्यागी (29337),

एम दीक्षित (29336), एस पॉल (29338), अंशुमन (29343), आर सिंह (29347), एस सहरावत (29346), आर शर्मा (29341), एस समीउद्दीन (29342), जे फ्रांसिस (29335), एस कुमार (29340), एन कुमार (29339), ए के यादव (29348), जे यादव (29350), आई सिंह (29333)--28 दिसम्बर 2007 से प्रभावी

एई (एल) शाखा

जी के यादव (29363), ए दीक्षित (29364), एन के शर्मा (29365), ए के प्रसाद (29367), एस तिवारी (29368), वी सिंह (29369), सी सोनी (29370), बी एल शर्मा (29371), ए कुमार (29375), पी के वर्मा (29377), एन रैना (29378), डी दत्ता (29379), वी एस चौहान (29380), एस राठौर (29388), वाई छेत्री (29389), आर वी चन्द्रन (29381), सेंथिल वी (29382), पी सिंघल (29384), के शर्मा (29385), पी भाटी (29386), जी एस रंधावा (29387), ए रावत (29390), के च्नुगु (29391), के पी सिंह (29392), बी सिंह (29393), एस शर्मा (29394), पी भोरिया (29395), वी डागर (29376), एस कौशिक (29373), वी गौरव (29372), ए अहलावत (29151), ए कुमार (29359), ए रतन (29358), ए एस सचान (29357), ए जैन (29352), के यादव (29374), ए के खुल्लर (29362), जी राय (29360), ए के श्रीवास्तव (29361), पी के तनुगुला (29356), वी शर्मा (29355), एन एम कामथ (29351), आर मुखी (29353), वी वी नायर (29383), ए आनंद (29354), एम सिंह (29674)--28 दिसम्बर 2007 से प्रभावी

एफ (एन) शाखा

ए आर्या (29233), एम बी वलुंज (29177), आई अनवर (29246) --15 दिसम्बर 2008 से प्रभावी

वी एम मार्टीकर

विंग कमांडर

संयुक्त निदेशक

कार्मिक अफसर-3 (डी)

सं. 688, दिनांक 11 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में निदेशक श्री जोस थॉमस (जन्म-तिथि: 21 अक्टूबर 1950 तथा सीएसएल सं. 3450) को उनकी अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर दिनांक 31 अक्टूबर 2010 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

के मुरली

अवर सचिव

सं. 689, दिनांक 12 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में उप सचिव सुश्री जे जे कौर (जन्म-तिथि: 02 अक्टूबर 1950 और चयन सूची 2009) की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर दिनांक 31 अक्टूबर 2010 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

टी पी केरकेट

अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 690, दिनांक 12 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवानिवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं तथा उनको अधिकारियों के नियमित आरक्षी कोटे (क्लास X) आधीन एसएआई 10/S/63 यथा संशोधित में स्थानांतरित करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(आईसी-47477) ले कर्नल एम जे जार्ज, इंजीनियर्स, 29 फरवरी 2008

(आईसी-42666) ले कर्नल अनिल मोहन कटारिया, एओसी, 29 अक्टूबर 2008

(आईसी-48466) ले कर्नल कृष्ण कान्त ए कॉवले, इंजीनियर्स, 27 जनवरी 2010(अप)

(आईसी-48123) ले कर्नल सी एम सिनी अचन, एओसी, 03 फरवरी 2010(अप)

(आईसी-47679) ले कर्नल विनोद कुमार थपलियाल, इंजीनियर्स, 06 जनवरी 2010(अप)

(आईसी-49301) ले कर्नल अमित कुमार, इन्फैन्ट्री, 11 जून 2010(अप)

(आईसी-48656) ले कर्नल पुनित खन्ना, इन्फैन्ट्री, 20 जून 2010(अप)

(आईसी-57333) ले कर्नल एस राजा, ईएमई, 05 जुलाई 2010(अप)

(आईसी-3940) ले कर्नल महेश्वर मोहनती, जीएस, 30 अप्रैल 2010(अप)

(आईसी-48820) ले कर्नल नवीन कुमार डबरॉल, ईएमई, 05 जुलाई 2010(अप)

(आईसी-48822) ले कर्नल हिमांशु रंजन सक्सेना, एसी, 11 अगस्त 2010(अप)

(आईसी-49235) ले कर्नल दिवेकर नरेन्द्र अरूण, आर्टी, 10 जून 2010(अप)

(आईसी-48035) ले कर्नल प्रक्ष नारायण चन्द, इंजीनियर्स, 13 जून 2010(अप)

(आईसी-47750) ले कर्नल सुनील कौशल, इंजीनियर्स, 05 जुलाई 2010(अप)

(आईसी-47832) ले कर्नल संजय रावल, इंजीनियर्स, 16 अप्रैल 2010(अप)

(आईसी-48936) ले कर्नल जॉन जेकब, इंजीनियर्स, 10 अप्रैल 2010(अप)

(आईसी-50774) ले कर्नल आर वरधराजा पेरूमल, इन्ट, 05 जुलाई 2010(अप)

(आईसी-48421) मेजर जोयन्तो कुमार रॉय चौधरी, इन्ट, 02 मई 2010(अप)

(आईसी-49163) ले कर्नल मनीष कुमार, एओसी, 30 मई 2010(अप)

(आईसी-48999) ले कर्नल अमिताभ भगत, आर्टी, 31 जुलाई 2010(अप)

(आईसी-47513) ले कर्नल हरी नारायणन पी, इंजीनियर्स, 13 जून 2010(अप)

(आईसी-44194) ले कर्नल आकाश सचन, इंजीनियर्स, 03 अप्रैल 2010(अप)

(आईसी-52211) ले कर्नल विरूपाक्षिया, एएससी, 14 मई 2010(अप)

एस के चक्रवर्ती
संयुक्त निदेशक
एम एस/पीआर

सं. 691, दिनांक 12 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को सेवानिवृत्त होने पर अपना रैंक बनाये रखने और वर्दी पहनने की अनुमति प्रदान करते हैं:-

प्रादेशिक सेना

सेवानिवृत्त

ले कर्नल एम के अहलूवालिया (टीए-42092), इन्फैन्ट्री, 31 मई 2010(अप)

जय राज
अवर सचिव

सं. 692, दिनांक 15 नवम्बर 2010--

शुद्धि-पत्र

ले से कप्तान

भारत के राजपत्र संख्या 142/07 मार्च 2000 में दिनांक 14 अप्रैल 2001 को शीर्षक "नियमित सेना स्थायी कमीशन" एवं उप शीर्षक "ले से कप्तान" के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में आईसी-56908, 56909, 56910, 56911, 56913, 56914, 56915, 56916, 56917, 56920, 56921, 56923, 56924, 56926 - 56927 के विरुद्ध निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

के बदले : 10 दिसम्बर 1999

पढ़ा जाए : 11 दिसम्बर 1999

जसवन्त सिंह
संयुक्त निदेशक
एम एस-8सी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 11th December 2010

No. 669, dated 2nd November 2010—The President is pleased to appoint Shri Hazari Lal, CSS, Director, Ministry of Defence, as Joint Secretary on in-situ basis in the same Ministry wef 29 Sep 2010 (FN) till the date of his superannuation on 30th Sep 2010

The President is pleased to appoint Smt. Rashmi Verma, IAS (BH : 82), on transfer from Govt. of Bihar, as Joint Secretary in the Department of Defence Production, Ministry of Defence wef 20 Sep 2010 (FN), for a period of 5 years, upto 19 Sep 2015 or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Shri Harbans Singh, CSS, Director, Ministry of Defence, as Joint Secretary on in situ basis in the same Ministry wef 03 Sep 2010 (FN) till he is placed under Central Staffing Scheme, or until further orders, whichever is earlier

K MURALI
Under Secy

No. 670, dated 2nd November 2010—The President is pleased to appoint Shri B B Kaura, CSS, Director as Joint Secretary (in situ) in SAG in the Ministry of Defence wef 01 Oct 2010 (FN) till he is placed under Central Staffing Scheme.

Consequent upon inclusion of their names in the Senior Selection Grade (Director) supplementary Select List of CSS for the year 2010, the President is pleased to appoint the following Selection Grade (Deputy Secretary) officers of CSS of the Ministry of Defence as Directors' in the same Ministry wef the dates mentioned against their names :—

Name of the Officer and date of joining

Charanjit Lal, DFA, 21 Sep 2010

R K Ghatwal, DS, 21 Sep 2010

Jose Thomas, DS, 21 Sep 2010

Subhas C Sharma, DS, 21 Sep 2010

S D Banga, DS, 22 Sep 2010

The President is pleased to appoint Shri Vivek Rae, IAS (UT : 78), on transfer from the Cadre, as Director General (Acquisition), Department of Defence, Ministry of Defence wef 08 Oct 2010 (FN)

S K RASTOGI
Under Secy

No. 671, dated 2nd November 2010—The President is pleased to appoint Shri Suresh Puri, ITS (1991), on his transfer from Department of Telecommunication (MTNL), Ministry of Communication and Information Technology, as Director in the Ministry of Defence wef 17 Aug 2010

(FN) for a period of five years i.e. upto 16 Aug 2015, or until further orders, whichever is earlier

Consequent upon inclusion of his name in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select List of CSS for the year 2010 (part) by the Department of Personnel and Training vide their OM No. 4/2/2010-CS-I(D) dated the 25th Aug, 2010, the President is pleased to appoint Shri K L Nandwani, CSS, Under Secretary as Deputy Secretary of CSS in the Ministry of Defence on regular basis wef 01 Sep, 2010 (FN)

Consequent upon inclusion of his name in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select List of CSS for the year 2010 (part) by the Department of Personnel and Training vide their OM No. 4/2/2010-CS-I(D) dated the 06 Sep, 2010, the President is pleased to appoint Shri Vineet Saini, CSS, Under Secretary as Deputy Secretary of CSS in the Ministry of Defence on regular basis wef 06 Sep, 2010 (FN).

Consequent upon inclusion of his name in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select List of CSS for the year 2010 (part) by the Department of Personnel and Training vide their OM No. 4/2/2010-CS-I(D) dated the 25 Aug, 2010, the President is pleased to appoint Shri Raminder Singh Bhatia, CSS, Under Secretary as Deputy Secretary of CSS in the Ministry of Defence on regular basis wef 06 Sep, 2010 (FN)

The President is pleased to appoint the following CSS, Section Officers of Grade-I (Under Secretary) of CSS on ad hoc basis in the Ministry of Defence, until further orders in terms of DoP&T Order No. 5/3/2010-CS-I(U) dated 03 Sep, 2010 :—

CSL No., Name, Posted from & Date of Appointment as US

6688, Arup Shyam Choudhury, Ministry of Road Transport and Highways, 24 Sep 2010 (FN).

6691, Arvind Shukla, Ministry of Social Justice & Empowerment, 24 Sep 2010 (FN)

6694, Devashish Bhardwaj, Ministry of Home Affairs, NCRB, 08 Sep 2010 (AN).

6717, Dibakar Mishra, Ministry of Coal, 06 Sep 2010 (FN).

The appointment of the above officer as Under Secretary (ad hoc) is subject to following conditions :—

The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I (Under Secretary) of CSS.

Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore

The aforesaid ad hoc promotion shall be subject to the final outcome in the OA No. 3294/2009 titled Shri P R Sharma Vs UoI and OA No. 2674/2009 titled Shri P S Bhandari Vs UoI & Ors pending before the CAT, New Delhi

The President is pleased to appoint Smt. Rita Sharma regular Assistant borne on the CSS Cadre, presently officiating as Section Officer on ad hoc basis in the Ministry of Defence, as Section Officer on regular basis in the same Ministry in the Scale of Pay of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- wef 01 Jul 2007 (FN) until further orders, consequent on inclusion of her name in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2007 against Seniority Quota.

The aforesaid appointment is subject to outcome of Court Case No. 13245-60/2005 filed by Kailash Chander Vs UoI pending in High Court, Delhi and Case No. OA 1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs UoI pending in CAT, Delhi, CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi, OA No. 3294/2009 in CAT, Delhi and OA No. 2674/2009 in CAT, Delhi.

K MURALI
Under Secy

FINANCE DIVISION

No. 672, dated 3rd November 2010—The President is pleased to appoint Shri Prit Pal Singh, CSS as Deputy Financial Adviser in the Ministry of Defence (Finance) with effect from the forenoon of 25 Aug 2010, until further orders.

T JOSEPH
Dy Financial Adviser (Estt/MO)

No. 673, dated 3rd November 2010—The President is pleased to appoint Shri Anup Singh (CSS) as Assistant Financial Adviser in the Ministry of Defence (Finance Division) with effect from 15 Sep 2010 (FN) until further orders.

R C MEENA
Asstt Financial Adviser (Estt)

ARMY BRANCH

No. 674, dated 03rd November 2010—The President is pleased to make the following appointment under the provision of AI 3/S/70 (as amended) and AG/PS-2 (a) letter No. B/32313/PC/AG/PS-2(a) dated 23 Feb 2007 :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned SSCO is granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 04 Mar 2010 on relinquishing their SSC wef 04 Mar 2010:—

IC No, SS No, Name and Arm/Services

(IC-64940M) (SS-38338P), Sorount Yogveer Singh Krishna Kumar, AOC

The date of seniority in respect of abovementioned officer will be as follows:—

Date for increments of pay - 04 Mar 2000

Date for promotion - 04 Nov 2001

The inter-se-seniority of the officers granted PC in 10th year along with the officers of their batch granted PC in the 8th year, will however remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission of SSC-69 (Non-Tech) Course.

The President is pleased to make the following appointment under the provision of SAI 3/S/70 (as amended) and SAI 12/2001.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned Short Service Commissioned Officer has been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 08 Jun 2010 on relinquishing his Short Service Commission wef 08 Jun 2010:—

IC No, SS No, Name and Arm/Services

(IC-65782P) (SS-39893P), P Appala Satyaprasad, Inf

The date of seniority in respect of abovementioned officer will be as follows:—

Date for increments of pay - 07 Sep 2002

Date for promotion - 07 May 2004

(After depressing 12 months seniority with respect to the date of seniority assigned to the officer of his batch who was granted Permanent Commission on completion of 05 years of service)

The inter-se-seniority of the abovementioned Short Service Commissioned Officer granted Permanent Commission during 8th years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The President is pleased to make the following appointment under the provision of SAI 3/S/70 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned Short Service Commissioned Officer has been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 19 Mar 2010 on relinquishing his Short Service Commission wef 19 Mar 2010:—

IC No, SS No, Name and Arm/Services

(IC-66442Y) (SS-41297F), Yudhishter Rathore, Inf

The date of seniority in respect of abovementioned officer will be as follows:—

Date for increments of pay - 19 Mar 2005

Date for promotion - 19 Oct 2005

The inter-se-seniority of the abovementioned Short Service Commissioned Officer granted Permanent Commission after 5 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The undermentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 17 Sep 2010, on relinquishing their Short Service Commission wef 17 Sep 2010 :—

IC No. allotted SS No, Name and Arms/Service
 (IC-66537Y) (SS-41512F), Vijayendra Singh Yadav, Mech Inf
 (IC-66540Y) (SS-41515P), Pankaj Kumar Rawat, ASC
 (IC-66541F) (SS-41516F), KK Sarish, AAD
 (IC-66542K) (SS-41517A), Rohit Jakhar, AC
 (IC-66544P) (SS-41523N), Krishna Kant Bajpai, Inf
 (IC-66545X) (SS-41524W), Rahul Kasana, Int
 (IC-66546A) (SS-41525Y), J Gaurav Sharma, Arty
 (IC-66548L) (SS-41527K), Trivedi Nisheet Jayantilal, Arty
 (IC-66549N) (SS-41529P), Madhusudan BS, Arty
 (IC-66551L) (SS-41531L), Dharmaveer Singh Chauhan, Arty
 (IC-66552N) (SS-41533X), Ravinder Singh Rathore, EME
 (IC-66553W) (SS-41535H), Rajpal, Arty
 (IC-66554Y) (SS-41536L), Deshpande Aniruddha Balkrishna, Arty
 (IC-66556K) (SS-41538W), Arun Kuamr MS, Arty
 (IC-66557M) (SS-41539Y), Jagmohan Mehra, Inf
 (IC-66558P) (SS-41540N), Saurabh Sameer, Inf
 (IC-66559X) (SS-41542Y), Anand Singh, Inf
 (IC-66560M) (SS-41544K), Mohit Dubey, AC
 (IC-66561P) (SS-41545M), Girish Thakur, Arty
 (IC-66562X) (SS-41546P), Kislaya Singh, Arty
 (IC-66563A) (SS-41547X), Ambarish Mahanta, Inf
 (IC-66564H) (SS-41548A), Vaibhav Vadera, Inf
 (IC-66566N) (SS-41550X), Kapil Sharma, EME
 (IC-66567W) (SS-41551A), Pawan Kumar Bohra, Inf
 (IC-66568Y) (SS-41552H), Mahipal Singh, AOC
 (IC-66569F) (SS-41553L), Lukshya Pratap Singh Shekhawat, Mech inf

(IC-66570W) (SS-41554N), Udayan Pratap Singh, Inf
 (IC-66572F) (SS-41556Y), Ranjeet Singh Panwar, Inf
 (IC-66573K) (SS-41557F), Sudeep Singh, Mech Inf
 (IC-66574M) (SS-41558K), Rajneesh Pandey, Inf
 (IC-66576X) (SS-41561K), Hemant Mehta, Inf
 (IC-66577A) (SS-41563P), Tarandeep Singh Gill, Inf
 (IC-66579L) (SS-41566H), Rajinder Jit Singh, Arty
 (IC-66581H) (SS-41570L), Vinod Viswanath, Inf
 (IC-66582L) (SS-41572W), Jagdish Singh Samant, AC
 (IC-66584W) (SS-41575K), Nitesh Singh, Inf
 (IC-66585Y) (SS-41576M), Rowen Leslie Brass, Inf
 (IC-66586F) (SS-41577P), Akash Sharma, Arty
 (IC-66587K) (SS-41578X), Avdhesh Choudhary, Inf
 (IC-66589P) (SS-41582A), Ajeet Kumar Agarwal, Inf
 (IC-66590K) (SS-41583H), Anand Bahuguna, AC
 (IC-66591M) (SS-41584L), Nikhil Zope, Arty
 (IC-66593X) (SS-41588F), S Thenkhomang Baite, Inf
 (IC-66594A) (SS-41590Y), Saurabh Gupta, Inf
 (IC-66595H) (SS-41591H), Arnab Banerjee, Arty
 (IC-66596L) (SS-41592K), Manjeet Singh, Inf
 (IC-66597N) (SS-41593M), Sandeep Kausal, Inf
 (IC-66598W) (SS-41594P), Devender Singh, Arty
 (IC-66600H) (SS-41596A), Patel Gopinandan Dinesh Kumar, Int
 (IC-66602N) (SS-41599N), Vivek Kumar Sharma, AC
 (IC-66603W) (SS-41600X), Abhinav Manembeth, Arty
 (IC-66605F) (SS-41602H), Surendra S, Inf
 (IC-66606K) (SS-41604N), Manish Dhyani, Inf
 (IC-66608P) (SS-41606Y), Sandeep Kumar Sharma, EME
 (IC-66609X) (SS-41607F), Shaiwal Shrivastava, Inf
 (IC-66610M) (SS-41608K), Krishan Bhandari, Int
 (IC-66611P) (SS-41609M), Rajat Bali, Arty
 (IC-66612X) (SS-41611K), Akshay Lamba, AC
 (IC-66613A) (SS-41615A), Piyush Kumar Chhetri, Arty
 (IC-66614H) (SS-41618N), Nikhil Dhawan, Inf
 (IC-66615L) (SS-41619W), Kuldeep Singh Chandi, Inf
 (IC-66616N) (SS-41621N), Vikas Kadian, Int
 (IC-66617W) (SS-41622W), Dhantaj Singh, AC
 (IC-66618Y) (SS-41623Y), Anil Kumar Chahar, Int

(IC-66619F) (SS-41624F), Himmat Singh, Inf
 (IC-66620W) (SS-41626M), Rajat Kumar Birman, Inf
 (IC-66622F) (SS-41629A), KN Thimmayya, Arty
 (IC-66623K) (SS-41630P), Sachin Bhatnagar, Arty
 (IC-66624M) (SS-41631X), Amit Yadav, Arty
 (IC-66625P) (SS-41632A), Suraj Bhan Singh, Arty
 (IC-66626X) (SS-41633H), Nirvan Bajpai, AC
 (IC-66628H) (SS-41637Y), Sourabh Bali, Inf
 (IC-66631H) (SS-41642K), Raj Shobi Shammi, Inf
 (IC-66632L) (SS-41643M), Vineet Shekhar Prem, Inf
 (IC-66635Y) (SS-41650H), Gagan Deep Singh Rathore, Inf
 (IC-66637K) (SS-41652N), Niranjan Singh Dewal, Inf
 (IC-66638M) (SS-41653W), Khalkar Swapanil Shivaji,
 Engrs
 (IC-66639P) (SS-41654Y), Jimmy James, Inf
 (IC-66640K) (SS-41655F), Raman Adhikari, Inf
 (IC-66641M) (SS-41656K), Shashi Kumar K S, AAD
 (IC-66642P) (SS-41659X), Sakoon, AC
 (IC-66643X) (SS-41660M), Blesson K Daniel, AAD
 (IC-66644A) (SS-41661P), Ajay Kumar Bhardwaj, Arty
 (IC-66645H) (SS-41662X), Adhav Sachin Jagganath, EME
 (IC-66646L) (SS-41664H), Arjun Kapur, AC
 (IC-66647N) (SS-41666N), Sunil Kumar, Arty
 (IC-66648W) (SS-41667W), Rajendra Negi, Inf
 (IC-66649Y) (SS-41668Y), Soubam Chalamba, Inf
 (IC-66650N) (SS-41669F), Pradeep Kumar Yadav, AAD
 (IC-66652Y) (SS-41672F), Praveen R, AAD
 (IC-66653F) (SS-41673K), Vikas Guleria, Inf
 (IC-66654K) (SS-41675P), Hemender Vasudeva, Inf
 (IC-66655M) (SS-41676X), Roshan Krishnappa, Inf
 (IC-66656P) (SS-41677A), Shashank Shekhar, Inf
 (IC-66659H) (SS-41682L), Naveen Chauhan, Inf
 (IC-66660X) (SS-41683N), Amit Kumar Shukla, Arty
 (IC-66662H) (SS-41685Y), Suresh Kumar Dey, Arty
 (IC-66663L) (SS-41689P), Chandrasenan B R, Inf
 (IC-66666Y) (SS-41693X), Shiv Narayan Shukla, Engrs
 (IC-66667F) (SS-41694A), Kulkarni Omkar Kishor, Arty

(IC-66668K) (SS-41695H), Rudrashish Pandey, Arty
 (IC-66669M) (SS-41696L), Ranadive Sandeep Nandkumar,
 Arty
 (IC-66670F) (SS-41698W), Abhilash K M, Inf
 (IC-66672M) (SS-41700H), Avaneesh P Singh, Arty
 (IC-66674X) (SS-41704Y), Sudeep Singh, Arty
 (IC-66676H) (SS-41706K), Ritchie Ashwin S, Inf
 (IC-66678N) (SS-41710M), Rahul Dev, Inf
 (IC-66680L) (SS-41712X), Rahul Baghel, EME
 (IC-66681N) (SS-41713A), Pradeep Singh Gohil, AC
 (IC-66682W) (SS-41714H), Ranjeet Kumar Jha, Mech Inf
 (IC-66683Y) (SS-41716N), Shankar Pati Banerjee, Arty
 (IC-66684F) (SS-41717W), Deepak Suyal, Inf

(b) The date of seniority in respect abovementioned officers will be as follows:—

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| (i) Date for increments of Pay | - 17 Sep 2005 |
| (ii) Date for promotion | - 17 Apr 2006 |

(c) The inter-se-seniority of the abovementioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 5 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

VS RANADE
 Col
 Col MS-7

ARMY BRANCH

No. 675, dated 4th November 2010—the President is pleased to make the following appointments under AI 15/79 as amended :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Captain (On Probation)

Yogender Kumar (DS-12343H), 20 Jan 2009

with seniority for pay and promotion from 20 Jul 2008 (includes 06 months ante date for paid job of lecturer in Eklavya Dental College & Hospital Jaipur for the period from 19 Mar 2007 to 31 Dec 2008, which will not count for gratuity)

Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India dated 04 Jul 2009 in so far as it pertains to the officer is hereby cancelled

Madhu Singh (DS-12339A), 19 Jan 2009

with seniority for pay and promotion from 19 Jul 2008 (includes 06 months ante date for paid job of lecturer in

Chandra Dental College & Hospital Safedabad, Barabanki, UP for the period from 01 Feb 2008 to 30 Nov 2008, which will not count for gratuity)

Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India dated 04 Jul 2009 in so far as it pertains to the officer is hereby cancelled

Capt Sunil Kumar (DS-12322M), 05 Jan 2009

with seniority for pay and promotion from 05 Jul 2008 (includes 06 months ante date for paid job of an appointment as a Demonstrator in Deptt of Conservative Dentistry & Endodontics in MNDV Dental College & Hospital, Solan for the period from 01 Apr 2008 to 31 Dec 2008, which will not count for gratuity)

Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India dated 04 Jul 2009 in so far as it pertains to the officer is hereby cancelled

MAHESH CHANDER
Maj Gen
Addl DGDS

ARMY BRANCH

No. 676, dated 04th November 2010—The President is pleased to make the following appointments:—

TERRITORIAL ARMY TERRITORIAL COMMISSION

Ex Maj Bijay Kumar Sahu now TA-42733 Lieutenant BK Sahu has been granted Commission as an officer in the Territorial Army (Infantry) on 28 Feb 2009 in the rank of Lieutenant under the provision given in Appendix VIII of TA Act Rule 1948. He is also granted Ten years, Two months and 27 Days service (05 Oct 98 to 01 Jan 2009) ante date seniority with effect from 01 Dec 98 in the rank of Lieutenant for his former service in the Regular Army. By virtue of his ante date seniority, he is promoted as Captain with effect from 01 Dec 2004 and Maj with effect from 01 Dec 2006 under the provisions of Para 25(a) & 38(a) of TA Act, 1948 (Revised Edition 1976) as amended vide Government of India, Ministry of Defence letter No. 18(1)2006/D(GS-1) dated 18 Apr 06 consequent to recommendation of AVSC Committee report for increments of pay and promotion purpose

JAI RAJ
Under Secy

No. 677, dated 4th November 2010—The President is pleased to extend the tenure of Shri Sanjay Prasad, IAS (GJ : 86), counsellor (Coord), Embassy of India, Moscow for a period of six months wef 29 Dec 2010 to 28 Jun 2011 or until further orders, whichever is earlier

K MURALI
Under Secy

No. 678, dated 08 November 2010—Consequent on being approved for appointment as Secretary, Department of Information Technology, the services of Shri Shashi Kant Sharma, IAS (BH : 76), DG(Acquisition), Ministry of Defence, are placed at the disposal of the Department of Information Technology wef 24 Sep 2010(FN)

K MURALI
Under Secy

No. 679, dated 08th November 2010—Consequent on premature repatriation to her parent cadre to avail the benefit of promotion, the services of Smt. M V Bhanumathi, IRS (IT : 87), Director, Ministry of Defence, are placed at the disposal of the Department of Revenue (CBDT) wef 12 Oct 2010 (AN)

S K RASTOGI
Under Secy

AIR BRANCH

No. 680, dated 09th November 2010—The President is pleased to confirm the undermentioned officer, who is granted Permanent Commission and Wings (on Probation), wef from the date stated against the name:—

INDIAN AIR FORCE Fg (Pilot) Branch

Fg Offr Hemang Dave (29678), wef 16 Dec 2007

VM MARDIKAR
Wg Cdr
JDPO-3(D)

ARMY BRANCH

No. 681, dated 09th November 2010—the President is pleased to make the following promotion:—

REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION

Lt Cols to be Subs Col (By Time Scale)

IC No. Rank, Name, Arm and Date of Subs Rank
(IC-41186K) Lt Col SS Manhas, AC, 18 Jun 2009
(IC-41712X) Lt Col SH Shukla, Inf, 17 Dec 2009
(IC-45128X) Lt Col Y Gurung, Inf, 10 Nov 2009
(IC-45178H) Lt Col AK Mishra, Inf, 25 Apr 2010
(IC-45195H) Lt Col AK Bharti, AOC, 25 Apr 2010
(IC-45215L) Lt Col RK Bhandari, Inf, 25 Apr 2010
(IC-45243X) Lt Col YS Pathania, Arty, 25 Apr 2010
(IC-45245H) Lt Col Prakash Dharan, Inf, 25 Apr 2010

- (IC-45270F) Lt Col GS Rathore, AC, 25 Apr 2010
 (IC-45269M) Lt Col NS Shekhawat, Inf, 25 Apr 2010
 (IC-35455P) Lt Col AK Singh, Engrs, 16 Dec 2004
 (IC-41684W) Lt Col Mahendra, Inf, 17 Dec 2009
 (IC-41852K) Lt Col SK Rai, AAD, 09 Jun 2010
 (IC-41902K) Lt Col Rajiv Bhardwaj, Engrs, 09 Jun 2010
 (IC-41918P) Lt Col Ravi K, Arty, 09 Jun 2010
 (IC-41936X) Lt Col Kuldeep Singh, Inf, 09 Jun 2010
 (IC-41942L) Lt Col Abraham MV, Arty, 09 Jun 2010
 (IC-41944W) Lt Col SC Katoch, AOC, 09 Jun 2010
 (IC-41946F) Lt Col Sadanand Singh, Inf, 09 Jun 2010
 (IC-41968A) Lt Col DS Mor, Arty, 09 Jun 2010
 (IC-41980F) Lt Col KN Radhakrishnan, Engrs, 09 Jun 2010
 (IC-41984X) Lt Col SC Tripathi, Inf, 09 Jun 2010
 (IC-41990L) Lt Col AS Rajawat, AC, 09 Jun 2010
 (IC-41993Y) Lt Col RM Sharma, AAD, 09 Jun 2010
 (IC-41996M) Lt Col AK Yadav, ASC, 09 Jun 2010
 (IC-42005A) Lt Col NS Shekhawat, ASC, 09 Jun 2010
 (IC-42007L) Lt Col Rajesh Kakkar, EME, 09 Jun 2010
 (IC-42009W) Lt Col Rampal Singh, Inf, 09 Jun 2010
 (IC-42034P) Lt Col RK Dogra, Inf, 09 Jun 2010
 (IC-42049X) Lt Col MI Akhtar, Arty, 09 Jun 2010
 (IC-42053A) Lt Col VK Kapoor, Inf, 09 Jun 2010
 (IC-42087N) Lt Col KNV Achary, AAD, 09 Jun 2010
 (IC-42090N) Lt Col A Pathak, Inf, 09 Jun 2010
 (IC-42001X) Lt Col PH Vardhan, Mech Inf, 09 Jun 2010
 (IC-42108Y) Lt Col C Sharma, Inf, 09 Jun 2010
 (IC-42113K) Lt Col Surendra Sharma, Engrs, 09 Jun 2010
 (IC-42126F) Lt Col DK Sasan, Arty, 09 Jun 2010
 (IC-42127K) Lt Col Shafat Khan, EME, 09 Jun 2010
 (IC-42139Y) Lt Col RS Verma, EME, 09 Jun 2010
 (IC-42141W) Lt Col S Bavu, Arty, 09 Jun 2010
 (IC-42146P) Lt Col PP Barakoti, Guards, 09 Jun 2010
 (IC-42167L) Lt Col Shamsul Hudha, Guards, 09 Jun 2010
 (IC-42172W) Lt Col DS Shishodia, Inf, 09 Jun 2010
 (IC-42176M) Lt Col SS Gill, Inf, 09 Jun 2010
 (IC-42181X) Lt Col S Shivdas, AC, 09 Jun 2010
 (IC-42196A) Lt Col Yashvir Singh, Guards, 09 Jun 2010
 (IC-42201A) Lt Col M Selvamani, Engrs, 09 Jun 2010
 (IC-42207F) Lt Col S Dutt, AC, 09 Jun 2010
 (IC-42214X) Lt Col PS Rathore, ASC, 09 Jun 2010
 (IC-42222W) Lt Col DC Rai, Arty, 09 Jun 2010
 (IC-42224F) Lt Col AKS Chauhan, ASC, 09 Jun 2010
 (IC-42228X) Lt Col Sanjay Sharma, Inf, 09 Jun 2010
 (IC-42230P) Lt Col Parmjot Singh, Engrs, 09 Jun 2010
 (IC-42231X) Lt Col AK Rai, ASC, 09 Jun 2010
 (IC-42232A) Lt Col Bipin Pathak, Int, 09 Jun 2010
 (IC-42233H) Lt Col DS Kadyan, Inf, 09 Jun 2010
 (IC-42248L) Lt Col DS Bisht, AEC, 09 Jun 2010
 (IC-42249N) Lt Col PK Singh, AEC, 09 Jun 2010
 (IC-43646Y) Lt Col IC Joshi, Engrs, 18 Dec 2009
 (IC-44010K) Lt Col CD Sinha, EME, 14 Jun 2010
 (IC-44017N) Lt Col KG Bava, Engrs, 14 Jun 2010
 (IC-44024K) Lt Col Nagendra Singh, Engrs, 14 Jun 2010
 (IC-44031A) Lt Col Abraham George, Engrs, 14 Jun 2010
 (IC-44033L) Lt Col K Asokan, Signals, 14 Jun 2010
 (IC-45118N) Lt Col Satinder Singh, Engrs, 10 Nov 2009
 (IC-45217W) Lt Col Rupinder Singh, Guards, 25 Apr 2010
 (IC-45227A) Lt Col Charanjit Singh, Arty, 25 Apr 2010
 (IC-45251W) Lt Col Uma Kant Gupta, Engrs, 25 Apr 2010
 (IC-45277L) Lt Col KK Verma, Inf, 25 Apr 2010
 Lt Col to be Subs Col (By Selection)
 (IC-50375) AK Gautam, Garh Rif, 01 May 2009
 (IC-50550) R Gajraj, Para, 01 May 2009
 (IC-50567) RV Kanojia, Madras, 01 May 2009
 (IC-50838) NS Dhaliwal, Para, 01 May 2009
 (IC-46919) AJ Mohan, Maratha LI, 01 May 2009
 (IC-46931) AU Syed, Assam, 01 May 2009
 (IC-46957) Ashish, Maratha LI, 01 May 2009
 (IC-51122) NJ Singh, Jak LI, 01 May 2009
 (IC-51123) N Dahiya, Kumaon, 01 May 2009
 (IC-51124) SSH Rizvi, Kumaon, 01 May 2009
 (IC-51128) V Singh, Arty, 01 May 2009
 (IC-51131) M Pande, Mahar, 01 May 2009
 (IC-51132) P Awasthi, Punjab, 01 May 2009
 (IC-51135) AK Pundir, Jak Rif, 01 May 2009
 (IC-51137) V Gera, Arty, 01 May 2009
 (IC-51139) Vijay Kala, Sikh LI, 01 May 2009
 (IC-51140) D Kumar, Dogra, 01 May 2009
 (IC-51144) R Gupta, Arty, 01 May 2009
 (IC-51149) V Malhotra, Bihar, 01 May 2009
 (IC-51150) AA Sathe, Arty, 01 May 2009

- (IC-51157) Ravinder Singh, Rajput, 01 May 2009
(IC-51160) SK Sheoran, Sikh, 04 May 2009 but sen wef
01 May 2009 without effect on pay & pension
(IC-51161) K Loganathan, Madras, 01 May 2009
(IC-51163) A Mishra, Arty, 01 May 2009
(IC-51168) Santosh V, 8 Gr, 01 May 2009
(IC-51174) DP Singh, Arty, 01 May 2009
(IC-51178) PY John, Arty, 01 May 2009
(IC-51183) S Dwivedi, Mahar, 01 May 2009
(IC-51186) MS Sabarwal, Punjab, 01 May 2009
(IC-51193) MDS Duggal, Arty, 01 May 2009
(IC-51198) BC Fernandez, Dogra, 01 May 2009
(IC-51199) Basant Singh, Rajput, 01 May 2009
(IC-51211) VS Deshpande, 9 Gr, 11 May 2009 but sen wef
01 May 2009 without effect on pay & pension
(IC-51213) SS Kulkarni, Sikh, 01 May 2009
(IC-51216) TVP Kumar, Garh Rif, 01 May 2009
(IC-51219) AK Nair, Arty, 01 May 2009
(IC-51223) Ranjan Gupta, Arty, 01 May 2009
(IC-51227) NC Bansal, Arty, 01 May 2009
(IC-51229) KS Kalsi, Jak Rif, 01 May 2009
(IC-51233) S Srivastava, Naga, 01 May 2009
(IC-51236) Gurbir Singh, Arty, 01 May 2009
(IC-51244) N Bisht, 9 Gr, 01 May 2009
(IC-51246) Rahul Sharma, Arty, 01 May 2009
(IC-51252) AK Singh, Rajput, 01 May 2009
(IC-51261) SS Kartikeya, Jak Rif, 01 May 2009
(IC-51267) A Kumar, Raj Rif, 01 May 2009
(IC-51272) S Chauhan, Dogra, 01 May 2009
(IC-51276) HS Kaila, Sikh, 01 May 2009
(IC-51277) Z Bhatnagar, Maratha LI, 01 May 2009
(IC-51280) M Mishra, Jak LI, 01 May 2009
(IC-51281) R Sharma, Grenadiers, 01 May 2009
(IC-51297) AK Sharma, Arty, 01 May 2009
(IC-51299) Somnath Gupta, Arty, 01 May 2009
(IC-51302) A Tahlan, Punjab, 01 May 2009
(IC-51309) S Bhardwaj, Arty, 01 May 2009
(IC-51314) NS Kalsey, Arty, 01 May 2009
(IC-51315) SB Rana, Sikh LI, 01 May 2009
(IC-51334) R Sengupta, Arty, 01 May 2009
(IC-51338) D Yadav, Arty, 01 May 2009
(IC-51269) Parminder Singh, Arty, 01 May 2009
(IC-51271) M Gupta, Bihar, 01 May 2009
(IC-51292) S Gupta, Jat, 01 May 2009
(IC-51328) Vivek Kochhar, 3 Gr, 01 May 2009
(IC-54627) NR Jakhar, Grenadiers, 01 May 2009
(IC-54647) MR Menon, Madras, 01 May 2009
(IC-54654) BS Kashid, Grenadiers, 01 May 2009
(IC-54658) RB Choudhary, Sikh LI, 01 May 2009
(IC-54686) RJ Singh, Arty, 01 May 2009
(IC-54660) V Jayan, Garh Rif, 01 May 2009
(IC-51474) S Sheoran, Para, 01 May 2009
(IC-51476) PS Chhonkar, Guards 01 May 2009
(IC-51481) SS Bisht, Jat, 01 May 2009
(IC-51491) Lawinder Singh, Bihar, 01 May 2009
(IC-51494) D Pathania, Rajput, 01 May 2009
(IC-51507) Rajbir Singh, Arty, 01 May 2009
(IC-51516) GS Bajwa, Arty, 01 May 2009
(IC-51518) CS Agrawal, Sikh LI, 01 May 2009
(IC-51520) HB, GramopadhyeMaratha LI, 01 May 2009
(IC-51521) AK Srivastava, Sikh, 01 May 2009
(IC-51533) RS Thapa, Kumaon, 01 May 2009
(IC-51536) SK Bhambhu, Kumaon, 01 May 2009
(IC-51541) KS Grewal, Sikh LI, 01 May 2009
(IC-51549) Sandeep Jaswal, Rajput, 01 May 2009
(IC-51568) RS Kamboj, Jak Rif, 01 May 2009
(IC-51589) Bharat Mehtani, Arty, 01 May 2009
(IC-51590) R Kumar, 4 Gr, 01 May 2009
(IC-51602) Manish Kumar, Jak Rif, 01 May 2009
(IC-51603) PPS Dhaliwal, Arty, 01 May 2009
(IC-51623) IM Abdi, Arty, 01 May 2009
(IC-51632) Deepak Kapoor, Mahar, 01 May 2009
(IC-51638) R Manocha, Arty, 01 May 2009
(IC-51656) SK Narayan, Arty, 01 May 2009
(IC-51665) Brijesh Singh, Mahar, 01 May 2009
(IC-51668) PS Janghu, Jat, 01 May 2009
(IC-51679) Saurabh Sharma, Arty, 01 May 2009
(IC-51690) Sanjeev Pant, Dogra, 01 May 2009
(IC-51705) JS Sidhu, Arty, 01 May 2009
(IC-51706) S Vinod, Maratha, LI, 01 May 2009
(IC-51707) VN Kulkarni, Maratha LI, 01 May 2009
(IC-51708) DS Shekhawat, Arty, 01 May 2009

(IC-51709) MS Kalra, Bihar, 01 May 2009
 (IC-51718) A Jaithalia, Arty, 01 May 2009
 (IC-51796) RS Sheoran, Jak LI, 01 May 2009
 (IC-51835) SS Kashikar, Mahar, 01 May 2009
 (IC-51837) SM Raj, Arty, 01 May 2009
 (IC-51844) Arpit Thapa, Garh Rif, 01 May 2009
 (IC-51847) CM Peter, Sikh LI, 01 May 2009
 (IC-51853) KTG Krishnan, Mahar, 01 May 2009
 (IC-51867) Sanjay Sharma, Grenadiers, 01 May 2009
 (IC-51501) TYS Bedi, Para, 01 May 2009
 (IC-51530) S Mohanty, 8 Gr, 01 May 2009
 (IC-51564) KS Dhadwal, Sikh, 01 May 2009
 (IC-51797) HS Sandhu, Rajput, 01 May 2009
 (IC-51616) DS Suresh, Arty, 01 May 2009
 (IC-51655) Neeraj Sood, Raj Rif, 01 May 2009
 (IC-51801) Surendra Singh, Jat, 01 May 2009
 (IC-51821) A Kothiyal, Garh Rif, 01 May 2009
 (IC-51868) Sanjay Batra, Arty, 01 May 2009

Maj to be Subs Lt Col (Time Scale)

(IC-31401W) Maj PG Deval, Mech Inf, 21 Dec 1996

(SL-03173H) Maj RP Barthwal, SL(AO), 20 Jul 2004

TK DAS,
Dy Dir MS-8A

ARMY BRANCH

No. 682, dated 09th November 2010—The President is pleased to make the following promotion under AI 37/78 as amended:—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

PERMANENT COMMISSION

Maj to be Lt Col (& equivalent)

Bensy Varghese (DR-10547W), 28 Feb 2010

Binu Johnson George (DR-10548Y), 27 Mar 2010

Ms Neeru Kanwar (DR-10566F), 28 Mar 2010

MAHESH CHANDER
Maj Gen
Addl DGDS

undermentioned AMC Officers with effect from the date mentioned against their names :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj to be Lt Col

K Ramachandra Rao (MR-06920N), AMC, 04 Jul 2008

Dronacharya Routh (MR-07926F), AMC, 01 Apr 2010

Monalisa Roy (MR-08013M), AMC, 13 Apr 2010

Sumit Kumar De (MR-08200L), AMC, 14 Apr 2010

Pankaj Dubey (MR-07163W), AMC, 25 Apr 2010

Umesh Kumar (MR-07961K), AMC, 26 Apr 2010

V Shankar Raman (MR-07101W), AMC, 20 Jan 2010

Manju Dusad (MR-07685M), AMC, 12 Feb 2010

Awadesh Kumar Singh (MR-07778M), AMC, 01 Mar 2010

Manish Kumar (MR-08438L), AMC, 19 Jun 2010

Manish Paul (MR-07167M), AMC, 29 Jun 2010

Kunjan Pathania (MR-07168P), AMC, 29 Jun 2010

Vivek Aggarwal (MR-07169X), AMC, 29 Jun 2010

Archana Walia (MR-07170M), AMC, 29 Jun 2010

Vikas Agarwal (MR-07178Y), AMC, 29 Jun 2010

GRV Reddy (MR-07180W), AMC, 29 Jun 2010

Ashwani Upadhyay (MR-07182F), AMC, 29 Jun 2010

Madhav Madhusudan Singh (MR-07185P), AMC, 01 Jul 2010

Capt to be Maj

Thoke Santosh Vyankatesh (MR-08775A), AMC, 22 Mar 2010

Chetan Pangotra (MR-08926N), AMC, 22 Mar 2010

Owais Mahmood Siddiqui (MR-08761A), AMC, 16 Dec 2009

Amit Kumar Paliwal (MR-08139M), AMC, 27 Dec 2009

Sqn Ldr to be Wg Cdr

Renu Rajguru (MR-07976M)(27656), AMC, 10 Nov 2008

Surg Lt Cdr to be Surg Cdr

Dev Kamal Kagti (MS-13743F)(MR-07840H)(75706), AMC, 15 Apr 2010

Parinita Dube (MS-13357P)(MR-08483X)(75647Z), AMC, 14 May 2008

YASH PANDE
Brig
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 683, dated 10th November 2010—The President is pleased to make the following promotion of the

No. 684, Dated 10th November 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Maj

IC No., Name & Arm

(IC-63762) Yuvaraj Nathu Gaikwad, AC
 (IC-63763) P Lokchandar, Inf
 (IC-63764) Arvind Kumar Khichar, ASC
 (IC-63765) Shailender Singh, AD
 (IC-63766) Varun Sing Jamwal, AC
 (IC-63767) Tejinder Singh, Engrs
 (IC-63768) Deepak Bohra, Arty
 (IC-63769) Jaswant Singh, Inf
 (IC-63770) Raja Wangdi Sherpa, Inf
 (IC-63771) Maneesh Misra, Inf
 (IC-63772) Jasbir Singh, AOC
 (IC-63774) Prabhjot Singh Sekhon, Sigs
 (IC-63775) Surender Singh Dhillon, Inf
 (IC-63776) Balram Singh Bisht, EME
 (IC-63777) Abhishek Kumar, Inf
 (IC-63778) Kamaldeep Panwar, Inf
 (IC-63779) Preet Mohan Singh, Inf
 (IC-63780) Punyabachi Mohanty, Inf
 (IC-63781) Kulvir Singh Gill, Inf
 (IC-63782) Kamal Chauhan, ASC
 (IC-63783) Raghuvendra Singh, Inf
 (IC-63784) Akshay Dogra, Inf
 (IC-63785) Gaurav Soni, Arty
 (IC-63786) Pallav Sud, Engrs
 (IC-63787) Nitin Shivajirao Bhikane, Arty
 (IC-63788) Divy Pal Singh Rathor, Mech
 (IC-63789) Dushyant Hanamant Sonawane, Inf
 (IC-63790) Himkar Vaid, Arty
 (IC-63791) Saurabh Chande, Arty
 (IC-63792) Amrinder Singh Badwal, AD
 (IC-63793) Naveen Kumar Kalalia, Inf
 (IC-63794) C Sarvanan, Sigs
 (IC-63795) Ghag Sujay Shivaji, Inf
 (IC-63796) Gaurav Sharma, Inf
 (IC-63797) Amit Sharma, Arty
 (IC-63799) Himanshu Bali, AOC
 (IC-63800) Nikhil Sharma, Inf
 (IC-63801) Rajendra Kumar, Inf
 (IC-63802) Shakti Singh, AC

(IC-63803) Piyush Mishra, Arty
 (IC-63804) Sanjeet Singh Kadyan, Mech
 (IC-63805) Yazad Ilavia, Inf
 (IC-63806) Irfan Ahmed Khan, Inf
 (IC-63807) Okendra Singh, Inf
 (IC-63808) Anand Prakash C, EME
 (IC-63809) Tushar Dhasmana, Inf
 (IC-63810) Mohinder Pal Singh, Inf
 (IC-63811) Dara Singh Chahal, Inf
 (IC-63812) Akshay A Chaturvedi, AC
 (IC-63813) Kandukuri Vishwanadham, Arty
 (IC-63814) Deepak Kumar Shukla, Inf
 (IC-63815) Arjun Singh Bohra, Inf
 (IC-63816) Sachin Abhimanyu Patil, Arty
 (IC-63817) C Srinivas, Inf
 (IC-63818) Vighnesh Belliappa, Inf
 (IC-63819) Uday Chhatrapati Borude, Inf
 (IC-63820) Dhruv Yadav, AC
 (IC-63821) Ajeet Singh Bhadoria, Inf
 (IC-63822) Shailendra Pratap Singh, Engrs
 (IC-63823) Sanjeev Lathar, Inf
 (IC-63824) Manish Ramesh Lanjekar, Inf
 (IC-63825) Anshul Sharma, Arty
 (IC-63826) Surjit Samal, AD
 (IC-63827) Manish Dagar, ASC
 (IC-63828) Nitin Khanna, Sigs
 (IC-63829) Arvind Vannur, Arty
 (IC-63830) Jasbinder Beer Singh Judge, AC
 (IC-63831) Diwan Singh, Engrs
 (IC-63832) Sudeesh Joseph Vaughese, Arty
 (IC-63833) Abhinav Jha, Sigs
 (IC-63834) Abhishek Goswami, Inf
 (IC-63835) Hemant Kumar, Inf
 (IC-63836) Manoj Kumar Yadav, AD
 (IC-63837) Amit Kumar Das, Arty
 (IC-63838) Anuj Tyagi, Inf
 (IC-63839) Dharendra Pratap Singh Rawat, Inf
 (IC-63840) Umesh Giri, Sigs
 (IC-63841) Devendra R Poonia, AC
 (IC-63842) Sandeep Srivastava, Arty
 (IC-63843) Gargote Suryakant Ramchandra, Inf
 (IC-63844) Hem Chandra Singh, Inf
 (IC-63845) Harshvardhan Singh, Inf

(IC-63846) Saumitra S Mishra, Inf	(IC-63891) Ashutosh Shukla, AD
(IC-63847) P Srinivas, Inf	(IC-63892) Tushar Prataprao Jadhav, Arty
(IC-63848) Sukhjot Singh Sandhu, Sigs	(IC-63893) Upendra Kumar Dwivedi, ASC
(IC-63849) Jamwant Singh, Inf	(IC-63894) Jitendra Bhiroria, Arty
(IC-63850) Karan Sagar, Inf	(IC-63895) Bejjanki Mithun Kumar, Inf
(IC-63851) Arjun Shivaji Thorat, Mech	(IC-63896) Kavish Bhatli, Inf
(IC-63852) Shiv Kumar Singh, Inf	(IC-63897) Salgar Raghvendra Prithviraj, Mech
(IC-63853) Vikas Dhuria, Inf	(IC-63898) Jagpreet Singh Midha, Inf
(IC-63854) Rajneesh Bhardwaj, Arty	(IC-63899) Gurinder Singh Bajwa, Engrs
(IC-63855) Elis Ganesh Kumar Ravindra, Arty	(IC-63900) Vivek Kumar, Inf
(IC-63857) K V Mahendra, Inf	(IC-63901) Amit Sharma, ASC
(IC-63858) Anand S Patil, Inf	(IC-63902) Tarun Gaurav, Arty
(IC-63859) Gaurav Garg, Inf	(IC-63903) Varun Singh Malhan, ASC
(IC-63860) Abhayraj Pandurang Galande, Inf	(IC-63905) Raja Sumeet Sihag, AOC
(IC-63861) Varun Vijay Gidh, Inf	(IC-63906) Monark Sadh, AOC
(IC-63862) Vivek Pathak, Arty	(IC-63907) Prashant Yadav, AOC
(IC-63863) Simran Pal Singh, AC	(IC-63908) Vinay Kumar, Inf
(IC-63864) Ram Singh, ASC	(IC-63909) Ankush Gupta, Arty
(IC-63865) Chingangbam Pranab Singh, Inf	(IC-63910) Manish Dahiya, Inf
(IC-63866) Sushil Rana, Inf	(IC-63911) Manish Pandey, Inf
(IC-63867) Vashudev Nehra, Inf	(IC-63912) S Jagadeesan, AOC
(IC-63869) Thomas Jacob, Inf	(IC-63913) Raj Kumar Yadav, Arty
(IC-63870) Nitin Mudgal, Inf	(IC-63914) Kumar Vaibhav, Arty
(IC-63871) Sharath Ravindran, Engrs	(IC-63915) Rosen Kumar Pradhan, Inf
(IC-63872) Mayank Sharma, Inf	(IC-63916) Kanwar Rohit, Inf
(IC-63873) Manoj Kumar Nair, Arty	(IC-63917) Amit Kumar, Arty
(IC-63874) Jatin Guleri, Inf	(IC-63918) Nitin Khanna, Arty
(IC-63875) Abhishek Chaudhary, Inf	(IC-63919) Gaurav Anand, Inf
(IC-63876) Nawazesh N Patel, Inf	(IC-63920) Dipankar Dey, Inf
(IC-63877) Somendra Kumar, Inf	(IC-63921) Sumit Sharma, ASC
(IC-63878) Amit Poonia, Inf	(IC-63922) Ankur Gupta, ASC
(IC-63879) Arun Kumar Thakur, Inf	(IC-63923) Rajendra Prasad, Inf
(IC-63880) Surinder, AD	(IC-63924) Rahul, Mech
(IC-63881) Neelanjan Banerjee, Inf	(IC-63925) Bimal Mishra, Inf
(IC-63882) Ashok Kumar, AOC	(IC-63926) Ashutosh Kumar, Inf
(IC-63883) Vishal Rana, Arty	(IC-63928) Kunal Ramesh Lonari, AC
(IC-63884) Vishal Chauhan, AC	(IC-63929) M Pradeep Kumar, ASC
(IC-63885) Yuvraj Krishnarao Patil, Inf	(IC-63930) Vineet Singh, Inf
(IC-63886) Iqbal Singh, Inf	(IC-63931) Abhishek Yadav, Inf
(IC-63887) Hanuman Ram, Inf	(IC-63932) Amitendra Kumar Singh, Arty
(IC-63888) Peter Seikhohal Touthang, Inf	(IC-63933) K Sathish Prabhu, AD
(IC-63889) Kunal Malhotra, AC	(IC-63934) Vijay Ramchandra Jadhav, Inf
(IC-63890) Amandeep Singh Toor, AOC	(IC-63935) Naresh Kumar Chauhan, Inf

- (IC-63936) Abhishek Sharma, AC
(IC-63937) Hemant Kandpal, Inf
(IC-63938) Ganesh Shankar Vidyarthi, Int
(IC-63939) Vinod Kumar, ASC
(IC-63940) Divesh Singh Spehia, Arty
(IC-63941) Sanjeev Kumar Singh, Inf
(IC-63942) Manish Singh Chauhan, Inf
(IC-63943) Deepak Kumar, Inf
(IC-63944) Vikas Lochab, Arty
(IC-63945) Shikhar Shukla, AOC
(IC-63946) Anshul Gaur, Inf
(IC-63947) Shamsher Singh Deval, AC
(IC-63948) Satyam Singh, Arty
(IC-63949) Rajesh Kumar Srivastava, Inf
(IC-63950) MJ Sajeew Kumar, Inf
(IC-63951) Sudeep Singh Sangwan, Inf
(IC-63952) N Niranjana Singh, Inf
(IC-63953) Jadhav Sandeep Ashok, Inf
(IC-63954) Rishabh Paliwal, AOC
(IC-63955) Rajesh Joshi, Inf
(IC-63956) Malaykant Madhavant, Inf
(IC-63957) Anil Kumar, Inf
(IC-63958) Sandeep Bhardwaj, AD
(IC-63959) Sandeep Singh Gandhok, Inf
(IC-63960) Subhraprati Bose, Inf
(IC-63961) Nilesh Shashikant Bhosale, EME
(IC-63962) Patil Shree Vikas, Int
(IC-63963) Ashutosh Srivastava, Inf
(IC-63964) Bhanwar Rakesh Shekhawat, Mech
(IC-63965) Sidharth Yadav, Inf
(IC-63966) Sandeep Dhankar, Inf
(IC-63967) Sanjay Kumar Bajiya, Inf
(IC-63968) Kamlesh Kumar, Arty
(IC-63969) J Narayanan, Inf
(IC-63970) Amit KR Jha, Arty
(IC-63971) Gautam Arora, Inf
(IC-63972) Pankaj Kumar, Inf
(IC-63973) Chorage Hitesh Hanumant, ASC
(IC-63974) Anit Gautam, Arty
(IC-63975) Kuldeep Singh, AD
(IC-63976) Ashutosh Chauhan, AOC
(IC-63977) Avinash Singh, Inf
(IC-63978) Anand Subba Mordecai, Engrs
(IC-63979) Sanjeev Kumar, Arty
(IC-63980) Sandeep Salvador Peter D, Souza, Inf
(IC-63981) Kuldeep Ashokrao Karape, Inf
(IC-63982) Praveen Hosmane, Inf
(IC-63983) Bikas Mukhia, AOC
(IC-63984) Ankur Singh, Inf
(IC-63985) Chirag Kapoor, AC
(IC-63986) Amit Parolekar, Inf
(IC-63989) Kunal Jai, Inf
(IC-63990) Kapil Rikhi, Inf
(IC-63991) Siddharth Pathak, Arty
(IC-63992) Roopesh, AD
(IC-63993) Abhinav Chawla, Engrs
(IC-63994) Yogindra Roy Siddhi, Inf
(IC-63995) Ajitab Chand Thakuri, Inf
(IC-63996) Kush Kashyap, Inf
(IC-63997) Kaushalendra Singh, Inf
(IC-63998) Gaurav Srivastava, Arty
(IC-63999) Pankaj Kumar, Arty
(IC-64001) Rajkumar Samananda Singh, Inf
(IC-64002) Abhishek Kumar, Inf
(IC-64003) Gagandeep Singh Sasan, Inf
(IC-64004) Ashem Khoirentompok Meitei, Inf
(IC-64006) Navneet Garg, Inf
(IC-64007) Vikas Yadav, EME
(IC-64008) Amish Rastogi, AC
(IC-64009) Taman Parmar, ASC
(IC-64010) Olety Lakshmi Veera Naresh, Inf
(IC-64011) R Vijay Anand, Mech
(IC-64012) Birender Pal Singh, ASC
(IC-64013) Karamjeet Singh Yadav, Arty
(IC-64014) Bikramjeet Singh Najotra, Arty
(IC-64015) Rahul Mittal, Inf
(IC-64016) Abhishek Nair, Arty
(IC-64017) Tejab B Candade, Inf
(IC-64018) Animesh Mittal, Inf
(IC-64019) Amit Sharma, Inf
(IC-64020) Manish Negi, Inf
(IC-64021) Anish Vasudevan, Inf
(IC-64022) Uppan Jeet Singh, Sigs
(IC-64023) Sunil Atri, Inf
(IC-64024) Kuber Singh Karki, Inf
(IC-64025) Ranjeet Singh Yadav, Inf

(IC-64026) Vinod Kumar MV, AOC	(IC-64076) Vipul Kumar, Mech
(IC-64027) Chaudhary Jaskar Singh, Arty	(IC-64077) Shobhit Srivastava, Inf
(IC-64029) Uday Pratap Chaurasia, Int	(IC-64078) Rahul Ranjan Bharti, Inf
(IC-64030) Anant Rastogi, AD	(IC-64079) Manish Pant, Inf
(IC-64031) Dhiraj Kumar, ASC	(IC-64080) B Johnson, AOC
(IC-64033) Kumar Saurabh, AOC	(IC-64081) Satheesh Kumar V, Inf
(IC-64034) Rajat, Arty	(IC-64082) Nopender Rana, ASC
(IC-64035) Ankit Kanjolia, Mech	(IC-64083) Vishek Walia, Arty
(IC-64036) Jiwan Preet Singh, Inf	(IC-64084) Puneet Baukhandi, Inf
(IC-64037) PS Mani Kandan, ASC	(IC-64085) Mridul Khandelwal, Arty
(IC-64038) Surender Singh Negi, Arty	(IC-64087) Sarvesh Sharma, Arty
(IC-64039) Praveen Kumar Sharma, AOC	(IC-64088) Paurush Pradhan, Inf
(IC-64040) Ashish Devliyal, Inf	(IC-64089) Shoumik Sengupta, Inf
(IC-64041) Sanjeev Kumar Grover, Inf	(IC-64090) Atul Sinha, AD
(IC-64042) Sushri Chandan Ray, Inf	(IC-64091) Ashutosh Thapliyal, Inf
(IC-64043) Rajeev Kumar Jha, Inf	(IC-64092) Hopender Thakur, Inf
(IC-64044) Akhil Dhawan, Inf	(IC-64093) Rahul Vaijanath Mane, ASC
(IC-64045) Animesh Tamang, Inf	(IC-64094) Kulkarni Ranjeet Dileep, Inf
(IC-64046) Surender Singh, Inf	(IC-64095) Manmohan Singh Saini, Inf
(IC-64047) Khamlianmang Samte, AOC	(IC-64096) Jonathan Deepak Samuel, Inf
(IC-64048) Puneet Dilawari, Arty	(IC-64097) Ravi Kumar Tyagi, Arty
(IC-64049) Digvijay Bhardwaj, EME	(IC-64099) Manoj Kumar Yadav, Arty
(IC-64050) Koroulemba Okram Cha, Inf	(IC-64100) Aakash Thakur, Inf
(IC-64051) Neeraj Kumar Singh, Int	(IC-64101) Mukesh Dogra, Inf
(IC-64052) Harshvardhan, AD	(IC-64102) Mrinal Kumar Shekhar, Inf
(IC-64053) Prateek Thakur, Inf	(IC-64103) Prakash Kumar Roy, ASC
(IC-64054) Prabhakar Yadav, ASC	(IC-64104) Kamal Bora, Arty
(IC-64056) Nagendra Singh, Inf	(IC-64105) Mishra Anupam Kumar, Inf
(IC-64058) Ajay Pal Singh, Inf	(IC-64106) M David Achow Singh, Inf
(IC-64059) Animesh Dubey, Inf	(IC-64107) Ravinder Singh, Inf
(IC-64060) Ashok Bhandari, Inf	(IC-64109) Upinder Pal Singh, AC
(IC-64061) Ajay Sangwan, Arty	(IC-64109) Vikas Yadav, Inf
(IC-64062) Pradeep Singh Negi, Arty	(IC-64110) Pawan Brahma, ASC
(IC-64063) Sandeep Dhankar, Mech	(IC-64111) Sarvesh Kumar Sharma, Arty
(IC-64064) Saurav Singh, Inf	(IC-64112) Gijo J Ozhakkal, Inf
(IC-64065) Sreekumar MG, ASC	(IC-64113) Momin Aatif Irfan, Arty
(IC-64066) Atul Rawat, Inf	(IC-64114) Gaurav Pathania, Inf
(IC-64067) Amit Arvind Malkar, Inf	(IC-64115) Sujit Kumar Krishnan, Inf
(IC-64070) Ajay Kaith, Inf	(IC-64116) S Suresh, ASC
(IC-64071) Bhupender Solanki, AOC	(IC-64117) Niel Upamanyu, Arty
(IC-64073) Sarveshwar Singh, Inf	(IC-64118) Rajeev Bhandari, Inf
(IC-64074) Shishir Juneja, AC	(IC-64119) Pramod Yadav, Inf
(IC-64075) Choudhury Ashish Kumar Mishra, Inf	(IC-64120) Manvendra Singh Khangarot, Inf

- (IC-64121) Anil Kumar Mishra, Inf
(IC-64122) Singh Bharat, AD
(IC-64123) Siddheswar Prasad Dwivedi, Arty
(IC-64124) Ugen Namdol Makpen, Inf
(IC-64125) Mihir Kumar Jha, ASC
(IC-64126) Munish Sharma, AC
(IC-64127) Ashish Sajgotra, Inf
(IC-64129) Neeraj Kumar Thakkar, Arty
(IC-64130) Rane Rahul Jagdish, Sigs
(IC-64131) Mohit Chauhan, Arty
(IC-64132) Anurag Verma, Inf
(IC-64133) Vijay Kumar, Inf
(IC-64134) Tanmay Pant, Arty
(IC-64135) Vanam Vedavishwa Prakash, Int
(IC-64136) Swapnil Joshi, Engrs
(IC-64137) Ramashray Yadav, ASC
(IC-64138) Ankur Kulshreshtha, Inf
(IC-64139) Ashutosh Chandra, Inf
(IC-64140) Dilip S, Inf
(IC-64141) Karan Bhagra, Arty
(IC-64142) Abhishek Chaudhary, Inf
(IC-64143) Surya Bhan Singh, Inf
(IC-64144) Rahul Gupta, AOC
(IC-64145) Piyush Dobhal, Inf
(IC-64146) Tarun Kumar Tiwary, Inf
(IC-64147) Akshay Singh Rana, AD
(IC-64148) Aditya Kumar, Mech
(IC-64149) Vikram Negi, AOC
(IC-64150) Arindam Deb Roy, Arty
(IC-64151) Rajat Dhaka, Inf
(IC-64152) Tarun Rawat, ASC
(IC-64153) Puneet Puri, AC
(IC-64154) Bhupesh Bisht, Inf
(IC-64155) Balwinder Singh, AD
(IC-64156) Shekhar Walia, Inf
(IC-64158) Tejinderpal Singh Nagi, Inf
(IC-64159) Pankaj Aggarwal, Inf
(IC-64160) Nitin Singh, Inf
(IC-64161) J Adinarayana Reddy, Sigs
(IC-64162) Jyoti Lama, Inf
(IC-64164) Madappa KM, Inf
(IC-64165) Ravi Shankar Rajan, ASC
(IC-64166) Pramod Kumar Kanwar, Inf
(IC-64167) Munishwar Rao Pathak, Engrs
(IC-64168) Vikram Vishal, Inf
(IC-64169) Subhra Dey, Inf
(IC-64170) Prashant Singh Kashiwale, Inf
(IC-64171) Ajay Singh Rawat, Inf
(IC-64172) Ajay Kumar, AC
(IC-64173) Ashish Kumar Pathak, Mech
(IC-64174) Kapil Dev Sharma, Arty
(IC-64175) Gopal Singh Patiyal, Arty
(IC-64176) Amritesh Kumar, Inf
(IC-64177) Mahesh Kumar K, Inf
(IC-64178) Markandey Jee, Arty
(IC-64179) Abhishek Singh, Inf
(IC-64180) Aniruddha Rao HR, Inf
(IC-64181) Bhatia Amanjeet Singh, Engrs
(IC-64182) Mayank Bora, Arty
(IC-64183) Rohit Dongaonkar, Inf
(IC-64184) Nimish Trivedi, AD
(IC-64185) Vineet Verma, Inf
(IC-64186) Pradeep Gagain, EME
(IC-64187) Basava Venkata Anand Reddy, Inf
(IC-64188) Jaydeep Chattopadhyay, AC
(IC-64189) Bhasham Kumar, Mech
(IC-64190) Mrigank Mayukh, Inf
(IC-64191) L Suresh Kumar, Inf
(IC-64192) Dandu Vijay Reddy, Inf
(IC-64193) Hitendra Singh, Inf
(IC-64194) Ajay Patial, Inf
(IC-64195) Pranav Koranga, Arty
(IC-64196) Tarkeshwar Amol, AC
(IC-64197) Gyaneshwar Sharma, Arty
(IC-64198) Sankalp, Inf
(IC-64199) R Ramesh, Inf
(IC-64200) S Ujjawal, Inf
(IC-64201) Susheel Kumar Mahapatro, AD
(IC-64202) PN Sujay Kumar, Inf
(IC-64203) Daanesh Sharma, Inf
(IC-64204) Dushyant Poonia, ASC
(IC-64205) Abhijeet Dutta, Inf
(IC-64206) Mohit Tewari, Arty
(IC-64207) Ranvir Singh, Arty
(IC-64208) Iqbal Singh, Inf
(IC-64209) Bharat Dhankhar, AC

(IC-64210) Paritosh Rawat, AOC	(IC-64255) Manas Verma, EME
(IC-64211) Raj Kumar, AC	(IC-64256) Ashish Bajpai, EME
(IC-64212) Shashank Mian, Arty	(IC-64257) Gurpreet Singh Kalra, EME
(IC-64213) Ratan Deep Singh Gujral, AOC	(IC-64258) Himanshu Bansal, Sigs
(IC-64215) Amit Negi, EME	(IC-64259) Robert TA, Engrs
(IC-64216) Himanshu Rana, EME	(IC-64260) Sandeep Saini, Engrs
(IC-64217) Mayank Sundriyal, Engrs	(IC-64261) Amit Pandey, EME
(IC-64218) Sandeep Gagain, Sigs	(IC-64262) Prashant Pratap Singh Chauhan, EME
(IC-64219) Gurmeet Singh Viridy, Engrs	(IC-64263) Amit Kumar Singh, EME
(IC-64221) Kelkar Shrikrishna Bharat, Engrs	(IC-64264) Shivraj Singh Rawat, Engrs
(IC-64222) Ravinder Bhatia, EME	(IC-64265) Ashish Negi, Sigs
(IC-64223) Ajay Pratap S Chauhan, EME	(IC-64266) Raj Mohan Singh, Engrs
(IC-64224) Vipin Kumar Singh, Engrs	(IC-64267) Saju Thampi S, Engrs
(IC-64225) Henry Pasrija, EME	(IC-64268) Abhishek Agniotri, EME
(IC-64226) Lakshyajeet Singh Chauhan, EME	(IC-64269) Rahul Lingwal, Sigs
(IC-64227) Akhil Mehrotra, Engrs	(IC-64270) Vishal Bahukandi, Sigs
(IC-64228) Tushar Singh, EME	(IC-64271) Anuj Kumar Tripathi, Sigs
(IC-64229) Ripudaman, Sigs	(IC-64272) Gaurav Negi, Sigs
(IC-64230) Gaurav Bhatia, Engrs	(IC-64273) Nishikant Verma, Sigs
(IC-64231) Samrendra Kishore, Engrs	(IC-64274) Appala Abhishake, EME
(IC-64232) Ajeet Yadav, Int	(IC-64275) Vivek Kumar Bardia, Sigs
(IC-64233) Atul Chandra Srivastava, Engrs	(IC-64276) Raja Vijit, Sigs
(IC-64234) Nitesh Agarwal, EME	(IC-64277) Asashay Shiv, Engrs
(IC-64235) Siddharth Anil Inamdar, EME	(IC-64278) Hemendra Kaushik, Sigs
(IC-64236) Amreshwar Singh, Sigs	(IC-64287) Chandra Prakash, AEC
(IC-64237) Pawan Keshao Thaokar, Engrs	(IC-64296) Ram Naresh Sharma, AEC
(IC-64238) Nitesh Nagpal, Engrs	(IC-64303) Balu Bharath, AEC
(IC-64239) Gimmy Thomas, Engrs	(IC-64320) Rakesh Kumar, AEC
(IC-64240) Som Prakash Sharma, EME	(IC-64384) Anant Thapan, AEC
(IC-64241) Akashay Sati, Sigs	(IC-64387) Anil Kumar, AEC
(IC-64242) Mandeep Singh, EME	
(IC-64243) Vivek Singh Parihar, EME	(IC-68373) Hitender Yadav, EME
(IC-64244) Yogesh Kumar, Sigs	(IC-68375) Abhijeet Sawant, Sigs
(IC-64245) Gaurav Kumar Upadhayay, Sigs	(IC-68376) Varun Chander, EME
(IC-64246) Murali Kishore Velagada, EME	(IC-68377) Jas Karan Singh Bajwa, Sigs
(IC-64247) Sumit Singh, Sigs	(IC-68378) Ankit Gupta, EME
(IC-64248) Ashish Patwal, Sigs	(IC-68379) Bhatt Anant Rajeshkumar, Sigs
(IC-64249) Ayan Paul, Engrs	(IC-68380) Kuldeep Yadav, Engrs
(IC-64250) Anand Kumar, Engrs	(IC-68381) Ramendra Dutta Mathur, EME
(IC-64251) Sanket Seth, EME	(IC-68382) Umesh Swami, Engrs
(IC-64252) Manojit Das, EME	(IC-68383) Sameer Jafri, Engrs
(IC-64253) Kamal Bhardwaj, Sigs	(IC-68385) Kuldeep Singh, Sigs
(IC-64254) Satya Dev Singh, Engrs	(IC-68386) Ankit Agarwal, EME

—12 Jun 2010

(IC-68387) Prasad Mandgaonkar, EME
 (IC-68389) Mayank Nagpal, Sigs
 (IC-68392) Nitin Chandra Joshi, Engrs
 (IC-68393) Nitin Kumar Dube, EME
 (IC-68394) Nagarkar Pratap Rammohan, EME
 (IC-68395) Rajbir Singh Virk, Sigs
 (IC-68396) Lohakare Nainish Bhaskar, Sigs
 (IC-68397) Manoj Kumar, Engrs
 (IC-68398) Abhishek Kumar, Engrs
 (IC-68399) Rajurkar Aniruddha Dattatraya, Engrs
 (IC-68400) Prabhjot Singh, Sigs
 (IC-68402) Krupanand V Sahasrabudhe, Sigs
 (IC-68403) Sachin Chetal, EME
 (IC-68404) Laxmisha Suvarna, Engrs
 (IC-68405) Bharat Bhushan, EME
 (IC-68407) N Longshibemo Odyuo, Engrs
 (IC-68408) Gurkirpal Singh, Engrs
 (IC-68409) Anil Kumar Singh, Engrs
 (IC-68410) Varun Chhabra, Sigs
 (IC-68411) Ajay Sanwal, AAD
 (IC-68413) Chetan Maheshwari, Sigs
 (IC-68414) Prashant Shandilya, Sigs
 (IC-68415) Navtej Singh Randhawa, Sigs
 (IC-68416) Nitin Langeh, Sigs
 (IC-68417) Ponnappa M B, Sigs
 (IC-68421) Nimit Suri, EME
 (IC-68422) Kulkarni Tanmay Rajeev, Sigs
 (IC-68423) Suresh Haobam, Engrs
 (IC-68424) Rohan Joshi, EME
 (IC-68425) G Anuraag Kiran, Sigs
 (IC-68426) Karthik C, EME
 (IC-68427) Surya Narayan Bihari, EME
 (IC-68428) Manish Kumar Yadav, Sigs
 (IC-68429) Monindra Masia, Sigs
 (IC-68430) Naveen Dagar, Sigs
 (IC-68431) Devadesh Sah, Engrs
 (IC-68432) Deepak Sangwan, Sigs
 (IC-68433) Shukla Atul Kumar Suresh, EME
 (IC-68434) Abhimanyu Sharma, Engrs
 (IC-68435) Mahail Jain, EME

(IC-68437) Rajesh Prasad Singh, Sigs
 (IC-68438) Mukesh Kumar Singh, Sigs
 (IC-68439) Bikramjeet Singh, Sigs
 (IC-68441) Raja Sekar M, Engrs
 (IC-68442) Ananya Mohiley, Sigs
 (IC-68443) R Pothirajan, Sigs
 (IC-68444) K V Vinayaka, Engrs
 (IC-68445) Apurva A Bhatnagar, Sigs
 (IC-68446) Sujit S Nair, Sigs
 (IC-68447) Swagat Kumar Patra, Sigs
 (IC-68448) Aditya Nigam, EME
 (IC-68449) Bharat Kumar, EME
 (IC-68450) Santosh Kumar, EME
 (IC-68451) Saptarshi Chatterjee, Sigs
 (IC-68452) Mandeep Singh Rana, Sigs
 (IC-68453) Aseem Lakhera, Engrs
 (IC-68454) Pawar Umesh Ankush, EME
 (IC-68455) Harikrishnan R, Sigs
 (IC-68456) Pawan Kumar Panday, Engrs
 (IC-68458) Pallav Katial, EME
 (IC-68459) Nikhil Kumar, Sigs
 (IC-68460) Abhishek Koshal, Sigs
 (IC-68461) Dhiraj Kumar Jasrotia, Sigs
 (IC-68462) Sujit S Joshi, EME
 (IC-68463) Yogesh Chandra, Engrs
 (IC-68464) Tashi Wangyal, Engrs
 (IC-68465) Deshmukh Sujeet Daulat, Sigs
 (IC-68466) Soumya Mazumdar, Engrs
 (IC-68468) Sachin Nimbalkar, EME
 (IC-68470) Vikram Singh, EME

—13 Jun 2010

JASWANT SINGH
 Jt Dir
 MS-8C

No. 685, dated 10th November 2010.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY
 CORPS OF ENGINEERS
 BENGAL ENGINEER GROUP
 To be Nb Sub (GD)

Hav Balwinder Singh (No. 1478398W now JC-339171F),
 01 May 2010#

Hav Jay Pratap Tiwari (No. 1479190A now JC-339172K),
01 Jun 2010&

Hav Surendar Kumar Pandey (No. 1479191F now JC-339173M), 01 Jun 2010&

Hav Ranvir Singh (No. 1479204P now JC-339174P),
01 Jun 2010&

Hav Mahesh Kumar (No. 1479228Y now JC-339175X),
01 Jun 2010&

Hav Mehar Singh (No. 1479255H now JC-339176A),
01 Jun 2010&

Hav Devendra Nath Yadav (No. 1479385L now JC-339177H), 01 Jun 2010&

Hav Talwinder Singh (No. 1479438Y now JC-339178L),
03 Jun 2010&

Hav Prakash Chandra Joshi (No. 1479757L now JC-339179N), 01 Jun 2010&

Hav Krishan Chandar (No. 1479765K now JC-339180H),
03 Jun 2010&

To be Nb Sub Clk (SD)

Hav Shiv Raj Singh Shekhawat (No. 1478907K now JC-339181L), 01 Jun 2010@

Hav Debendra Kumar Panda (No. 1483120Y now JC-339182N), 31 May 2010@

Hav Patel Hitesh Kumar Indubhai (No. 1483839L now JC-339183W), 29 May 2010#

Hav Durga Singh Rajput (No. 1484204Y now JC-339184Y),
01 Jun 2010&

Hav Shesh Nath Singh Yadav (No. 1484624Y now JC-339185F), 01 Jun 2010&

Hav Shyamal Kumar Mukherjee (No. 1484304K now JC-339186K), 01 Jun 2010&

Hav Vijay Kumar (No. 1484280L now JC-339187M),
01 Jun 2010&

Hav Nagendra Upadhyay (No. 1484548X now JC-339188P), 01 Jun 2010&

Hav Jasbir Singh (No. 1483817M now JC-339189X),
01 Jun 2010&

To be Nb Sub (SKT)

Hav Raj Kumar (No. 1485173F now JC-339190M), 16 Jun 2010@

Hav Dushyant Singh (No. 1484985X now JC-339191P),
01 Jun 2010&

Hav Prasadha Kumar Das (No. 1484234W now JC-339192X), 01 Jun 2010&

To be Nb Sub/Svy Cat

Hav Inderjit Singh (No. 1479089A now JC-339193A),
28 May 2010#

Hav Balwant Singh (No. 15344320A now JC-339194H),
01 Jun 2010&

@(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 27 Mar 2010
without effect on pay & allces).

#(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2010
without effect on pay & allces).

&(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2010
without effect on pay & allces).

REGULAR ARMY

CORPS OF ENGINEERS (MES)

MILITARISED CADRE

To be Nb Sub

Rank, Name, Army No. & JC No., Date of Promotion
Remarks

Hav E Ramalinga Reddy (No. 15303616K now JC-332020A), 09 Jan 2010*

Hav Anil Kumar R (No. 15310911F now JC-332021A),
06 Jan 2010*

Hav Zeelan Basha TS (No. 1585479N now JC-332022L),
29 Jan 2010#

Hav Rabi Narayan Parida (No. 1484682H now JC-332023N), 22 Jan 2010*

Hav Narender Singh Bhandari (No. 1487095H now JC-332024W), 22 Jan 2010#

Hav Raj Kumar (No. 1488835Y now JC-332025Y), 23 Jan 2010#

Hav Chandra Shekhar Koujalagi (No. 15305545M now JC-332026F), 08 Mar 2010#

Hav Yohannan TM (No. 15306692F now JC-332027K),
03 May 2010*

Hav Sushil Kumar Das (No. 1587341X now JC-332028M),
05 Jan 2010*

Hav More Vilas Laxman (No. 1588358X now JC-332029P),
02 Feb 2010#

Hav Tuhin Kumar Dutta (No. 1484310X now JC-332030K),
02 Feb 2010#

Hav Dinesh Chandra (No. 1492687W now JC-332031M),
12 May 2010\$

Hav Rajender Bisht (No. 1487329F now JC-332032P),
12 May 2010\$

Hav Raju G (No. 15306521P now JC-332033X), 06 Jan 2010*

Hav Bimal Dev Nath (No. 1482793F now JC-332034A),
22 Jan 2010*

Hav Veerapathira Raj N (No. 15305579A now JC-332035H),
07 May 2010#

Hav Saji Kumar V (No. 15315319H now JC-332036L),
11 May 2010\$

Hav Barun Panda (No. 15313140W now JC-332037N),
08 May 2010\$

Hav Ravi Kumar D (No. 15313294H now JC-332038W),
08 May 2010\$

Hav Ravindra Kumar Malhotra (No. 1488778H now JC-
332039Y), 08 May 2010\$

Hav Manas Kumar Bhanja (No. 1487694H now JC-
332040N), 07 May 2010\$

Hav Shinde Rajesh Hinduraj (No. 1586926Y now JC-
332041W), 26 Apr 2010%%

Hav Mohite Shivaji Kisan (No. 6389520F now JC-332042Y),
06 Jan 2010*

Hav Surendra Kumar Singh (No. 15313475N now JC-
332043F), 08 Jan 2010*

Hav Ashok Kumar (No. 1587854M now JC-332044K),
13 Jan 2010*

Hav Rohit Kumar Dhiwar (No. 1486106X now JC-
332045M), 17 May 2010#

Hav Shaik Jeelani Basha (No. 1587789X now JC-332046P),
11 May 2010\$

Hav A Sarvanan (No. 15313312A now JC-332047X),
12 May 2010\$

Hav Ajmer Singh (No. 1587026F now JC-332048A),
17 May 2010\$

Hav Tarwinder Singh (No. 1587324X now JC-332049H),
15 May 2010\$

Hav Gurpreet Singh (No. 1586863F now JC-332050X),
13 May 2010\$

Hav Man Singh Jadon (No. 1578618K now JC-332051A),
19 Mar 2010*

Hav PT Anil Kumar (No. 15309358L now JC-332052H),
04 Jan 2010*

Hav Amar Dass Raju (No. 1588066P now JC-332053L),
06 Jan 2010*

Hav John Varghese AG (No. 15308665W now JC-332054N),
05 Jan 2010*

Hav Ramesh Chandra Padhiary (No. 1485184H now JC-
332055W), 30 Jan 2010#

Hav Mann Singh (No. 1490768X now JC-332056Y),
10 May 2010\$

Hav Gurmukh Singh (No. 1492177P now JC-332057F),
17 May 2010\$

Hav Gavandi Bhau Madhukar (No. 1584026W now JC-
332058K), 11 May 2010\$

Hav Mokashi Vidyanand Gunda (No. 1585045N now JC-
332059M), 24 May 2010\$

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Dec 2009,
09 Jan 2010, 29 Apr 2010, 13 Mar 2010 without effect on
pay and allces)

Hav Shiv Prasad Ardh (No. 1481197H now JC-331160A),
10 Sep 2007*

Hav Raghbir Prasad (No. 1483873L now JC-331161H),
18 May 2007*

Hav Shushil Kumar Swain (No. 1481326X now JC-
331162L), 09 May 2007*

Hav Kuchhadio Govind Lalji (No. 1581761F now JC-
331163N), 21 Aug 2007**

Hav Bijender Singh Rama (No. 1481688X now JC-
331164W), 18 Aug 2007**

Hav Mintu Sharma (No. 1484153W now JC-331165Y),
13 Jul 2007**

Hav Dina Lal Sahu (No. 1582216K now JC-331166F),
25 Aug 2007**

Hav Kulkarni Shashikant (No. 1581366N now JC-331167K),
09 Sep 2007**

Hav D Nageswara Reddy (No. 15310521M now JC-
331168N), 14 Sep 2007**

Hav Patel Dinesh Kumar Nagvi (No. 1580899K now JC-
331169P), 11 Sep 2007**

Hav Saji Mathew (No. 1580987A now JC-331170K),
18 Jul 2007**

Hav Rama Chandra Singh (No. 1479771X now JC-
331171M), 14 Aug 2007**

Hav Ram Dayal (No. 1484155F now JC-331172P), 08 Oct
2007***

Hav Anil Kumar Singh (No. 1481975H now JC-331173X),
08 Oct 2007***

Hav KR Palaniappan (No. 1579761H now JC-331174A),
10 Oct 2007***

Hav Mohan Singh Mahar (No. 1484452P now JC-
331175H), 04 Oct 2007***

Hav Jaswinder Singh (No. 1479653K now JC-331176L),
10 Oct 2007***

Hav Govind Yadav (No. 1582431P now JC-331177N),
04 Oct 2007***

- Hav B John Joseph (No. 15308589P now JC-331178W), 05 Oct 2007***
- Hav Hari Nand Tiwari (No. 1484467X now JC-331179Y), 04 Oct 2007***
- Hav Surinder Paul Sharma (No. 15307456M now JC-331180N), 05 Oct 2007***
- Hav Sandeep Dutta (No. 1483908W now JC-331181W), 10 Oct 2007***
- Hav Santhosh Kumar S Pillai (No. 1578956F now JC-331182Y), 05 Oct 2007***
- Hav Rattan Singh (No. 1484981F now JC-331183F), 06 Oct 2007***
- Hav P Jerald (No. 1582892Y now JC-331184K), 08 Oct 2007***
- Hav Jarnail Singh (No. 1484328N now JC-331185M), 06 Oct 2007***
- Hav Raj Kumar (No. 1484770Y now JC-331186P), 08 Oct 2007***
- Hav Rup Lal (No. 15307093N now JC-331187X), 08 Oct 2007***
- Hav Prakash B (No. 15308176L now JC-331188A), 05 Oct 2007***
- Hav Durga Vijay Upadhyay (No. 1583687K now JC-331189H), 05 Oct 2007***
- Hav Roshan Ali (No. 1582490F now JC-331190X), 06 Oct 2007***
- Hav Singasan Yadava (No. 1483863F now JC-331191A), 08 Oct 2007***
- Hav Thakur Suresh Chand Gopi Chand (No. 1582401X now JC-331192H), 05 Oct 2007***
- Hav Brij Raj Singh (No. 1484536H now JC-331193L), 09 Oct 2007***
- Hav Gurmit Singh (No. 1582410Y now JC-331194N), 08 Oct 2007***
- Hav Kailash Chand Swain (No. 1483118F now JC-331195W), 19 May 2007*
- Hav Sivadasan A (No. 15303510X now JC-331196Y), 11 Sep 2007***
- Hav Rathesh Koyatan (No. 15304364P now JC-331197F), 24 Sep 2007***
- Hav Yernagula Chitti Babu (No. 15307319N now JC-331198K), 13 Jul 2007**
- Hav V Sekar (No. 15304613H now JC-331199M), 05 Sep 2007**
- Hav Pravesh Kumar (No. 6933282L now JC-331200W), 03 Sep 2007**
- Hav Shukla Ashok Kumar (No. 1485783H now JC-331201Y), 19 Oct 2007***
- Hav Rajesh Singh Yadava (No. 1482165M now JC-331202F), 19 Oct 2007***
- Hav Hirender Singh (No. 1481663M now JC-331203K), 17 Oct 2007***
- Hav Yatindra Singh (No. 1482223L now JC-331204M), 23 Oct 2007***
- Hav Prakash R (No. 15307056A now JC-331205P), 24 Oct 2007***
- Hav S Kalidasan (No. 1380060P now JC-331206X), 22 Oct 2007***
- Hav Virender Singh (No. 1481062F now JC-331207A), 22 Oct 2007***
- Hav Pradip Kumar Rai (No. 1583236K now JC-331208H), 19 Oct 2007***
- Hav Ajay Kumar Ballyar Singh (No. 1482344M now JC-331209L), 24 Oct 2007***
- Hav Shyam Sunder Debidas (No. 15307516W now JC-331210A), 31 Dec 2007**
- Hav Jaya Dhanaraj P (No. 15309116M now JC-331211H), 14 Nov 2007**
- Hav Kailash Chandra Mohanty (No. 1484298F now JC-331212L), 04 Oct 2007***
- Hav Dharmendra (No. 1583227H now JC-331213N), 04 Oct 2007***
- Hav Amresh Pratap Singh (No. 15308316M now JC-331214W), 08 Oct 2007***
- Hav Arvind Kumar Singh (No. 1482559L now JC-331215Y), 29 Oct 2007***
- Hav Anil Kumar SK (No. 15309197N now JC-331216F), 31 Oct 2007***
- Hav Rajangam A (No. 15309117L now JC-331217K), 12 Nov 2007***
- Hav Ajer Bihari (No. 1484458W now JC-331218M), 26 Nov 2007***
- Hav Suresh PK (No. 15308604Y now JC-331219P), 28 Dec 2007***
- Hav Shyam Lal Tomar (No. 1581529W now JC-331220K), 19 Dec 2007***
- Hav Narpal Singh Shekhwat (No. 1586049W now JC-331221M), 24 Dec 2007@
- Hav Fateh Singh (No. 1481219W now JC-331222P), 18 Dec 2007@
- Hav Dulal Biswas (No. 1484300N now JC-331223X), 18 Dec 2007@

Hav Narendra Singh (No. 1483636F now JC-331224A),
19 Dec 2007@

Hav Anil Kumar (No. 1484979K now JC-331225H), 19 Dec
2007@

Hav Jit Singh (No. 1485078K now JC-331226L), 19 Dec
2007@

Hav Azad Singh (No. 1582825N now JC-331227N), 19 Dec
2007@

Hav V Loganathan (No. 15309946Y now JC-331228W),
19 Dec 2007@

Hav Bidyut Bhattacharya (No. 1489626N now JC-331229Y),
20 Dec 2007@

Hav Ram Kumra (No. 1586216F now JC-331230N), 22 Dec
2007@

Hav Sumer Singh Hinda (No. 1484214H now JC-331231W),
24 Dec 2007@

Hav N Chandran (No. 15311572M now JC-331232Y),
24 Dec 2007@

Hav Jag Mohan Kunwar (No. 1483021W now JC-331233F),
26 Dec 2007@

Hav Baldev Singh (No. 1483001H now JC-331234K),
31 Dec 2007@

Hav Bharat Singh (No. 1482333A now JC-331235M),
08 Aug 2007**

Hav Devendra Singh Rawat (No. 1482251X now JC-
331236P), 30 Nov 2007**

Hav Romesh Kumar (No. 1484490L now JC-331237X),
17 Nov 2007***

Hav Dinesh Pal Singh Chauhan (No. 1482297A now JC-
331238A), 18 Oct 2007***

Hav Ajay Mohan Joshi (No. 1484512Y now JC-331239H),
18 Oct 2007***

Hav N Kandan (No. 15304919L now JC-331240X), 20 Oct
2007***

Hav Hassan Kunju M (No. 1484301W now JC-331241A),
22 Oct 2007***

Hav Mohd Shamim Khan (No. 1579754M now JC-
331242H), 22 Oct 2007***

Hav Shaik Apsar (No. 15306156Y now JC-331243L),
22 Oct 2007***

Hav Kadam Sanjay Shankar (No. 1581440K now JC-
331244N), 25 Oct 2007***

Hav Sunil SR (No. 1486179K now JC-331245W), 26 Oct
2007***

Hav Murad Baig (No. 1576278N now JC-331246Y), 26 Oct
2007***

Hav Balwinder Singh (No. 14612559X now JC-331247F),
26 Oct 2007***

Hav Tej Pal Singh (No. 1485023A now JC-331248K),
27 Oct 2007***

Hav Salokhe Ajay Ramchandra (No. 6390013A now JC-
331249M), 05 Nov 2007***

Hav Sher Singh (No. 1484975N now JC-331250F), 12 Nov
2007***

Hav Ram Pal (No. 1486531H now JC-331251K), 12 Nov
2007***

Hav Maruti Naik (No. 15301100H now JC-331252M),
13 Nov 2007***

Hav Mahendr Singh (No. 1579564A now JC-331253P),
19 Nov 2007***

Hav Jagat Singh (No. 1486981A now JC-331254X),
28 Nov 2007***

Hav Vikram Singh Bisht (No. 1484477F now JC-331255A),
24 Dec 2007***

Hav Ram Milan (No. 1484278N now JC-331256H), 20 Dec
2007@

Hav Vijay Kumar Seekha (No. 1484865Y now JC-331257L),
20 Dec 2007@

Hav Bhupendra Choudhary (No. 1581977H now JC-
331258N), 20 Dec 2007@

Hav Kailash Chand (No. 1578105P now JC-331259W),
26 Dec 2007@

Hav Ajay Kumar (No. 1585621M now JC-331260L),
26 Dec 2007@

Hav Manohar Singh (No. 1580892A now JC-331261N),
31 Dec 2007@

Hav Dinesh Singh (No. 1484866F now JC-331262W),
27 Dec 2007@

Hav Ram Digvijay Ajit Singh (No. 1481181X now JC-
331263Y), 11 Aug 2007aa

Hav Rakesh Kumar (No. 1480299M now JC-331264F),
22 Oct 2007***

Hav M Ramesh Babu (No. 15311091A now JC-331265K),
10 Mar 2008**

Hav Satyavir Singh (No. 1484154Y now JC-331266M),
04 Oct 2007***

Hav Ashok Kumar (No. 6389777M now JC-331267P),
01 May 2008***

Hav Nikam Dattatry Pandurang (No. 1585867L now JC-
331268X), 24 Dec 2007***

Hav Raj Pal (No. 1484442L now JC-331269A), 24 Dec
2007***

- Hav Roy PM (No. 15308210A now JC-331270P), 20 Dec 2007@
- Hav Mukesh Kumar (No. 1587914W now JC-331271X), 17 Dec 2007@
- Hav Santosh Kumar VS (No. 15310074N now JC-331272A), 31 Dec 2007@
- Hav Rajendra Prasad (No. 1482393P now JC-331273H), 26 Feb 2008@
- Hav Chandan Kumar Singh (No. 1583335M now JC-331274L), 04 Mar 2008@
- Hav Habibur Rahaman (No. 1480827L now JC-331275N), 22 Dec 2007@
- Hav Chudasama Gajendra Singh (No. 15310309P now JC-331276W), 08 Jan 2008@
- Hav S Jaganathan (No. 15309101A now JC-331277Y), 29 Feb 2008@
- Hav Shambhu Saran Bharti (No. 1583016A now JC-331278F), 21 Jan 2008@
- Hav Haresh Babu TP (No. 1578459X now JC-331279K), 12 Feb 2008@
- Hav Kamthe Yaswant Bhimrao (No. 1575206X now JC-331280Y), 03 Jan 2008@
- Hav Raj Kumar (No. 1482570K now JC-331281F), 12 Jan 2008@
- Hav D Dhanasekharan (No. 15310048M now JC-331282K), 07 Jan 2008@
- Hav Vijay Singh (No. 1484299K now JC-331283M), 05 Jan 2008@
- Hav Chandra Kumar M (No. 15301538Y now JC-331284P), 29 Jan 2008@
- Hav Biju KV (No. 15308296K now JC-331285X), 15 May 2008@
- Hav Vijay Prakash (No. 1484937X now JC-331286A), 13 Mar 2008⇒
- Hav Sardar Singh (No. 1484890X now JC-331287H), 12 Mar 2008⇒
- Hav Boyiri Uma Maheswara Rao (No. 1484216N now JC-331288L), 12 Mar 2008⇒
- Hav Ajaib Singh (No. 1582370H now JC-331289N), 12 Mar 2008⇒
- Hav Pramod Kumar (No. 1581371Y now JC-331290H), 12 Mar 2008⇒
- Hav Appadurai C (No. 15309945W now JC-331291L), 17 Mar 2008⇒
- Hav Muhamunkar Vilas (No. 1582820P now JC-331292N), 24 Mar 2008⇒
- Hav Uike Dilip Suryabhan (No. 1484811X now JC-331293W), 10 Apr 2008⇒
- Hav Soran Singh (No. 1582886L now JC-331294Y), 28 Mar 2008⇒
- Hav Lallan Singh Kushwaha (No. 6931514A now JC-331295F), 10 Apr 2008⇒
- Hav Prithwish Kumar Debnath (No. 1582869L now JC-331296K), 01 May 2008⇒
- Hav Abhinaga Kumar (No. 1582320X now JC-331297M), 17 Jan 2008***
- Hav Mohammad Ibraheem (No. 15303400W now JC-331298P), 04 Jan 2008***
- Hav Niranjana Nayak (No. 1482374K now JC-331299X), 14 Jan 2008***
- Hav Toran Singh (No. 1582879P now JC-331300P), 27 Dec 2007***
- Hav Ragutu Sreenivasa Rao (No. 15307341Y now JC-331301K), 25 Feb 2008@
- Hav Jagdish Prasad (No. 1576766W now JC-331302M), 07 May 2007aa
- Hav DP Shiv Ram (No. 1576711M now JC-331303P), 04 Apr 2008\$
- Hav Virendra Singh (No. 1576722Y now JC-331304X), 03 Apr 2008\$
- Hav Baljit Singh (No. 1576759A now JC-331305A), 04 Apr 2008\$
- Hav Thakor Ratan Singh V (No. 1578921L now JC-331306H), 04 Apr 2008\$
- Hav Kewal Masih (No. 1578413P now JC-331307L), 09 Apr 2008\$
- Hav Simon John V (No. 15306036A now JC-331308N), 08 Apr 2008\$
- Hav Binoy Babu S (No. 15306045F now JC-331309W), 04 Apr 2008\$
- Hav Raju KV (No. 15306061Y now JC-331310L), 04 Apr 2008\$
- Hav Bhagat Tanaji Gulab (No. 1579811H now JC-331311N), 15 Apr 2008\$
- Hav Kokate Ajinath Rattan (No. 1580211M now JC-331312W), 07 Apr 2008\$
- Hav Bhasker Pratap Pandey (No. 1580002P now JC-331313Y), 02 Apr 2008\$
- Hav Ram Ekbal Kushwaha (No. 1578686X now JC-331314F), 04 Apr 2008\$

Hav Ram Bali Verma (No. 1579346F now JC-331315K),
08 Apr 2008\$

Hav Anil Kumar PK (No. 1579766F now JC-331316F),
04 Apr 2008\$

Hav Sanjay Kumar Shukla (No. 1586181W now JC-
331317P), 03 Apr 2008\$

Hav Suresh Chandra Sahu (No. 1586196Y now JC-
331318X), 04 Apr 2008\$

Hav Badan Singh Baghel (No. 1484998P now JC-
331319A), 04 Apr 2008\$

Hav Jitendra Kumar (No. 1485301H now JC-331320P),
03 Apr 2008\$

Hav Madhu Sudanan Nair (No. 1485368F now JC-
331321X), 09 Apr 2008\$

Hav Shambhu Singh Rao (No. 1485429N now JC-331322A),
07 Apr 2008\$

Hav Nitai Chand Singha (No. 1485716X now JC-331323H),
05 Apr 2008\$

Hav Mohan Chettri (No. 1485801A now JC-331324L),
07 Apr 2008\$

Hav Rajesh Kumar (No. 1485827P now JC-331325N),
10 Apr 2008\$

Hav Sanjay Kumar Rai (No. 1486010P now JC-331326W),
22 Apr 2008\$

Hav Birender Kumar (No. 1486105P now JC-331327Y),
03 Apr 2008\$

Hav Balbir Singh (No. 1486108H now JC-331328F), 03 Apr
2008\$

Hav Gauri Shankar Yadav (No. 1486153P now JC-331329K),
01 Apr 2008\$

Hav Jay Singh Chaudhary (No. 1486393M now JC-
331330Y), 03 Apr 2008\$

Hav Bhupendra Singh Rautela (No. 1487011K now JC-
331331F), 05 Apr 2008\$

Hav Pawan Kumar (No. 1585647F now JC-331332K),
31 Mar 2008\$

Hav Dasharathi Pradhan (No. 1586198K now JC-
331333M), 03 Apr 2008\$

Hav Settu J (No. 15304845F now JC-331334P),
19 Apr 2008\$

Hav Nagappa Basunal (No. 15306024Y now JC-331335X),
04 Apr 2008\$

Hav Prahladan S (No. 15306055L now JC-331336A),
15 Apr 2008\$

Hav Varghese PX (No. 15306940M now JC-331337H),
04 Apr 2008\$

Hav P Gunasegaran (No. 15308843N now JC-331338L),
04 Apr 2008\$

Hav Narayan Ram (No. 1576661M now JC-331339N),
15 Apr 2008\$

Hav Biplab Dey (No. 1485687N now JC-331340H),
23 Apr 2008\$

Hav Mohan Lal (No. 1486116F now JC-331341L),
29 Apr 2008\$

Hav More Kisan Laxman (No. 15308797K now JC
331342N), 30 Apr 2008\$

Hav Jadav Dilip Ramdas (No. 1579591K now JC-
331343W), 13 May 2008\$

Hav Rameshwar Dutt (No. 1584301L now JC-331344Y),
07 Jun 2008⇒

Hav Prabir Chandra Pande (No. 1483644A now JC-
331345F), 11 Jun 2008%%

Hav Kunwar Pal (No. 6390644H now JC-331346K), 11 Jun
2008%%

Hav G Moriappan (No. 15308590K now JC-331347M), 11
Jun 2008%%

Hav Anand Singh (No. 1586165Y now JC-331348P), 12 Jun
2008%%

Hav Unni Krishnam B (No. 15310332H now JC-331349X),
13 Jun 2008%%

Hav Ravinder Kumar (No. 1583270K now JC-331350M),
18 Jun 2008%%

Hav Jagtap Dilip Narayan (No. 1483894F now JC-331351P),
18 Jun 2008%%

Hav A Thomas (No. 15309206K now JC-331352X), 19 Jun
2008%%

Hav Ujjwal Mukherjee (No. 1586036Y now JC-331353A),
16 Jun 2008%%

Hav Surender Singh (No. 1586065N now JC-331354H),
11 Jun 2008%%

Hav Het Ram (No. 1490706X now JC-331355L), 13 Jun
2008%%

Hav Ashadujjaman Mondal (No. 1587591Y now
JC-331356N), 11 Jun 2008%%

Hav Anil Kumar R (No. 15311335H now JC-331357W), 11
Jun 2008%%

Hav Vijay Singh (No. 1484023N now JC-331358Y),
14 Jun 2008%%

Hav Sahab Singh (No. 1586225H now JC-331359F),
11 Jun 2008%%

Hav Krishan Dutt Sharma (No. 1588119H now JC-
331360W), 16 Jun 2008%%

Hav Devender Singh (No. 1586133W now JC-331361Y), 10 Jun 2008%%

Hav Bibekananda Bnanja (No. 1479398H now JC-331362F), 18 Oct 2007***

Hav Ramesh Kumar Singh (No. 1484279W now JC-331363K), 11 Mar 2008⇒

Hav Rajpal (No. 1484971X now JC-331364M), 12 Mar 2008⇒

Hav Ghanwat Suhas Ganpat (No. 1579899X now JC-331365P), 07 May 2008⇒

Hav ET Jorly (No. 15308890L now JC-331366X), 16 Jun 2008⇒

Hav Gurmeet Singh (No. 1490225L now JC-331367A), 16 Jun 2008⇒

Hav Boopathi R (No. 15311274W now JC-331368H), 30 Jun 2008⇒

Hav Indraj Singh (No. 1586881K now JC-331369L), 16 Jun 2008⇒

Hav Jagdish Singh (No. 1485006A now JC-331370A), 24 Jun 2008⇒

Hav Yog Raj (No. 1486287N now JC-331371A), 06 Jun 2007*

Hav Vinod Kumar (No. 1489007A now JC-331372L), 16 Jun 2008+

Hav Sanjiv Kumar (No. 1585770A now JC-331373N), 10 Jun 2008+

Hav MD Azizul Hoque (No. 1586222P now JC-331374W), 24 Jun 2008+

Hav Santosh Kumar S (No. 1588138N now JC-331375Y), 11 June 2008+

Hav Mahiuddin Mondal (No. 1492602P now JC-331376F), 23 Jun 2008+

Hav Sambhu Nath Ghose (No. 1482633F now JC-331377K), 10 Jun 2008+

Hav Ravi S (No. 1534032W now JC-331378M), 17 Jun 2008+

Hav V Venkata Ramesh Babu (No. 15306212M now JC-331379P), 13 Jun 2008+

Hav Jadhav Anna Sahab (No. 1580848W now JC-331380K), 23 Jun 2008+

Hav R Ayyalusamy (No. 15311979H now JC-331381M), 10 Jun 2008+

Hav KP Anoop Kumar (No. 15312009M now JC-331382P), 10 Jun 2008+

Hav Bijay Kumar Mohanty (No. 1482895X now JC-331383X), 10 Jun 2008+

Hav Gurdev Singh (No. 1486252X now JC-331384A), 10 Jun 2008+

Hav Suresh Kumar Sharma (No. 1487842M now JC-331385H), 13 Jun 2008+

Hav Narender Singh Kushwaha (No. 1482382M now JC-331386L), 12 Jun 2008+

Hav Shivaji Shukla (No. 1580171W now JC-331387N), 04 Apr 2008\$

Hav Raj Nandan Singh (No. 1485721H now JC-331388W), 02 Apr 2008\$

Hav Mahendr Singh (No. 1485900H now JC-331389Y), 02 Apr 2008\$

Hav Parimal Singh (No. 15308724X now JC-331390N), 04 Apr 2008\$

Hav Suresh Singh (No. 6390829K now JC-331391W), 12 Apr 2008%%

Hav Prahlad Singh (No. 1492665X now JC-331392Y), 10 Jan 2008%%

Hav Mukesh Choudhary (No. 1585646Y now JC-331393F), 23 Jun 2008%%

Hav Dilip Kumar Mohato (No. 1484807P now IC-331394K), 10 Jul 2008%%

Hav Nawab Singh (No. 1491758A now JC-331395M), 05 Jul 2008%%

Hav Tikendra Singh (No. 1491783Y now JC-331396P), 11 Jun 2008%%

Hav Shinde Suhas Dattatraya (No. 6390393K now JC-331397X), 16 Jun 2008%%

Hav Jaivir Singh (No. 1580349F now JC-331398A), 16 Jun 2008%%

Hav Narasimham (No. 15302534P now JC-331399H), 09 Jul 2008%%

Hav Thirupathi S (No. 15309918M now JC-331400M), 13 Jun 2008%%

Hav Ujagar Lal (No. 15308425Y now JC-331401P), 18 Jun 2008%%

Hav Brij Mohan Tiwari (No. 1492367F now JC-331402X), 26 Jun 2008%%

Hav Bikas Chandra Maji (No. 1586038K now JC-331403A), 17 Jun 2008%%

Hav Garkar Raju Kacharu (No. 1587912L now JC-331404H), 16 Jun 2008%%

Hav S Sinourassane (No. 15302379Y now JC-331405L), 21 Jun 2008%%

Hav K Thiruneela Kondan (No. 15313939A now JC-331406N), 17 Jun 2008%%

Hav Surendra Kumar (No. 1586395M now JC-331407W), 16 Jun 2008%%

Hav Jaya Prakash N (No. 15301024F now JC-331408Y), 16 Jun 2008///

Hav Mate Adinath Gopinath (No. 1587907A now JC-331409F), 16 Feb 2008%%

Hav Manikandan V (No. 15309979K now JC-331410W), 26 Jun 2008%%

Hav Amlesh Kumar Choudhary (No. 1588192F now JC-331411Y), 16 Jun 2008%%

Hav Suresh Kumar (No. 1579648H now JC-331412F), 16 Jun 2008%%

Hav Proveen Kumar (No. 1484881W now JC-331413K), 25 Jun 2008%%

Hav Wagh Ramnath Baburao (No. 1587952M now JC-331414M), 01 Jul 2008%%

Hav Pankaj Kumar (No. 1484843A Now JC-331415P), 08 Jul 2008%%

Hav Bhuwan Chandra Ponotha (No. 1484500K now JC-331416X), 14 Jan 2008***

Hav Saini Jagdish Bhagirath (No. 15304499W now JC-331417A), 24 May 2008⇒

Hav Doongar Mal (No. 1587897F now JC-331418H), 30 Jun 2008⇒

Hav Debasish Maity (No. 1483668K now JC-331419L), 03 Sept 2008%%

Hav Murugarasu R (No. 15308581H now JC-331420A), 23 Aug 2008WW

Hav Shyam Bahadur Shukla (No. 1484281N now JC-331421H), 22 Aug 2008WW

Hav Saji John (No. 15311154X now JC-331422L), 23 Aug 2008WW

Hav Pawar Vijay Baliram (No. 1490858Y now JC-331423N), 22 Aug 2008WW

Hav Krishna Kumar Pandey (No. 1582865P now JC-331424W), 30 Aug 2008WW

Hav Narad Muni Rai (No. 1579278Y now JC-331425Y), 23 Aug 2008WW

Hav Suresh Kumar (No. 1580351Y now JC-331426F), 25 Aug 2008WW

Hav Adsul Chandra Kant (No. 1483852P now JC-331427K), 25 Aug 2008WW

Hav Naveen Kumar (No. 1582783M now JC-331428M), 29 Aug 2008WW

Hav Rathod Navin Kumra Ranjit (No. 1483872H now JC-331429P), 30 Aug 2008WW

Hav Prabir Kumr Giri (No. 1483666Y now JC-331430K), 28 Aug 2008WW

Hav Deepak Singh (No. 1484172F now JC-331431M), 25 Aug 2008WW

Hav Reyaz Ahmed (No. 1578287N now JC-331432P), 25 Aug 2008WW

Hav Shajeev K (No. 15309448M now JC-331433X), 23 Aug 2008WW

Hav Satish Kumar (No. 6390833K now JC-331434A), 25 Aug 2008WW

Hav Bira Bara Pradhan (No. 1584192K now JC-331435H), 04 Sept 2008WW

Hav Islam Khan (No. 1579782Y now JC-331436L), 28 Jun 2008%%

Hav Durga Prasad Tiwari (No. 1572839A now JC-331437N), 29 Aug 2008WW

Hav Mugi Ananda Rao (No. 1384893X now JC-331438W), 28 Aug 2008WW

Hav Patil Rama Krishna Vishram (No. 1580019H now JC-331439Y), 30 Aug 2008WW

Hav Rameshan KP (No. 1485726F now JC-331440N), 29 Aug 2008WW

Hav Subrata Mondal (No. 1486662N now JC-331441W), 30 Aug 2008WW

Hav Mohan Prasad (No. 1578851X now JC-331442Y), 02 Sept 2008WW

Hav Chunni Lal (No. 1482013L now JC-331443F), 29 Aug 2008WW

Hav Mukesh Yadav (No. 1580274P now JC-331444K), 29 Aug 2008WW

Hav Kunwar Singh Kandari (No. 1481590L now JC-331445M), 29 Aug 2008WW

Hav Sanjay Kumar Singh (No. 11483344Y now JC-331446P), 29 Aug 2008WW

Hav Derendra Singh Bhandari (No. 1484012F now JC-331447X), 29 Aug 2008WW

- Hav Lekhraj Singh (No. 1484957L now JC-331448A), 29 Aug 2008WW
- Hav Ashok Kumar (No. 1485340F now JC-331449H), 29 Aug 2008WW
- Hav Tej Kumar (No. 1486220P now JC-331450X), 29 Aug 2008WW
- Hav Deo Kumar Mahto (No. 1483096N now JC-331451A), 03 Sept 2008WW
- Hav Dhanawate Vittal (No. 1581718A now JC-331452H), 09 Jun 2008+
- Hav Rajesh Kumar (No. 1483289N now Jc-331453L), 14 Jul 2008+
- Hav Gawade Laxman Atmaram (No. 1582891W now JC-331454N), 16 Jun 2008+
- Hav Ajay Kumar Singh (No. 1483792L now JC-331455W), 11 Jul 2008+
- Hav Jitendra Singh (No.1484614P now JC-331456Y), 01 Jul 2008+
- Hav Tarak Nath Banarjee (No. 1483269A now JC-331457F) 04 Aug 2008☆☆
- Hav Vijay Singh (No. 1481936K now JC-331458K), 04 Aug 2008☆☆
- Hav Anjil Katoch (No. 1481951Y now JC-331459M), 26 Aug 2008☆☆
- Hav Darshan Singh (No. 1482307Y now JC-331460F), 12 Aug 2008☆☆
- Hav Mohammad Alim (No. 6390516L now JC-331461K), 11 Aug 2008☆☆
- Hav Gopal Sahu (No. 1483192H now JC-331462M), 04 Aug 2008☆☆
- Hav Kailash Singh Bora (No. 1487074M now JC-331463P), 02 Aug 2008☆☆
- Hav Raju Jarali (No. 15311427P now JC-331464X), 04 Aug 2008☆☆
- Hav Khushal Singh Mehta (No. 1481259X Now JC-331465A), 04 Aug 2008☆☆
- Hav Krishna Kumar (No. 15305016A now JC-331466H), 04 Aug 2008☆☆
- Hav Chandan Borman (No. 1482378A now JC-331467L), 04 Aug 2008☆☆
- Hav J Ayyadurai (No. 15307089L now JC-331468N), 11 Aug 2008☆☆
- Hav Radha Krishnan A (No. 15307183P now JC-331469W), 06 Aug 2008☆☆
- Hav ED Nancharaiah (No. 15308100L now JC-331470L), 02 Aug 2008☆☆
- Hav P Bhakthanjane Yulu (No. 15311516N now JC-331471N), 07 Aug 2008☆☆
- Hav Ghag Santosh Gopal (No. 1584525L now JC-331472W), 06 Aug 2008☆☆
- Hav Jagsir Singh (No. 1584951Y now JC-331473Y), 02 Aug 2008¶¶☆☆
- Hav Shyam Singh Bisht (No. 1484324F now JC-331474F), 02 Aug 2008☆☆
- Hav Anil Kumar Singh (No. 15313087W now JC-331475K), 06 Aug 2008☆☆
- Hav Ujjal Kumar Bosu (No. 15308515A now JC-331476M), 30 Apr 2008\$
- Radha Kishan (No. 15308537Y Now JC-331477H), 04 Apr 2008\$\$
- Hav Ram Pravesh Ram (No. 6390595L now JC-331478X), 11 Dec 2008☆
- Hav T Ravi (No. 15302420K now JC-331479A), 12 Apr 2008¶
- Hav Shiv Singh Rawat (No. 1485012N now JC-331480P), 11 Jun 2008%%
- Hav Vijay Singh (No. 1582071K now JC-331481X), 23 Aug 2008WW
- Hav VS Reddy Savanam (No. 15310782A now JC-331482A), 29 Apr 2008WW
- Hav Harish Chandra Joshi (No. 1491963F now JC-331483H), 05 Sept 2008WW
- Hav Sudarshan T (No. 15304110X now JC-331484L), 29 Aug 2008WW
- Hav Gitesh Bahadur Singh (No. 1582845F now JC-331485N), 29 Aug 2008WW
- Hav BT Raj Kumar (No. 1379975P now JC-331486W), 01 Sept 2008WW
- Hav Biju K Philip (No. 15306801H now JC-331487Y), 30 Aug 2008☆☆
- Hav Reji Kumar TS (No. 15312090K now JC-331488F), 08 Sept 2008☆☆
- Hav Prabhakaran MP (No. 15307084M now JC-331489K), 11 Sept 2008☆☆
- Hav Tara Chand (No. 1484070L now JC-331490Y), 13 Jun 2008%%
- Hav Bhom Singh (No. 1583642H now JC-331491F), 24 Jun 2008%%
- Hav Dinesh Kumar (No. 6389845P now JC-331492K), 27 Aug 2008WW

Hav Rajbir Singh (No. 1482056A now JC-331493M),
07 Oct 2008ww

Hav Ram Gopal (No. 1579985H now JC-331494P),
01 Oct 2008ww

Hav Amarjit Singh (No. 1576776A now JC-331495X),
25 Aug 2008ww

Hav Suresh Chand (No. 6390538K now JC-331496A),
16 Sept 2008pq

Hav M Jothi Basu (No. 15310817L now JC-331497H),
20 Sept 2008pq

Hav Raju Ram (No. 1586674X now JC-331498L), 23 Sept
2008pq

Hav Salauddin (No. 1489937F now JC-331499N), 20 Sept
2008pq

Hav Gobinda Chandra Mondal (No. 1492682X now JC-
331500X), 20 Sept 2008pq

Hav Vinod Kumar Rai (No. 1588400L now JC-331501A),
22 Sept 2008pq

Hav Nirpan Singh Kuntal (No. 6931833M now JC-
331502H), 18 Sept 2008pq

Hav Lambodhara Pardia (No. 1584194P now JC-331503L),
22 Sept 2008pq

Hav Satendar Singh (No. 1483031A now JC-331504N),
23 Sept 2008pq

Hav A Athillngam (No. 15309698N now JC-331505W),
19 Sept 2008pq

Hav Devanaand (No. 6933276X now JC-331506Y),
20 Sept 2008pq

Hav Mohammad Intesar (No. 1485914H now JC-331507F),
19 Sept 2008pq

Hav Chandra Beerchand Ramda (No. 1482728F now JC-
331508K), 19 Sept 2008pq

Hav Satbir Singh (No. 1492342P now JC-331509M),
20 Sept 2008pq

Hav S Ravi (No. 15304745W now JC-331510F), 28 Sept
2008ww

Hav S Thanga Mariappan (No. 15309087Y now JC-
331511K), 19 Sept 2008pq

Hav Radhysham Rajput (No. 6390623M now JC-
331512M), 25 Sept 2008pq

Hav Sathe Gopinath Baban (No. 6389970Y now JC-
331513P), 19 Sept 2008pq

Hav Nishikanta Giri (No. 1490439F now JC-331514X),
16 Sept 2008pq

Hav Ranjan Kumar Jena (No. 1492360X now JC-331515A),
16 Sept 2008pq

Hav Manjunath K (No. 15315059H now JC-331516H),
19 Sept 2008pq

Hav Prasad C (No. 15315247K now JC-331517L), 30 Sep
2008pq

Hav Gnanam M (No. 15315249P now JC-331518N),
22 Sep 2008pq

Hav Phadatare Sunil Appaji (No. 15306563F now JC-
331519W), 23 Sep 2008pq

Hav Mohd Farooq (No. 1578314M now JC-331520L),
20 Sep 2008pq

Hav Balraj Singh (No. 1480481M now JC-331521N),
23 Sep 2008pq

Hav Govinda Rajan S (No. 15303101K now JC-331522W),
24 Sep 2008pq

Hav Anand Singh (No. 1481685L now JC-331523Y),
19 Sep 2008pq

Hav Yerupilli Sreenivasa Rao (No. 1384534H now JC-
331524F), 18 Sep 2008pq

Hav Vinod Kumar Pandey (No. 1578609H now JC-
331525K), 19 Sep 2008pq

Hav Pabitra Karmakar (No. 1482681F now JC-331526M),
22 Sep 2008PQ

Hav Rajpal Singh (No. 1482746K now JC-331527P),
19 Sep 2008pq

Hav Gopal Singh (No. 1483136K now JC-331528X),
22 Sep 2008pq

Hav Babu N (No. 15304766M now JC-331529A), 19 Sep
2008pq

Hav Gunjal Sharad Narhari (No. 1577155N now JC-
331530P), 20 Sep 2008pq

Hav Kumaresan P (No. 1584307M now JC-331531X),
19 Sep 2008pq

Hav Dobale Sunile Gopal Rao (No. 1576481K now JC-
331532A), 23 Sep 2008pq

Hav Patil Kailarh Karbhari (No. 1579173P now JC-
331533H), 22 Sep 2008pq

Hav S Maria Selvam (No. 15305051H now JC-331534L),
16 Sep 2008pq

- Hav Ram Murti (No. 1484494F now JC-331535N), 20 Sep 2008pq
- Hav Girdhar Singh (No. 1484063P now JC-331536W), 20 Sep 2008pq
- Hav Sesh Bahadur Singh (No. 1580599H now JC-331537Y), 19 Sep 2008pq
- Hav K Madhusudana Gokul (No. 1376461M now JC-331538F), 16 Sep 2008pq
- Hav Paresh Chandra Satpathy (No. 1482629Y now JC-331539K), 20 Sep 2008ww
- Hav John Vincent F (No. 15305024Y now JC-331540Y), 20 Sep 2008pq
- Hav Ramachandran Nair P (No. 15308287H now JC-331541F), 07 Nov 2008pq
- Hav AP Gopa Kumar (No. 15309972A now JC-331542K), 31 Oct 2008pq
- Hav Gopal Singh (No. 1586166F now JC-331543M), 31 Oct 2008pq
- Hav Pund Narayan Ganpat (No. 1485138N now JC-331544P), 06 Nov 2008pq
- Hav Dalkisan Sitaram (No. 1485149A now JC-331545X), 31 Nov 2008pq
- Hav Ladu Kishor Panigrahi (No. 15311921L now JC-331546A), 01 Nov 2008pq
- Hav Niranjana Kumar Yadav (No. 15311918L now JC-331547H), 31 Oct 2008pq
- Hav Bijoy Bose (No. 1485216A now JC-331548L), 04 Nov 2008pq
- Hav Peddi Reddi Gaya Raju (No. 15312519N now JC-331549N), 05 Nov 2008pq
- Hav M Rajagopalan (No. 15312566L now JC-331550H), 05 Nov 2008pq
- Hav Subhash Kumar (No. 1480905X now JC-331551L), 20 Nov 2008☆
- Hav Vinod Kumar (No. 6390090P now JC-331552N), 22 Nov 2008pq
- Hav Edara Venkateswara (No. 15311079Y now JC-331553W), 02 Dec 2008pq
- Hav Santosh Kumar (No. 15315407Y now JC-331554Y), 25 Nov 2008pq
- Hav Radhey Shyam (No. 15315449L now JC-331555F), 10 Dec 2008pq
- Hav Suresh Kumar (No. 15313743M now JC-331556K), 16 Dec 2008pq
- Hav Phadake Shankar Sattappa (No. 1587885M now JC-331557M), 19 Sep 2008pq
- Hav Ram Lal (No. 1486260W now JC-331558P), 26 Nov 2008pq
- Hav Haridasan AR (No. 15307297A now JC-331559X), 22 Sep 2008pq
- Hav Sanjeev Kumar (No. 1485072H now JC-331560M), 11 Nov 2008pq
- Hav Kartar Singh (No. 6390249P now JC-331561P), 08 Nov 2008pq
- Hav Jadhav Ganesh Prabhakar (No. 1485144F now JC-331562X), 10 Nov 2008pq
- Hav K Muniasamy (No. 15311560X now JC-331563A), 10 Nov 2008pq
- Hav Supriya Dutt (No. 1586519W now JC-331564H), 10 Nov 2008pq
- Hav Nirmal Kumar Mishra (No. 1586654K now JC-331565L), 08 Nov 2008pq
- Hav Md Abdul Aziz Al-Aman (No. 1586688X now JC-331566N), 17 Nov 2008pq
- Hav Suthar Ghanshyam Bhai (No. 1582912F now JC-331567W), 10 Nov 2008pq
- Hav Ram Dhani Singh (No. 1588290F now JC-331568Y), 20 Nov 2008pq
- Hav Lalit Mohan Singh Dobal (No. 1588384Y now JC-331569F), 20 Nov 2008pq
- Hav Vinod Singh Rana (No. 1482473M now JC-331570W), 23 Sep 2008pq
- Hav Surendra Singh (No. 1487819P now JC-331571Y), 03 Nov 2008@@
- Hav Rattan Singh (No. 1492013P now JC-331572F), 03 Nov 2008@@
- Hav Vardinani Krishnaiah (No. 15310786W now JC-331573K), 18 Nov 2008@@
- Hav Mahipal Singh (No. 1490091X now JC-331574M), 17 Nov 2008@@
- Hav Avinash Kumar (No. 1487974W now JC-331575P), 18 Nov 2008@@
- Hav Manoj Kumar Mishra (No. 1488272K now JC-331576X), 18 Nov 2008@@

Hav Dushmantha Kumar Sahu (No. 1488390X now JC-331577A), 18 Nov 2008@@

Hav Manohar Singh (No. 1488787K now JC-331578H), 20 Nov 2008@@

Hav Chandra Mohan Dhasmana (No. 1490095N now JC-331579L), 10 Dec 2008@@

Hav Laxman Singh Chupal (No. 1490676L now JC-331580A), 19 Nov 2008@@

Hav S Don Bosco (No. 15312246W now JC-331581H), 18 Nov 2008@@

Hav Sathyan KN (No. 15308038K now JC-331582L), 24 Nov 2008@@

Hav Salunkhe Sahebrao (No. 1584853Y now JC-331583N), 28 Nov 2008@@

Hav Byju Kuruvilla (No. 15309518A now JC-331584W), 05 Dec 2008@@

Hav M A Bhaskaran (No. 1383899L now JC-331585Y), 24 Nov 2008@@@

Hav Kailash Chandra Chilkoti (No. 1485693F now JC-331586F), 20 Nov 2008@@@

Hav Ajay Kumar Jha (No. 1486301P now JC-331587K), 20 Nov 2008@@@

Hav Shaik Amin Turab (No. 15308800Y now JC-331588M), 27 Nov 2008@@@

Hav Yashvant Singh (No. 15309064X now JC-331589P), 20 Nov 2008@@@

Hav K Mohan (No. 15309091F now JC-331590K), 21 Nov 2008@@@

Hav S Jayachandra (No. 15309094P now JC-331591M), 20 Nov 2008@@@

Hav V Kasi Viswanathan (No. 15309098L now JC-331592P), 21 Nov 2008@@@

Hav V Achyutha Reddy (No. 15309232L now JC-331593X), 24 Nov 2008@@@

Hav Sarangapani K (No. 15309272M now JC-331594A), 20 Nov 2008@@@

Hav Sureshan K V (No. 15309439L now JC-331595H), 17 Nov 2008@@@

Hav Prem Kumar Ray (No. 1486738H now JC-331596L), 25 Nov 2008@@@

Hav R Lakshamanan (No. 15309083H now JC-331597N), 22 Nov 2008@@@

Hav Subhash P C (No. 15309409N now JC-331598W), 01 Dec 2008@@@

Hav V Veeranjanya Reddy (No. 15309553H now JC-331599Y), 24 Nov 2008@@@

Hav Sunil Kumar S (No. 15306046K now JC-331600H), 29 Nov 2008@@@

Hav K Ravi (No. 15309092K now JC-331601L), 26 Nov 2008@@@

Hav Krishnan Pillai AN (No. 15309385P now JC-331602N), 29 Nov 2008@@@

Hav Jimmy Kurian (No. 15309381Y now JC-331603W), 17 Dec 2008@@@

Hav Bagal Vittal Shrirang (No. 1573462N now JC-331604Y), 23 Dec 2008@@@

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Dec 2006, 17 Mar 2007, 30 Jun 2007, 10 Jan 2006, 22 Oct 2007, 03 Feb 2007, 27 Feb 2008, 16 Feb 2008, 27 May 2008, 29 Mar 2008, 10 Jun 2006, 16 Aug 2008, 31 May 2008, 16 Dec 2008, 11 Sep 2008, 13 Sep 2008, and 23 Aug 2008 without effect on pay and allces)

*seniority wef 16 Dec 2006

**seniority wef 17 Mar 2007

***seniority wef 30 Jun 2007

"/"seniority wef 10 Jan 2006

@seniority wef 22 Oct 2007

aa seniority wef 03 Feb 2007

⇒seniority wef 27 Feb 2008

§seniority wef 16 Feb 2007

%%seniority wef 27 May 2008

†seniority wef 29 Mar 2008

///seniority wef 10 Jun 2006

ww seniority wef 16 Aug 2008

☆☆seniority wef 31 May 2008

☆seniority wef 16 Dec 2008

pqseniority 11 Sep 2008

@@seniority wef 13 Sep 2008

@@@seniority wef 23 Aug 2008

Hav Suresh Kumar (No. 1583554N now JC-331605F), 19 Sept 2008A

- Hav Virender Kumar (No. 1484900W now JC-331606K),
31 Oct 2008A
- Hav Pushpa Kumar P (No. 15315351X now JC- 331607M),
03 Dec 2008A
- Hav Chandra Shekher Azad (No. 1588178P now JC-
331608P), 28 Nov 2008A
- Hav More Sandip Motiram (No. 1586359F now JC-
331609X), 12 Dec 2008A
- Hav Hulwan Dhanaji Keru (No. 6389560H now JC-
331610M), 29 Dec 2008A
- Hav Rajesh Singh Negi (No. 1489825F now JC-331611P),
27 Jan 2009B
- Hav Eldon P K (No. 15312564A now JC-331612X), 28 Jan
2009B
- Hav Suresh S (No. 15308875W now JC-331613A), 27 Jan
2009B
- Hav P S Rajesh (No. 15310182X now JC-331614H), 26 Jan
2009B
- Hav Anowar Sadat Khan (No. 1485197A now JC-331615L),
02 Jan 2009A
- Hav Hriday Narayan (No. 1583938H now JC-331616N),
27 Jan 2009B
- Hav Pushkar Singh Kashnyal (No. 1485483F now JC-
331617W), 20 Jan 2009B
- Hav Jagmohan (No. 1586125X now JC-331618Y), 15 Feb
2009C
- Hav Diptendu Panchadhyai (No. 1487057M now JC-
331619F), 27 Nov 2008D
- Hav Shishpal Singh Pokhriyal (No. 148354N now JC-
331620W), 08 Dec 2008D
- Hav Santosh Alex (No. 15307879A now JC-331621Y),
13 Dec 2009E
- Hav Kailash Chandra Sururani (No. 15309063P now JC-
331622K), 17 Jan 2009E
- Hav M Sunil Kumar (No. 15309455H now JC-331623K),
12 Jan 2009E
- Hav Sujith Kumar K R (No. 15309302Y now JC- 331624M),
12 Jan 2009E
- Hav Pratap Chandra Jana (No. 1485864H now JC-
331625P), 20 Jan 2009E
- Hav Sakpal Kumar Vithoba (No. 1583202W now JC-
331626X), 16 Aug 2008F
- Hav Rabendra Singh (No. 1483134Y now JC-331627A),
19 Sept 2008A
- Hav Arun Ranjan Mahapatra (No. 1484995F now JC-
331628H), 24 Jan 2009B
- Hav Sahul Hamced B (No. 15312810A now JC- 331629L),
30 Jan 2009B
- Hav Prashant Shinde (No. 1588368F now JC-331630A),
27 Jan 2009B
- Hav Milan Roy (No. 1588538A now JC-331631H), 28 Jan
2009B
- Hav Rama Kant Tiwari (No. 1583919X now JC-331632L),
26 Jan 2009B
- Hav Nar Singh (No. 6390558X now JC-331633N), 26 Jan
2009B
- Hav Dinesh Kumar Sharma (No. 1583880W now JC-
331634W), 30 Jan 2009B
- Hav Prafulla Kumar Sahoo (No. 1481756F now JC-
331635Y), 17 Jan 2009B
- Hav Anil Kumar M (No. 1581135X now JC-331636X),
26 Jan 2009B
- Hav V Karuppasamy (No. 15309948K now JC-331637K),
27 Jan 2009B
- Hav K Bala Krishnan (No. 15310045Y now JC- 331638M),
29 Jan 2009B
- Hav Rakesh Kumar (No. 6389901H now JC-331639P),
27 Jan 2009B
- Hav Shaji S (No. 15306533K now JC-331640K), 29 Jan
2009B
- Hav Unni Krishnan S (No. 15311554K now JC-331641M),
26 Jan 2009B
- Hav Santha Kumaran S (No. 15306834N now JC-331642P),
07 Feb 2009B
- Hav Brajesh Kumar (No. 1482597F now JC-331643X),
04 Feb 2009B
- Hav Naresh Kumar (No. 1580451K now JC-331644A),
28 Nov 2008A
- Hav Ramte Ke Purshottam Shakkaram (No. 1484817Y now
JC-331645H), 28 Dec 2009B
- Hav Bajage Rangarao Mahipati (No. 1569979F now JC-
331646L), 16 Feb 2009B
- Hav Vijay Kumar (No. 1483856L now JC-331647N), 27 Jan
2009B

Hav Naiknaware Vilas Devaba (No. 1580042W now JC-331648W), 27 Jan 2009B

Hav Swaran Singh (No. 1580577K now JC-331649Y), 19 Feb 2009B

Hav Sahi Pal Singh (No. 1486283X now JC-331650N), 02 Feb 2009B

Hav Padma Nabhan P V (No. 1382475H now JC-331651W), 11 Feb 2009B

Hav Avchat Umesh Pandurang (No. 1580047P now JC-331652Y), 27 Jan 2009B

Hav Balwinder Singh (No. 1485146M now JC-331653F), 28 Jan 2009B

Hav Parimal Mondal (No. 1485175F now JC-331654K), 28 Jan 2009B

Hav Satvinder Singh (No. 1485777P now JC-331655M), 28 Jan 2009B

Hav Ashish Kumar Dutta (No. 1485170H now JC-331656P), 11 Feb 2009B

Hav Hem Chandra Khantwal (No. 1484498X now JC-331657X), 16 Feb 2009B

Hav Ajmar Ali (No. 1579069F now JC-331658A), 15 Dec 2008E

Hav Annagouda Patil (No. 15306088W now JC-331659H), 23 Aug 2008E

Hav K Jaya Shankar (No. 15311022K now JC-331660X), 04 Aug 2008F

Hav Ram Singh Yadav (No. 6390107X now JC-331661A), 26 Jan 2009B

Hav Sharad Chandra Pandey (No. 1582072M now JC-331662H), 09 Feb 2009B

Hav Pradyumna Kumar (No. 1481379W now JC-331663L), 18 Mar 2009B

Hav Vasudeven S (No. 15310043N now JC-331664N), 22 Sept 2008A

Hav Joseph P D (No. 15309575F now JC-331665W), 18 May 2009G

Hav Kochale Sopan Narayan (No. 15310006A now JC-331666Y), 18 May 2009G

Hav A Ramanathan (No. 15310223W now JC-331667F), 22 May 2009G

Hav Yogesh Kumar (No. 1484702L now JC-331668K), 20 May 2009G

Hav Jagdish Kumar Patel (No. 6389768L now JC-331669M), 16 May 2009G

Hav Nethaji S (No. 15310979W now JC-331670F), 16 May 2009G

Hav Murleedharan T N (No. 15311188L now JC-331671K), 21 May 2009G

Hav Vijay Shankar Shukla (No. 15314539A now JC-331672M), 25 May 2009G

Hav Manoj Kumar (No. 1586261N now JC-331673P), 16 May 2009G

Hav Hande Nanasaheb Nivrutti (No. 6390286H now JC-331674X), 16 May 2009G

Hav Patne Sanjay Mahadeo (No. 1586398A now JC-331675A), 20 May 2009G

Hav Vajrapu Srinivasa Rao (No. 15312835M now JC-331676H), 18 May 2009G

Hav Jawahar Lal Mandal (No. 6389642L now JC-331677L), 14 May 2009G

Hav Manoj Kumar (No. 1588367Y now JC-331678N), 15 May 2009G

Hav Kuldeep Kumar (No. 1483016L now JC-331679W), 15 May 2009G

Hav Ajit Kumar Singh (No. 15315198M now JC-331680L), 19 May 2009G

Hav Raj Kumar (No. 1485344X now JC-331681N), 14 May 2009G

Hav Nek Mohammad (No. 6933463W now JC-331682W), 15 May 2009G

Hav S Prabha Karan (No. 15310826M now JC-331683Y), 16 May 2009G

Hav Dileep Kumar (No. 1584429 W now JC-331684F), 01 Jun 2009G

Hav Birendra Kumar Nayak (No. 15304693L now JC-331685K), 05 Jun 2009G

Hav Anil Kumar B (No. 15304295K now JC-331686M), 14 May 2009G

Hav S Sakra Varthi (No. 1583356H now JC-331687P), 16 May 2009G

Hav Raj Kumar Prasad (No. 1482166 P now JC-331688X), 30 May 2009G

Hav S Senthil Kumar (No. 15310046F now JC-331689A), 18 May 2009G

- Hav Dilip Kumar Rajhans (No. 1585812F now JC-331690P), 18 May 2009G
- Hav Rajesh Kumar Dogra (No. 1588051M now JC-331691X), 05 Jun 2009G
- Hav Manoj Kumar (No. 1586500X now JC-331692A), 19 May 2009G
- Hav Manjit Singh (No. 1577577Y now JC-331693H), 19 Jun 2009G
- Hav Vipin Kumar (No. 1588382N now JC-331694L), 20 May 2009G
- Hav Mukesh Kumar (No. 6933538H now JC-331695N), 10 Jun 2009G
- Hav S Saravanan (No. 15313660F now JC-331696W), 08 Jun 2009H
- Hav Karambir Singh Dalal (No. 1584302N now JC-331697Y), 06 Jun 2009H
- Hav Manoj Kumar Tiwari (No. 1485652X now JC-331698F), 06 Jun 2009H
- Hav Indore Suresh Sitaram (No. 6390295K now JC-331699K), 06 Jun 2009H
- Hav Karamjit Singh (No. 1485141N now JC-331700N), 05 Jun 2009H
- Hav K V Vinod Kumar (No. 15306972P now JC-331701W), 08 Jun 2009H
- Hav Binaya Kumar Pani (No. 1482896A now JC-331702Y), 80 Jun 2009H
- Hav Shyam Behari (No. 1485973P now JC-331703F), 10 Nov 2008**
- Hav Kumar K (No. 15310040A now JC-331704K), 20 May 2009G
- Hav Chavan Ashok Sominath (No. 1489497Y now JC-331705M), 27 May 2009G
- Hav Lakshman Ram Saran (No. 6389720X now JC-331706P), 22 May 2009G
- Hav Gopa Kumar G (No. 15314359X now JC-331707X), 25 May 2009G
- Hav Kamla Kant Roy (No. 15314992X now JC-331708A), 18 May 2009G
- Hav A G Purushothaman (No. 1586306H now JC-331709H), 18 May 2009G
- Hav Balabhadra Panda (No. 1586446P now JC-331710X), 25 May 2009G
- Hav Prabha Karan K P (No. 15312101L now JC-331711A), 25 May 2009G
- Hav Pitamber Panda (No. 1490434H now JC-331712H), 01 Jun 2009G
- Hav Vinod Kumar C (No. 1582952H now JC-331713L), 18 May 2009G
- Hav Laxman Singh (No. 1485281A now JC-331714N), 18 May 2009G
- Hav Tapan Kumar Sarkar (No. 1583896F now JC-331715W), 18 May 2009
- Hav Lalita Prasad Oli (No. 6933453M now JC-331716Y), 02 Jun 2009G
- Hav Bondage Satappa Balu (No. 1585019M now JC-331717F), 19 May 2009
- Hav Jasbir Singh (No. 1584895L now JC-331718K), 19 May 2009
- Hav Baleshwar Kumar Verma (No. 1485912X now JC-331719M), 18 May 2009
- Hav Rajendra Prasad (No. 1485919F now JC-331720F), 19 May 2009G
- Hav Pramod Kumar (No. 1486211N now JC-331721K), 19 May 2009G
- Hav Gaikwad Shahaji Pandurang (No. 1583883K now JC-331722M), 22 May 2009G
- Hav Gorla Venkata Ramana (No. 15303934N now JC-331723P), 16 May 2009G
- Hav Ravi Chandran S (No. 15305947K now JC-331724X), 18 May 2009G
- Hav Kuldeep Singh (No. 1485062Y now JC-331725A), 06 Jun 2009H
- Hav Rajmani Singh (No. 1485710W now JC-331726H), 06 Jun 2009H
- Hav Inder Singh (No. 1486326F now JC-331727L), 08 Jun 2009H
- Hav Hugar Yallappa (No. 15310887K now JC-331728N), 06 Jun 2009H
- Hav R Kumara Guruparan (No. 15304853A now JC-331729W), 11 Jun 2009H
- Hav Hasan Mohmad (No. 1585854N now JC-331730L), 16 May 2009J
- Hav Ragulwar Ravindra Narayan (No. 1492217L now JC-331731N), 16 May 2009J

Hav Paidayya Kuppanadi (No. 15315466L now JC-331732W), 20 May 2009J

Hav Pushpender Singh (No. 15312825H now JC-331733Y), 18 May 2009J

Hav Abhay Kumar Anand (No. 1485560L now JC-331734F), 28 May 2009J

Hav Satya Prasad (No. 1482721X now JC-331735K), 15 May 2009J

Hav Harish Kumar S (No. 15310922F now JC-331736M), 18 May 2009J

Hav S Kuppusamy (No. 1487242A now JC-331737P), 16 May 2009J

Hav Trilok Chandra Pandey (No. 1488435M now JC-331738X), 30 May 2009J

Hav Raju R (No. 15306035X now JC-331739A), 19 May 2009K

Hav Santosh Kumar KM (No. 15309174M now JC-331740P), 01 Jun 2009K

Hav Daison KV (No. 15309248W now JC-331741X), 18 May 2009K

Hav Shaji S (No. 15309384M now JC-331742A), 21 May 2009K

Hav Naresh Kumar Sharma (No. 6934510P now JC-331743H), 19 Jun 2009G

Hav Nagendra Kumar Lakshmana (No. 15312520H now JC-331744L), 10 Jun 2009G

Hav Salunkhe Subhash Rajaram (No. 1583691M now JC-331745N), 15 Jun 2009G

Hav Gopal Chandra Pal (No. 1483246X now JC-331746W), 13 Jun 2009H

Hav Sukanta Kumar Satpathy (No. 1485182X now JC-331747Y), 06 Jun 2009H

Hav Ram Chandra P M (No. 1583271M now JC-331748F), 11 Jun 2009H

Hav L Lourdhu Francis (No. 15310729P now JC-331749K), 20 Jun 2009H

Hav Beer Pal (No. 6933237Y now JC-331750Y), 25 Jun 2009L

Hav Purohit Vinodray Ramniklal (No. 6390024M now JC-331751F), 30 Jun 2009L

Hav Kulveer Singh Tomar (No. 1587960L now JC-331752K), 26 Jun 2009L

Hav Vinod Kumar Rathore (No. 1484945W now JC-331753M), 26 Jun 2009L

Hav S Siva Subramanian (No. 15311407F now JC-331754P) 27 Jun 2009L

Hav Dharmendra Kumar Tiwari (No. 1485638L now JC-331755X) 26 Jun 2009L

Hav Pramod Kumar (No. 1485353Y now JC-331756A), 25 Jun 2009L

Hav Halsiddappa K Savasuddi (No. 15306102X now JC-331757H), 25 Jun 2009L

Hav Rohtas Kumar (No. 1584328H now JC-331758L), 26 Jun 2009L

Hav Madan Pal Singh (No. 1582480X now JC-331759N), 25 Jun 2009L

Hav A Francis Nirmal (No. 15309965K now JC-331760H), 30 Jun 2009L

Hav N Babu (No. 1585704X now JC-331761L), 18 May 2009M

Hav Sher Khan (No. 1578174L now JC-331762N), 20 May 2009G

Hav Ram Kumar (No. 1572940A now JC-331763W), 19 May 2009G

Hav Satyendra Singh Rawat (No. 1484527F now JC-331764Y), 09 Jun 2009G

Hav Balachandran M P (No. 6390181Y now JC-331765F), 08 Jun 2009H

Hav Saik Karimulla (No. 15306054H now JC-331766K), 16 Jun 2009H

Hav Bimal Kumar Tiwari (No. 1585269N now JC-331767M), 15 Jun 2009H

Hav Bishamber Dayal (No. 1585924F now JC-331768P), 12 Jun 2009H

Hav Annepu Krishana Pal (No. 1485667A now JC-331769X), 09 Jun 2009H

Hav Chandra Manickam D (No. 1382803L now JC-331770M), 09 Jun 2009H

Hav Shri Bhagwan (No. 1485338K now JC-331771P), 09 Jun 2009H

Hav Daljit Singh (No. 1586569F now JC-331772X), 26 Jun 2009L

Hav Ram Dular (No. 1588302L now JC-331773A), 26 Jun 2009L

Hav Mahesh Chand (No. 1578315P now JC-331774H),
25 Jun 2009L

Hav Dinesh Kumar R J (No. 15304723X now JC-331775L),
26 Jun 2009L

Hav Rajeev Nautiyal (No. 1485031Y now JC-331776N),
29 Jun 2009L

Hav Vidu Kumar M (No. 15305084N now JC-331777W),
30 Jun 2009L

Hav M Vallinayagam (No. 15311701F now JC-331778Y),
26 Jun 2009L

Hav Savant Arvnkumar Vasant (No. 1579539F now JC-
331779F) 29 Jun 2009L

Hav Patil Shivaji Yashwant (No. 1581282A now JC-
331780W), 23 Jun 2009L

Hav Neeraj Kumar (No. 1490425F now JC-331781Y),
19 Jun 2009L

Hav Mahendra Prasad Yadav (No. 1585630N now JC-
331782F), 05 Jun 2009J

Hav Prem Chand (No. 1484994Y now JC-331783K),
15 May 2009K

Hav Sabumone V M (No. 15309377W now JC-331784M),
15 Jun 2009K

Hav Sathyanandan G (No. 15308286A now JC-331785P),
17 Jun 2009K

Hav Guatam Kumar Layak (No. 15311922N now JC-
331786X), 25 Jun 2009G

Hav Probin Kumar Nath (No. 1585645W now JC-331787A),
22 Jun 2009G

Hav Rattan Singh (No. 1484983M now JC-331788H),
08 Jun 2009H

Hav Abdul Sobur Mandal (No. 1586050L now JC-
331789L), 24 Jul 2009H

Hav Raghvendra Singh (No. 6931512P now JC-331790A),
06 Jul 2009L

Hav Dharmander Kumar Ojha (No. 1583920M now JC-
331791H), 25 Jun 2009L

Hav Harish Chandra Singh Chauhan (No. 15313983K now
JC-331792L), 01 Jul 2009L

Hav Gopal Lal Jat (No. 1586143A now JC-331793N),
29 Jun 2009L

Hav Niranjan Bhatt (No. 15315530X now JC-331794W),
24 Jun 2009L

Hav Praveen Kumar (No. 15311924Y now JC-331795Y),
16 Jul 2009L

Hav Handibag Bhaira Gowardhan (No. 1586553W now
JC-331796F), 26 Jun 2009L

Hav Sunder Singh (No. 1588386K now JC-331797K),
29 Jun 2009L

Hav Ashok Kumar Ojha (No. 1586651W now JC-
331798M), 24 Jun 2009L

Hav Zahir Hasan (No. 1489309M now JC-331799P),
24 Jun 2009L

Hav Karun Kumar (No. 1579775H now JC-331800Y),
25 Jun 2009L

Hav Bhat Ananda Bramhadev (No. 15306615M now JC-
331801F), 06 Jul 2009L

Hav Kaniki Setti Mehar Prasad (No. 1582714W now JC-
331802K), 29 Jun 2009L

Hav Amit Tiwari (No. 1483175H now JC-331803M), 03 Jul
2009L

Hav S Sivathanu Pillai (No. 15304469Y now JC-331804P),
03 Jul 2009L

Hav Kailash Singh (No. 1485097P now JC-331805X),
07 Jul 2009L

Hav Shobha Singh Yadav (No. 15311577L now JC-
331806A), 01 Jul 2009L

Hav Alokesh Narayan Barua (No. 1587641Y now JC-
331807H), 15 Jun 2009G

Hav Arjuna Samal (No. 1485003M now JC-331808L),
18 May 2009G

Hav Azad Singh (No. 1486126L now JC-331809N), 29 Jun
2009H

Hav Jagtar Singh (No. 1567703M now JC-331810H),
22 Jun 2009L

Hav Pravin Kumar Jha (No. 1490879P now JC-331811L),
25 Jun 2009L

Hav Vinod Kumar (No. 15312646H now JC-331812N),
04 Jul 2009L

Hav Nrusingha Prasad Padhy (No. 1483189H now JC-
331813W), 07 Jul 2009L

Hav Karamjit Singh (No. 1579171K now JC-331814Y),
25 Jun 2009L

Hav Ganesan P (No. 15304929P now JC-331815F), 08 Jul
2009L

Hav Brahm Prakash Yadav (No. 1484992N now JC-
331816K), 30 Jun 2009L

Hav Chandra Bhan Chauhan (No. 1489365L now JC-
331817M), 26 Jun 2009L

Hav Om Prakash Upadhyay (No. 1485929L now JC-331818P), 29 Jun 2009L

Hav Murugesan G (No. 15305378F now JC-331819X), 26 Jun 2009L

Hav Satheesan S (No. 15307191W now JC-331820M) 02 Jul 2009L

Hav Manas Kumar Mondal (No. 1489621P now JC-331821P), 01 Jul 2009L

Hav N Subram Anyam (No. 15305186K now JC-331822X), 29 Jun 2009L

Hav Wandhekar Ashok Banshi (No. 1580246H now JC-331823A), 30 Jun 2009L

Hav Ashok Kumar (No. 1490271A, now JC-331824H), 07 Jul 2009L

Hav Rajvir Singh (No. 1490296M now JC-331825L), 26 Jun 2009L

Hav T R Ram Das (No. 1586977M now JC-331826N), 01 Jul 2009L

Hav M Krishna Kumar (No. 15304021Y now JC-331827W), 30 Jun 2009L

Hav M Rama Krishnan (No. 15307809F now JC-331828Y), 09 Jul 2009L

Hav P M Kumar (No. 15312114H now JC-331829F), 09 Jul 2009L

Hav R Partha Sarathy (No. 1585619P now JC-331830W), 13 Jul 2009L

Hav Kshirsagar Sanjay Vasant (No. 1585400A, now JC-331831Y), 09 Jul 2009N

Hav Chalke Pradip Bandu (No. 1580645M now JC-331832F), 07 Jul 2009N

Hav Chandra Mani Sethi (No. 1584215A now JC-331833K), 26 Jun 2009L

Hav Randhir Kumar Singh (No. 1492300H now JC-331834M), 25 Jun 2009L

Hav Rajesh Prasad Singh (No. 1586888N now JC-331835P), 26 Jun 2009L

Hav Ajay Singh Jat (No. 15312830N now JC-331836X), 07 Aug 2009L

Hav P Baskar (No. 15310162K now JC-331837A), 28 Jul 2009L

Hav N Murugan (No. 15310411X now JC-331838H), 29 Jun 2009L

Hav Bharat Singh Yadav (No. 1486151K now JC-331839L), 11 Sept 2009L

Hav Sajeev K S (No. 1588124N now JC-331840A), 25 Sept 2009P

Hav Srikant Goswami (No. 7240520Y now JC-331841H), 01 Oct 2009P

Hav Ram Naresh (No. 1489449Y now JC-331842L), 30 Sept 2009P

Hav Kotakinda Reddappa (No. 1485316L now JC-331843N), 19 Sept 2009P

Hav Rajesh Kumar (No. 1485335W now JC-331844W), 30 Sept 2009P

Hav Suresh Mahto (No. 15311989M now JC-331845Y), 30 Sept 2009P

Hav Mylsamy M (No. 15312787M now JC-331846F), 30 Sept 2009P

Hav Sat Narayan (No. 1491911L, now JC-331847K), 30 Sept 2009P

Hav Debendra Kumar Aich (No. 1586722M now JC-331848M), 05 Oct 2009p

Hav Anil Kumar Sihan (No. 15313727P now JC-331849P), 30 Sept 2009P

Hav Bhakta Bandhu Sahu (No. 1586438W now JC-331850K), 29 Sept 2009P

Hav Surendra Singh Bisht (No. 1486884H now JC-331851M), 29 Sept 2009G

Hav Manbir Singh (No. 1585944P now JC-331852P), 11 Jul 2009H

Hav Virendra Kumar (No. 1489127Y now JC-331853X), 11 Aug 2009H

Hav Srikant Pandey (No. 1487836P now JC-331854A), 01 Sept 2009H

Hav Mohammad Shahid (No. 1487859W now JC-331855H), 30 Jul 2009H

Hav Mosin Ahamad (No. 1488120H now JC-331856L), 20 Jul 2009H

Hav Ravindra Kumar Singh (No. 1481815H now JC-331857N), 30 Jul 2009H

Hav Pawar Sambhaji Narayan (No. 1584005A, now JC-331858W), 12 Aug 2009L

Hav Puran Singh Khanka (No. 1484014M now JC-331859Y), 27 Jun 2009Q

Hav Chukka Surya Narayana (No. 15305259L now JC-331860N), 30 Jun 2009L

Hav Anil Kumar (No. 15312719K now JC-331861W), 04 Sept 2009J

- Hav Raju (No. 1583261H now JC-331862Y), 13 Oct 2009R
- Hav Ramesh L (No. 1486191L now JC-331863F), 21 Feb 2009E
- Hav Shambhu Kant Sharma (No. 1486188L now JC-331864K), 17 Jul 2009K
- Hav A Baijumon (No. 15308888N now JC-331865M), 31 Jul 2009K
- Hav Devanand A (No. 15309252Y now JC-331866P), 21 May 2009K
- Hav Saji T J (No. 15309380W now JC-331867X), 24 Sept 2009K
- Hav Bhagwati Prasad Kukreti (No. 1482480H now JC-331868A), 16 May 2009H
- Hav Sanjay Kumar (No. 15312489F now JC-331869H), 17 Sept 2009L
- Hav K S Santosh (No. 15310293P now JC-331870X), 07 Oct 2009P
- Hav Golam Mostufa (No. 1586521N now JC-331871A), 20 Oct 2009B
- Hav Theerthagiri G P (No. 15309966M now JC-331872H), 19 Oct 2009B
- Hav Chuna Ram Choudhary (No. 1586890L now JC-331873L), 19 Oct 2009B
- Hav Safaat Assari (No. 1586696W now JC-331874N), 20 Oct 2009L
- Hav Ramakant Yadav (No. 1587058K now JC-331875W), 29 Oct 2009L
- Hav Hemendra Kumar (No. 15313440X now JC-331876Y), 23 Oct 2009L
- Hav Bhople Kiran Onkar (No. 1587249Y now JC-331877F), 19 Oct 2009L
- Hav Ashok Kumar M (No. 15309482M now JC-331878K), 30 Sept 2009P
- Hav Salanke Arjun Ratan Rao (No. 1584986P now JC-331879M), 29 Sept 2009P
- Hav Naveenan P K (No. 15308674X now JC-331880F), 30 Sept 2009P
- Hav Harvinder Singh (No. 1485614F now JC-331881K), 20 Oct 2009P
- Hav Terani Irappa Rudrappa (No. 1583499H now JC-331882M)01 Oct 2009P
- Hav Uttam Singh Jadon (No. 1488402F now JC-331883P), 30 Sept 2009P
- Hav Rupesh Kumar Singh (No. 1489336W now JC-331884X)21 Oct 2009P
- Hav Sanjeev Kumar Jangir (No. 1587903K now JC-331885A), 24 Aug 2009J
- Hav Kuldip Singh (No. 1489400H now JC-331886H), 26 Oct 2009J
- Hav Sulphy V K (No. 1586154M now JC-331887L), 23 Oct 2009J
- Hav Vinod Kadam (No. 1586925W now JC-331888N), 30 Oct 2009J
- Hav Satyendra Singh Malik (No. 1587040N now JC-331889W), 31 Oct 2009S
- Hav Ram Kumar (No. 1587415F now JC-331890L), 31 Oct 2009S
- Hav Uday Shankar Singh (No. 1489152X now JC-331891N), 31 Oct 2009S
- Hav Shinde Shrikant Mahadev (No. 1585093N now JC-331892W), 03 Nov 2009S
- Hav Somenath Mallik (No. 1492614K now JC-331893Y), 03 Nov 2009S
- Hav Ranjit Kumar (No. 15316806P now JC-331894F), 31 Oct 2009S
- Hav Ravindra Singh (No. 15305725P now JC-331895K), 29 Oct 2009J
- Hav Manoj Kumar (No. 15311170P now JC-331896M), 24 Jun 2009L
- Hav Chander Bhan (No. 6389940F now JC-331897P), 07 Nov 2009P
- Hav Ramesan P (No. 15313142F now JC-331898X), 03 Nov 2009B
- Hav Sethu Kumar T K (No. 15313173F now JC-331899A), 07 Nov 2009L
- Hav Bhavar Janardhan Sarjerao (No. 1586944F now JC-331900K), 03 Nov 2009L
- Hav Manoj Kumar (No. 15312524Y now JC-331901M), 16 Nov 2009L
- Hav Gayke Bharat Arjun Rao (No. 6390051W now JC-331902P), 25 Nov 2009P
- Hav Arvind Singh Chauhan (No. 1587814L now JC-331903X), 09 Jun 2009G
- Hav Raghvesh Kumar Mishra (No. 1580315N now JC-331904A), 07 Aug 2009L
- Hav Parminder Singh (No. 1584089Y now JC-331905H), 24 Jun 2009L
- Hav A Venugopal (No. 15308773A now JC-331906L), 05 Oct 2009P

Hav Swadesh Singh Yadav (No. 1586827W now JC-331907N), 14 Nov 2009A

Hav Narendra Kumar Nayak (No. 1489193F now JC-331908W), 12 Nov 2009G

Hav Suresh Kumar Yadav (No. 1586121F now JC-331909Y), 17 Nov 2009G

Hav Deepak Kumar Mohanty (No. 1586907N now JC-331910N), 17 Nov 2009G

Hav Tentu Srinivasa Rao (No. 1492879N now JC-331911W), 16 Nov 2009G

Hav Jagdeep Sodhi (No. 1492798N now JC-331912Y), 17 Nov 2009H

Hav Jitendra Singh (No. 1587042Y now JC-331913F), 16 Nov 2009L

Hav Ashwini Kumar (No. 1587286M now JC-331914K), 16 Nov 2009L

Hav Mohana Kumar K B (No. 15307618M now JC-331915M), 16 Nov 2009U

Hav Ashok Kumar Baitha (No. 15313151H now JC-331916P), 26 Nov 2009G

Hav Sudhakar Gandam (No. 15313310P now JC-331917X), 27 Nov 2009G

Hav Vaware Shri Ram Narayan (No. 1577624L now JC-331918A), 31 Oct 2009S

Hav Ram Singh Negi (No. 1486834X now JC-331919H), 04 Nov 2009S

Hav Pradeep T M (No. 15312473W now JC-331920X), 04 Nov 2009S

Hav Ravindra Kumar (No. 1580905M now JC-331921A), 30 Nov 2009S

Hav Suryavanshi Vikas Pratap Rao (No. 1581550Y now JC-331922H), 01 Nov 2009S

Hav Pramod Kumar Pandey (No. 1486732F now JC-331923L), 30 Oct 2009S

Hav Jadhav Santosh Subhash (No. 1584635A now JC-331924N), 14 Nov 2009S

Hav Ajay Singh Negi (No. 1587059M now JC-331925W), 19 Nov 2009N

Hav Sudhir Kumar (No. 1486875F now JC-331926Y), 18 Nov 2009S

Hav Himmata Ram (No. 15315225L now JC-331927F), 19 Nov 2009S

Hav Shaikh Hanip Yusuf (No. 15314296A now JC-331928K), 27 Jun 2009L

Hav Chandra Ram Gujar (No. 1588604X now JC-331929M), 25 Jun 2009L

Hav Dashrath Singh (No. 1485699H now JC-331930F), 25 Jun 2009L

Hav Ramesh Chander (No. 1587117L now JC-331931K), 23 Nov 2009L

Hav Sudarshan Vishwa Karma (No. 1488682A now JC-331932M), 31 Oct 2009S

Hav Khade Vinayak Prabhakar (No. 1583819M now JC-331933P), 06 Jan 2010V

Hav Ranveer Singh (No. 15312833F now JC-331934X), 06 Jan 2010V

Hav Mukesh Kumar (No. 1587041W now JC-331935A), 05 Jan 2010V

Hav Reddi Satyanarayan (No. 15311509X now JC-331936H), 09 Jan 2010V

Hav Narendra Singh (No. 1483055K now JC-331937L), 11 Jan 2010V

Hav Prasenjit Singha (No. 1490878M now JC-331938N), 06 Jan 2010V

Hav Bhupender Pratap Singh (No. 1491865F now JC-331939W), 06 Jan 2010V

Hav Saranga Dhar Behera (No. 15314310F now JC-331940L), 06 Jan 2010V

Hav Attikeri Subhsah Dundappa (No. 1486173H now JC-331941N), 06 Jan 2010V

Hav Sanjay Kumar Wagadre (No. 1486194Y now JC-331942W), 06 Jan 2010V

Hav Sher Singh Rathore (No. 1489524X now JC-331943Y), 08 Jan 2010V

Hav Amit Kumar (No. 1491837P now JC-331944F), 06 Jan 2010V

Hav Sanjay Dhanik (No. 1491985A now JC-331945K), 04 Jan 2010V

Hav Sunith S (No. 15312939H now JC-331946M), 11 Jan 2010V

Hav Karan Singh (No. 15313731X now JC-331947P), 04 Jan 2010V

Hav Saragada Srivasa Reddy (No. 15315733F now JC-331948X), 08 Jan 2010V

Hav P Kumaravel (No. 1587479M now JC-331949A), 05 Jan 2010V

Hav Sanjay Kumar (No. 1487223P now JC-331950P), 05 Jan 2010V

Hav Amaresh Kumar Pal (No. 15315391Y now JC-331951X), 15 Jan 2010V

Hav Pawar Pravin Narayan (No. 1586274L now JC-331952A), 06 Jan 2010V

- Hav Sisir Mondal (No. 1479249P now JC-331953H),
05 Jan 2010V
- Hav Veera Kumar M (No. 15304910W now JC-331954L),
06 Jan 2010V
- Hav Noushad V M (No. 15309219F now JC-331955N),
08 Jan 2010V
- Hav Ram Lakhan (No. 1578543X now JC-331956W),
05 Jan 2010V
- Hav Thennarasu K (No. 15306514Y now JC-331957Y),
29 Jan 2010V
- Hav Ashok Kadam (No. 1581858M now JC- 331958F),
18 Jan 2010V
- Hav Sushil Kumar Katara (No. 1489724N now JC- 331959K),
06 Jan 2010V
- Hav Gour Maity (No. 1490438Y now JC-331960Y), 06 Jan 2010V
- Hav Rajesh Kumar Singh (No. 1586922H now JC- 331961F),
06 Jan 2010V
- Hav Bharat Singh (No. 1487222M now JC-331962K), 06 Jan
2010V
- Hav Fayzul Islam (No. 1492195X now JC-331963M), 16 Jan
2010V
- Hav Anil Singh Rawat (No. 1484040N now JC- 331964P),
06 Jan 2010V
- Hav Deepak Nautiyal (No. 1484874A now JC-331965X),
06 Jan 2010V
- Hav Subburaj K (No. 15308134Y now JC-331966A), 09 Jan
2010V
- Hav Harshpal Singh Rawat (No. 1490248M now JC-
331967H), 06 Jan 2010V
- Hav Bijaya Kumar Shasani (No. 1491732L now JC- 331968L),
06 Jan 2010V
- Hav Puran Singh (No. 1485789K now JC-331969N),
06 Jan 2010V
- Hav Wakil Singh Yadava (No. 1486647Y now JC- 331970H),
07 Jan 2010V
- Hav Borse Gangadhar Ramdas (No. 1585005M now JC-
331971L), 19 Jan 2010V
- Hav Suresh Chand (No. 1492436M now JC- 331972N),
06 Jan 2010V
- Hav Lalam Swami Naidu (No. 15308206X now JC-
331973W), 05 Jan 2010V
- Hav Thajudden M (No. 15306700P now JC- 331974Y),
30 Jan 2010V
- Hav Ganesha Adiga (No. 15307974M now JC-331975F),
08 Feb 2010V
- Hav Bishan Singh Rawat (No. 1490191H now JC-331976K),
04 Feb 2010V
- Hav E Krishnaprasad (No. 15311914P now JC-331977M),
23 Jan 2010W
- Hav Satya Prakash Rai (No. 1581107L now JC-331978P),
23 Jan 2010W
- Hav Vijay Kumar (No. 15309647A now JC-331979X), 22 Jan
2010W
- Hav Srinivasa Babu V (No. 5312942N now JC-331980M),
22 Jan 2010W
- Hav Dinesh Singh Chuphal (No. 1490971N now JC-
331981P), 04 Feb 2010W
- Hav Ved Pal Singh (No. 1488769F now JC-331982X), 22 Jan
2010W
- Hav Prabhakar Ithape (No. 1581383N now JC-331983A),
23 Jan 2010W
- Hav Abdul Mabub Khan (No. 1582780Y now JC-331984H),
22 Jan 2010W
- Hav Deore Raviraj Hilal (No. 1584560N now JC-331985L),
23 Jan 2010W
- Hav Rajendra Prasad (No. 1585062N now JC-331986N),
20 Jan 2010W
- Hav Gaikwad Tanaji Dharma (No. 1585110H now JC-
331987W), 19 Jan 2010W
- Hav Deepa Ram Godara (No. 1489566K now JC-331988Y),
25 Jan 2010W
- Hav Jagjeet Singh (No. 1586227N now JC-331989F), 19 Jan
2010W
- Hav Lakshmi Narayana Palla (No. 1588513N now JC-
331990W), 29 Jan 2010W
- Hav Jadhav Balu Ekanath (No. 15315300K now JC-331991Y),
01 Feb 2010W
- Hav Shyam Sunder Singh (No. 15316473N now JC-
331992F), 31 Jan 2010W
- Hav Jasabant Singh (No. 1491796W now JC-331993K),
29 Jan 2010W
- Hav Rakesh Kumar Thuwal (No. 1493221A now JC-
331994M), 28 Jan 2010W
- Hav Madan Kumar Sharma (No. 6390221A now JC-
331995P), 02 Feb 2010W
- Hav Shastrakar Rajesh Pandurang (No. 1587243X now JC-
331996X), 23 Feb 2010L

Hav Deepak Vishanath Patil (No. 1586381M now JC-331997A),
16 Feb 2010X

Hav More Dilip Haibati (No. 1583641F now JC-331998H),
19 Feb 2010X

Hav Ram Prakash (No. 1580103H now JC-331999L), 14 Jan
2010Y

Hav Ganesh Chandra Garai (No. 1483789L now JC-
332000M), 16 Jan 2010V

Hav Ram Pal (No. 1589247M now JC-332001P), 07 Jan 2010V

Hav Dharmendra Singh (No. 1587743P now JC-332002X),
11 Feb 2010V

Hav Atam Singh (No. 1487912W now JC-332003A), 02 Mar
2010V

Hav Santosh Kumar R (No. 15313790K now JC-332004H),
20 Feb 2010V

Hav Mohd Ibarar (No. 1584683A now JC-332005L), 06 Jan
2010V

Hav T Girish Kumar (No. 15311579W now JC-332006N),
20 Feb 2010W

Hav Dhanjai B (No. 15308078L now JC-332007W), 03 Mar
2010W

Hav Sudheer Kumar TG (No. 15311748M now JC-332008Y),
22 Jan 2010W

Hav Sanjay Kumar (No. 1490150Y now JC-332009F), 25 Jan
2010W

Hav Gubbala Srinivasa Rao (No. 15307805L now JC-
332010W), 22 Jan 2010W

Hav Satya Narayan Singh (No. 1486924Y now JC-332011Y),
20 Jan 2010W

Hav Narendra Kumar Sharma (No. 1586994M now JC-
332012F), 25 Feb 2010W

Hav Basir Mohmand (No. 1584999M now JC-332013K),
30 Jan 2010W

Hav Jagga Rao Surada (No. 1587313L now JC-332014M),
29 Jan 2010W

Hav Nand Kishore (No. 1492680M now JC-332015P), 28 Jan
2010W

Hav Hukam Chand (No. 1584864L now JC-332016X), 28 Jan
2010W

Hav Pravesh Kumar (No. 1487182W now JC-332017A),
08 Mar 2010W

Hav Dinesh Kumar Giri (No. 1586697Y now JC-332018H),
12 Feb 2010W

Hav Brij Bihari Lal (No. 1485933N now JC-332019L), 26 Feb
2010W

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Feb 2008,
31 May 2008, 12 Jul 2008, 23 Aug 2008, 11 Sep 2009, 13 Sep
2008, 09 Jan 2009, 01 Feb 2009, 14 Mar 2009, 25 Apr 2009, 08
May 2009, 09 May 2009, 16 May 2009, 30 May 2009, 19 Jun
2009, 27 Jun 2009, 11 Jul 2009, 14 Aug 2009, 12 Sep 2009, 14 Sep

2009, 01 Oct 2009, 24 Dec 2009, 09 Jan 2010 without effect on
Pay and Allces.

J seniority wef 16 Feb 2008

F seniority wef 31 May 2008

R seniority wef 12 Jul 2008

E seniority wef 23 Aug 2008

A seniority wef 11 Sep 2008

D seniority wef 13 Sep 2009

B seniority wef 09 Jan 2009

C seniority wef 01 Feb 2009

I seniority wef 14 Mar 2009

K seniority wef 25 Apr 2009

G seniority wef 08 May 2009

M seniority wef 09 May 2009

N seniority wef 16 May 2009

H seniority wef 30 May 2009

L seniority wef 19 Jun 2009

Q seniority wef 27 Jun 2009

S seniority wef 11 Jul 2009

U seniority wef 14 Aug 2009

X seniority wef 12 Sep 2009

P seniority wef 14 Sep 2009

Y seniority wef 01 Oct 2009

V seniority wef 24 Dec 2009

W seniority wef 09 Jan 2010

**seniority wef 16 Aug 2008

BOMBAY ENGINEER GROUP

To be Sub Maj (Clk SD)

Sub (Clk SD) Nand Lal (JC-348446L), 27 Apr 2010

Sub (Clk SD) Ram Dass (JC-348470F), 12 Jul 2010

To be Sub Maj (GD)

Sub (GD) Wlait Singh (JC-348776K), 01 Apr 2010

Sub (GD) Bagicha Singh (JC-348788Y), 02 Apr 2010

Sub (GD) Santosh Kumar Singh (JC-348199H), 26 Jul 2010

To be Sub Maj (RT)

Sub (RT) Ramesh Chandra Sharma (JC-151495P), 02 Jun
2010

Sub (RT) Surya Nath Shukla (JC-160399F), 03 Jun 2010

To be Sub (Clk SD)

Nb Sub (Clk SD) Pawan Kumar Saini (JC-350173M),
01 May 2010

Nb Sub (Clk SD) Pawar Chandrakant Dadaji (JC-350150L),
01 May 2010

Nb Sub (Clk SD) Mohanan Nair (JC-350176A), 26 Jun 2010

Nb Sub (Clk SD) Bachan Lal Chaparia (JC-350177H),
23 Jun 2010

Nb Sub (Clk SD) Vikil Singh (JC-350175X), 01 Jul 2010
 Nb Sub (Clk SD) Dalpat Singh (JC-350164L), 26 Jul 2010
 Nb Sub (Clk SD) Mukhtar Singh (JC-350178L), 02 Jul 2010
 Nb Sub (Clk SD) Pooran mal (JC-350166W), 06 Jul 2010
 Nb Sub (Clk SD) Sheesh Ram Verma (JC-350180H), 02 Aug 2010
 Nb Sub (Clk SD) Ishwar Chand (JC-350156M), 15 Jul 2010
 To be Sub (GD)
 Nb Sub (GD) Kishan Chand (JC-350376W), 03 Feb 2010
 Nb Sub (GD) Arjun Singh (JC-350410L), 11 Feb 2010
 Nb Sub (GD) Resham Singh (JC-350415K), 01 Mar 2010
 Nb Sub (GD) Lakhvir Singh (JC-350481M), 01 May 2010
 Nb Sub (GD) Tej Singh (JC-350688M), 24 May 2010
 Nb Sub (GD) Dalwinder Singh (JC-350484A), 03 May 2010
 Nb Sub (GD) Swarn Singh (JC-350482P), 01 May 2010
 Nb Sub (GD) Santokh Singh (JC-350483X), 01 May 2010
 Nb Sub (GD) Krishan Kumar (JC-350485H), 03 May 2010
 Nb Sub (GD) Jagdish Singh (JC-350486L), 01 May 2010
 Nb Sub (GD) Dhanawade Ramdas Rajaram (JC-350487N), 01 May 2010
 Nb Sub (GD) Sohan Lal (JC-350489Y), 01 May 2010
 Nb Sub (GD) Narinder Kumar (JC-350430Y), 01 Apr 2010
 Nb Sub (GD) Angrej Singh Yadav (JC-350438L), 01 Apr 2010
 Nb Sub (GD) Sukha Lal (JC-350437H), 02 Apr 2010
 Nb Sub (GD) Inarman (JC-350447M), 18 Apr 2010
 Nb Sub (GD) Daljit Singh (JC-350442N), 01 Apr 2010
 Nb Sub (GD) Shinde Ramdas Parashuram (JC-350461Y), 01 Apr 2010
 Nb Sub (GD) Dalbir Singh (JC-350456N), 01 Apr 2010
 Nb Sub (GD) Kuldeep Singh (JC-350459F), 01 Apr 2010
 Nb Sub (GD) Rajbir Singh (JC-350495M), 01 Apr 2010
 Nb Sub (GD) Kishan Singh (JC-350462F), 01 Apr 2010
 Nb Sub (GD) Kuldeep Singh (JC-350463K), 07 Apr 2010
 Nb Sub (GD) Hansa Singh (JC-350465P), 01 Apr 2010
 Nb Sub (GD) Girdhari Singh (JC-350457W), 01 Apr 2010
 Nb Sub (GD) Bhura Singh Bhardwaj (JC-350498A), 01 Apr 2010
 Nb Sub (GD) Patil Vaman Rao Digambar Rao (JC-350477K), 03 Apr 2010
 Nb Sub (GD) Sanas Yashawant Mugat Rao (JC-350478M), 03 Apr 2010
 Nb Sub (GD) Manoj Kumar CS (JC-350479P), 01 Apr 2010
 Nb Sub (GD) Ajmer Singh (JC-350499H), 01 Apr 2010
 Nb Sub (GD) Balvinder Singh (JC-350592K), 01 Apr 2010
 Nb Sub (GD) Vishwas (JC-350529P), 28 May 2010
 Nb Sub (GD) Ass Mohammed (JC-350505L), 11 Jun 2010

Nb Sub (GD) Sher Singh (JC-350490N), 22 Jun 2010
 Nb Sub (GD) Rawool Mohan Shankar (JC-350506N), 18 Jun 2010
 Nb Sub (GD) Bhanwar Singh Parihar (JC-350507W), 03 Jul 2010
 Nb Sub (GD) Yash pal Singh (JC-350510W), 24 Jun 2010
 Nb Sub (GD) Pralhad Sripati Bangar (JC-350531M), 21 Jun 2010
 Nb Sub (GD) Satyawan (JC-350552H), 28 Jun 2010
 Nb Sub (GD) Tasbbar Ali (JC-350514M), 03 Jul 2010
 Nb Sub (GD) Ajit Singh Negi (JC-350516X), 05 Jul 2010
 Nb Sub (GD) Sarfaraj Ali (JC-350517A), 03 Jul 2010
 Nb Sub (GD) Zahiruddin Khan (JC-350518H), 10 Jul 2010
 Nb Sub (GD) Bisakha Singh (JC-350542Y), 08 Jul 2010
 Nb Sub (GD) Narinder Singh (JC-350521H), 14 Jul 2010
 Nb Sub (GD) Parmatma Singh (JC-350522L), 16 Jul 2010
 Nb Sub (GD) Charan Singh (JC-350509F), 16 Jul 2010
 Nb Sub (GD) Jadhav Suresh Dagadu (JC-350519L), 06 Jul 2010
 Nb Sub (GD) Shinde Subhash Shenfad (JC-350501P), 24 Jun 2010
 Nb Sub (GD) Ajit Singh (JC-350532P), 15 Jul 2010
 To be Sub (SKT)
 Nb Sub (SKT) Kuldip Singh (JC-349442F), 08 May 2010
 Nb Sub (SKT) Jai Prakash Verma (JC-349709L), 23 Jun 2010
 Nb Sub (SKT) Jamail Singh (JC-349720K), 03 Jul 2010
 Nb Sub (SKT) Sabbudin Khan (JC-349543P), 01 Apr 2010
 To be Sub (RT)
 Nb Sub (RT) Dhanwant Singh (JC-151493K), 26 Apr 2010
 Nb Sub (RT) Harmesh Singh (JC-348538X), 01 May 2010
 To be Sub (MUSN)
 Nb Sub (MUSN) Bel Bahadur Thapa (JC-350728H), 22 Apr 2010
 MADRAS ENGINEER GROUP
 To be Subs Sub Maj (GD)
 Sub (GD) Radhakrishnan Pillai K (JC-306646A), 05 Dec 2009
 Sub (GD) Jeevanandan G (JC-306779W), 01 Jan 2010
 Sub (GD) Vaga Ram (JC-306844L), 01 Jan 2010
 Sub (GD) Subbaraj C (JC-306796W), 01 Feb 2010
 To be Subs Sub (GD)
 Nb Sub (GD) C Balasouri Babu (JC-308652M), 01 Jan 2010
 Nb Sub (GD) Alla Sambhi Reddy (JC-308653P), 01 Jan 2010@
 Nb Sub (GD) G Mari Gandan (JC-308657L), 01 Jan 2010
 Nb Sub (GD) Veerappan V (JC-308671X), 01 Jan 2010

Nb Sub (GD) Manisamy A (JC-308673H), 01 Jan 2010
 Nb Sub (GD) D Murali (JC-308675N), 01 Jan 2010
 Nb Sub (GD) Babu Rajan B (JC-308676W), 04 Jan 2010@
 Nb Sub (GD) Shankar Kalappa Devannvar (JC-308677Y),
 15 Jan 2010@
 Nb Sub (GD) PD Dominic (JC-308679K), 11 Jan 2010@
 Nb Sub (GD) Ratheesh PV (JC-308680Y), 01 Jan 2010
 Nb Sub (GD) Biju MM (JC-308689N), 01 Jan 2010
 Nb Sub (GD) BM Kushalappa (JC-308690H), 01 Jan 2010
 Nb Sub (GD) V Kaliyani (JC-308691L), 01 Jan 2010
 Nb Sub (GD) P Rajasekhar (JC-308692N), 01 Jan 2010
 Nb Sub (GD) Sekar (JC-308693W), 01 Jan 2010
 Nb Sub (GD) M Dhakshina Moorthy (JC-308694Y), 01 Jan 2010
 Nb Sub (GD) Kathaligam R (JC-308695F), 01 Feb 2010
 Nb Sub (GD) Sathyamurthy M (JC-308696K), 01 Feb 2010
 Nb Sub (GD) K Ganasegaran (JC-308697M), 01 Feb 2010
 Nb Sub (GD) L Krishnamurthy (JC-308701K), 01 Feb 2010
 Nb Sub (GD) U Easurajan (JC-308702M), 02 Feb 2010#
 Nb Sub (GD) C Sankar (JC-308704X), 01 Feb 2010
 Nb Sub (GD) Gonthena Suryanarayana (JC-308705A),
 01 Feb 2010
 Nb Sub (GD) R Rajendran (JC-308570K), 01 Feb 2010
 Nb Sub (GD) Kandavel G (JC-308571M), 01 Feb 2010
 Nb Sub (GD) Irudaya Raj S (JC-308589H), 01 Feb 2010
 Nb Sub (GD) Gangadharaiah M (JC-308590X), 01 Feb 2010
 Nb Sub (GD) P Murugesan (JC-308591A), 06 Feb 2010#
 Nb Sub (GD) Gudiya Srinivasa Rao (JC-308651K), 01 Feb 2010
 Nb Sub (GD) S Manivannan (JC-308699X), 01 Feb 2010
 Nb Sub (GD) M Mannan (JC-308717P), 10 Feb 2010\$
 Nb Sub (GD) G Parasuraman (JC-308360K), 02 Mar 2010\$
 Nb Sub (GD) S Tamilarasan (JC-308572P), 01 Mar 2010
 Nb Sub (GD) S Arunachalam (JC-308670P), 01 Mar 2010
 Nb Sub (GD) A Sankar (JC-308718X), 01 Mar 2010
 Nb Sub (GD) R Sundara Raj (JC-308719A), 01 Mar 2010\$
 Nb Sub (GD) A Aruthal Manickam (JC-308720P), 01 Mar
 2010
 Nb Sub (GD) Y Victor (JC-308723H), 01 Mar 2010
 Nb Sub (GD) Sivadasan V (JC-308724L), 01 Mar 2010
 Nb Sub (GD) Bastav Souz (JC-308726W), 03 Mar 2010\$
 Nb Sub (GD) Sasidharan N (JC-308727Y), 01 Mar 2010
 *(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 05 Dec 2009
 without effect on pay and allces)
 @(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2010
 without effect on pay and allces)
 #(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2010
 without effect on pay and allces)

\$(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2010
 without effect on pay and allces)

ALKA JOSHI
 Under Secy

AIR BRANCH

No. 686, dated 11 November 2010—The President is pleased
 to make the following Substantive Promotions :—

INDIAN AIR FORCE

EDN BRANCH

To be Subs Gp Capt

Rank, Name, No., BR and Date

GP Capt AK Varshneya (17077), EDN, 01 Apr 2010

GP Capt DC Sikroria (17081), EDN, 24 May 2010

AK SINGH
 Dy Dir Pers (Officer)-2B

AIR FORCE

No. 687, dated 11 November 2010—President is pleased to
 make the following Substantive Promotions:—

INDIAN AIR FORCE

FG Offr To be Subs Flt Lt

AE (M) Branch

R Anand (29334), N Saraswat (29349), Om Prakash (29345),
 VS Rathore (29344), SK Tyagi (29337), M Dixit (29336), S Paul
 (29338), Anshuman (29343), R Singh (29347), S Sehrawat
 (29346), R Sharma (29341), S Sameeuddin (29342), J Francis
 (29335), S Kumar (29340), N Kumar (29339), AK Yadav (29348),
 J Yadav (29350), I Singh (29333)—wef 28 Dec 2007

AE (L) Branch

GK Yadav (29363), A Dixit (29364), NK Sharma (29365), AK
 Prasad (29367), S Tiwari (29368), V Singh (29369), C Soni (29370),
 BL Sharma (29371), A Kumar (29375), PK Verma (29377), N
 Raina (29378), D Datta (29379), VS Chauhan (29380), S Rathore
 (29388), Y Chhetri (29389), RV Chandran (29381), Senthil V
 (29382), P Singhal (29384), K Sharma (29385), P Bhati (29386),
 GS Randhawa (29387), A Rawat (29390), K Chrungu (29391),
 KP Singh (29392), B Singh (29393), S Sharma (29394), P Bhoria
 (29395), V Dagar (29376), S Kaushik (29373), V Gaurav (29372),
 A Ahlwat (29151), A Kumar (29359), A Rattan (29358), AS
 Sachan (29357), A Jain (29352), K Yadav (29374), AK Khullar
 (29362), G Rai (29360), AK Srivastava (29361), PK Tanugula
 (29356), V Sharma (29355), NM Kamath (29351), R Mukhi
 (29353), VV Nair (29383), A Anand (29354), M Singh (29674)
 —wef 28 Dec 2007

F (N) Branch

A Arya (29233), MB Walunj (29177), I Anwar (29246)—wef
 15 Dec 2008

VM MARDIKAR
 Wing Comdr
 Jt Dir Pers Offrs-3(D)

No. 688, dated 11 November 2010—The President is pleased to retire Shri Jose Thomas, Director (DoB : 21 Oct 1950 & CSL No. 3450), Ministry of Defence from Government Service with effect from 31 Oct 2010 (AN) on attaining the age of superannuation.

K MURALI
Under Secy

No. 689, dated 12 November 2010—The President is pleased to retire Ms JJ Kaur, Deputy Secretary (DoB : 02 Oct 1950 & Select List year 2009), Ministry of Defence from Government Service with effect from 31 Oct 2010 (AN) on attaining the age of superannuation.

TPKERKETTA
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 690, dated 12 December 2010—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from the Army Service wef dates noted against them, earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons and transfer them to Regular Reserve of Officers (Class X), under SAI 10/S/63 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

IC No., Rank, Name, Arms/Ser and Date of premature retirement

(IC-47477) Lt Col M J George, Engrs, 29 Feb 2008

(IC-42666) Lt Col Anil Mohan Katarya, AOC, 29 Oct 2008(AN)

(IC-48466) Lt Col Krishnakant A Kawlay, Engrs, 27 Jan 2010(AN)

(IC-48123) Lt Col CM Sini Achan, AOC, 03 Feb 2010(AN)

(IC-47679) Lt Col Vinod Kumar Thapliyal, Engrs, 06 Jan 2010(AN)

(IC-49301) Lt Col Amit Kumar, Inf, 11 Jun 2010(AN)

(IC-48656) Lt Col Puneet Khanna, Inf, 20 Jun 2010(AN)

(IC-57333) Lt Col S Raja, EME, 05 Jul 2010(AN)

(SL-3940) Lt Col Maheswar Mohanty, GS, 30 Apr 2010(AN)

(IC-48820) Lt Col Navin Kumar Dabral, EME, 05 Jul 2010(AN)

(IC-48822) Lt Col Himanshu Ranjan Saxena, AC, 11 Aug 2010(AN)

(IC-49235) Lt Col Divekar Narendra Arun, Arty, 10 Jun 2010(AN)

(IC-48035) Lt Col Prakash Narain Chand, Engrs, 13 Jun 2010(AN)

(IC-47750) Lt Col Sunil Kaushal, Engrs, 05 Jul 2010(AN)

(IC-47832) Lt Col Sanjay Rawal, Engrs, 16 Apr 2010(AN)

(IC-48936) Lt Col John Jacob, Engrs, 10 Apr 2010(AN)

(IC-50774) Lt Col R Varadharaja Perumal, Int, 05 Jul 2010(AN)

(IC-48421) Maj Joyanta Kumar Roy Chowdhury, Int, 02 May 2010(AN)

(IC-49163) Lt Col Manish Kumar, AOC, 30 May 2010(AN)

(IC-48999) Lt Col Amitabh Bhagat, Arty, 31 Jul 2010(AN)

(IC-47513) Lt Col Harinaryanan P, Engrs, 13 Jun 2010(AN)

(IC-44194) Lt Col Akash Sachan, Engrs, 03 Apr 2010(AN)

(IC-52211) Lt Col Virupakshaiah, ASC, 14 May 2010(AN)

SK CHAKRABORTY
Jt Dir, MS/PR

ARMY BRANCH

No. 691, dated 12 November 2010—The President is pleased to permit the under mentioned officer to retire with permission to retain his rank and wearing of uniform :—

TERRITORIAL ARMY

RETIREMENT

Lt Col MK Ahluwalia (TA-42092Y), Inf, 31 May 2010(AN)

JAI RAJ
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 692, dated 15 November 2010:—

CORRIGENDUM

Lt to be Capt

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification No. 142 dated 07 Mar 2000 published on 08 Apr 2000 under the heading "REGULAR ARMY, PERMANENT COMMISSION" and sub heading "Lt to be Capt" the following amendment are made against IC Nos. 56908, 56909, 56910, 56911, 56913, 56914, 56915, 56916, 56917, 56920, 56921, 56923, 56924, 56926 & 56927 :—

For : 10 Dec 1999

Read : 11 Dec 1999

JASWANT SINGH
Jt Dir, MS-8C